



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 1983/फाल्गुन 10, 1904  
No. 73] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 1983/PHALGUNA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

विस्तृत मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिमूचनाएं

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1983

सं० 28/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 112 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नामक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, जो ऐसी चीनी है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन विक्रय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अशुद्ध है, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क में छूट देती है जितना उन्नीस रुपये प्रति क्विंटल की दर से संगणित रुकम से अधिक है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, 1st March, 1983

No. 28/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar, falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), being sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of nineteen rupees per quintal.

सं० 29/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 113(अ) :—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष भुक्त का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, जो ऐसी चीनी है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन विक्रय किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित है, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उन्नीस रुपये प्रति क्विंटल की दर से संगणित रकम से अधिक है।

#### No. 29/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 113(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts sugar, falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), being sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the amount calculated at the rate of nineteen rupees per quintal.

#### सं० 30/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा० का० नि० 114(अ) :**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 286/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1982 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना इकतीस रुपये अस्सी पैसे प्रति क्विंटल की दर से संगणित रकम से अधिक है।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विक्रय किए जाने के लिए अपेक्षित चीनी को लागू नहीं होगी।

#### No. 30/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 114(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 286/82-Central Excises, dated the 1st December, 1982, the Central Government hereby exempts sugar, falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of thirty-one rupees and eighty paise per quintal ;

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

#### सं० 31/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा० का० नि० 115(अ) :**—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना अठारह रुपये बीस पैसे प्रति क्विंटल की दर से संगणित रकम से अधिक है।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा विक्रय किए जाने के लिए अपेक्षित चीनी को, लागू नहीं होगी।

#### No. 31/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 115(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts sugar, falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the amount calculated at the rate of eighteen rupees and twenty paise per quintal ;

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

#### सं० 32/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा० का० नि० 116(अ) :**—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 313/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 दिसम्बर, 1979 को विनिर्दिष्ट करती है।

जितेन्द्र बत्रा, अवर सचिव

#### No. 32/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 116(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957),

the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 313/79-Central Excises, dated the 17th December, 1979.

J. K. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1983

सं० 33/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 117(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1ख के अन्तर्गत आने वाले तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्यों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, छूट देती है।

#### सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्य, सभी प्रकार के।	यदि ऐसे तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्यों का उपभोग उक्त मद सं० 1ख के अंतर्गत आने वाले तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्य के और विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर किया जाता है।
2.	पकाए हुए, छीले हुए और हिमशीतल कीड़े और श्रिम्प।	—
3.	सुखचिक दुग्ध, चाहे उसमें मीठा डाला गया हो या नहीं।	—
4.	दूध दुग्ध के पुनर्योजन के लिए प्रयुक्त मखनिया दुग्ध-चूर्ण।	यदि ऐसा प्रयोग उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र किया जाता है, तो— (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक क्लर्क के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा मखनिया दुग्ध-चूर्ण

(1) (2) (3)

दूध दुग्ध के पुनर्योजन के लिए प्रयोग के लिए प्राशयित हैं; और

(ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

5. ऐसी निमित्तियां जो लस्सी के नाम से जानी जाती हैं।

---

6. निर्जमित मिल्टोन

---

7. पास्चुरीकृत मिल्टोन

---

8. मखनिया दुग्ध-चूर्ण

यदि ऐसा मखनिया दुग्ध-चूर्ण जो किसी ऐसे पात्र में, जिसमें ऐसे मखनियां दुग्ध-चूर्ण का शुद्ध भार 1 किलोग्राम से अधिक नहीं है, विक्रय के लिए पैक किया जाता है।

यदि—

9. खाद्य तिलहन चूर्ण के आधार वाली निमित्तियां

(1) खाद्य तिलहन-चूर्ण अन्तर्वस्तु भार में उक्त निमित्ति के 70 प्रतिशत से कम नहीं हैं;

(2) उक्त निमित्ति में प्रोटीन अन्तर्वस्तु 39 प्रतिशत से कम नहीं हैं; और

(3) उक्त निमित्ति का मूल्य तीन रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है।

New Delhi, the 1st March, 1983

No. 33/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts prepared or preserved foods of the description specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under Item No. 1B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act subject to the conditions, if any, specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

TABLE

S. No.	Description	Condition
(1)	(2)	(3)
1. Prepared or preserved foods, all sorts	If such prepared or preserved foods are consumed within the factory of production for further manufacture of prepared or preserved food falling under the said Item No. IB.	—
2. Cooked, peeled and frozen prawns and shrimps	—	—
3. Flavoured milk, whether sweetened or not	—	—
4. Skimmed milk powder used for regeneration of liquid milk	If such use is elsewhere than in the factory of production,— (i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such skimmed milk powder is intended for use for the regeneration of liquid milk; and (ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.	—
5. Preparations commonly known as lassi	—	—
6. Sterilised miltone	—	—
7. Past urised miltone	—	—
8. Skimmed milk powder	If such skimmed milk powder is packed for sale in a container containing not more than 1 kilogram net of such skimmed milk powder. If—	—
9. Preparations with a basis of edible oil seed flour.	(1) the edible oil seed flour content is not less than 70% by weight of the said preparation; (2) the protein content in the said preparation is not less than thirty nine per cent; and (3) the value of the said preparation does not exceed rupees three per Kilogram.	—

पर उद्ग्रहणीय उसने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे विनिर्दिष्ट माल पर, उसके मूल्य के उस भाग के, जो धातु की लागत दर्शित करता है, जिनमें विनिर्दिष्ट माल कारखाने में हटाने के समय पैक किया जाता है, प्रति निर्देश से उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है।

## सारणी

क्रम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उत्पाद-शुल्क य माल का वर्णन  
सं० और नमक अधिनियम,  
1944 (1944 का  
1) की प्रथम अनु-  
सूची की मद सं०

(1)	(2)	(3)
1. 1 ख	तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्य जो यूनिट आघातों में रखे जाते हैं तथा जो सामान्यतः विक्रय के लिए हैं, और जिनके अन्तर्गत सब्जी, फल, दुग्ध, अनाज, आटा, स्टार्च, पक्षियों, अण्डा, मांस, छड़ों, पशुरक्त, मछली, क्रस्टेशियाई या मोलस्क से तैयार की गई वे वस्तुएं हैं जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों।	
2 1 ग	निम्नलिखित खाद्य उत्पाद जिनके विनिर्माण में या उसके सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया मामूली तौर पर शक्ति की सहायता से की जाती है, अर्थात् :— (1) बिस्कुट, (2) भक्षण चाहे पास्चरीकृत हो या नहीं; (3) पास्चरीकृत या प्रसंस्कृत पनीर।	

## NO. 34/83-CENTRAL EXCISES

## सं० 34/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 118(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का (1) की पहली अनुसूची के उस मद संख्यांक के अन्तर्गत आने वाले माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट माल" कहा गया है), और जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तस्स्थानी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त अधिनियम के अधीन उस

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under the Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table (hereinafter referred to as 'specified goods') from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act as is equivalent to the duty of excise leviable on such specified goods under the said Act with reference to that part of the value hereof which represents the cost of metal containers in which the specified goods are packed at the time of their removal from the factory.

TABLE

S. Item No. of No. First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)	Description of the Excisable Goods
(1)	(2)
1. 1B	Prepared or preserved foods put in unit containers and ordinarily intended for sale including preparations of vegetables, fruit, milk, cereals, flour, starch, birds, eggs, meat, meat offals, animal blood, fish crustaceans or molluscs, not elsewhere specified.
2. 1C	Food products, in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power, the following namely:— (1) Biscuits, (2) Butter, whether pasteurised or not, (3) Pasteurised or Processed Cheese.

सं० 35/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 119(ई) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1B के अन्तर्गत आने वाले, कांच की बोतलों में निकासी किए गए वातित जल को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है।

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1.	वातित जल, जिसमें केवल बबबल से भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कोई अन्य संघटक नहीं डाला गया है— (क) प्रत्येक ऐसी कांच की बोतल के लिए जिसमें 200 मिलीलिटर या कम है (ख) प्रत्येक ऐसी कांच की बोतल के लिए जिसमें 200 मिलीलिटर से अधिक है	5 पैसे। से अधिक प्रत्येक 100 मिलीलिटर या उसके भाग के लिए 3 पैसे।

(1) (2) (3)

2. क्रम सं० 1 में निर्दिष्ट वातित

जल से भिन्न वातित जल—

(क) प्रत्येक ऐसी कांच की 30 पैसे।

बोतल के लिए जिसमें

200 मिलीलिटर या

कम है

(ख) प्रत्येक ऐसी कांच की 30 पैसे घन 200 मिलीलिटर

बोतल के लिए जिसमें से अधिक प्रत्येक 100

200 मिलीलिटर से मिलीलिटर या उसके

अधिक है

भाग के लिए 15 पैसे।

बी० लक्ष्मीकुमारन, अवर सचिव

## NO. 35/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aerated waters cleared in glass bottles and of the description specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under Item No. 1D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rates specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rates specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Description	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Aerated waters which are only charged with carbon dioxide gas under pressure and which contain no other added ingredient— (a) for each glass bottle containing 200 millilitres or less (b) for each glass bottle containing more than 200 millilitres	5 paise 5 paise plus 3 paise for every 100 millilitres or fraction thereof in excess of 200 millilitres.
2.	Aerated waters other than those referred to in Serial No. 1— (a) for each glass bottle containing 200 millilitres or less. (b) for each glass bottle containing more than 200 millilitres	30 paise 30 paise plus 15 paise for every 100 millilitres or fraction thereof in excess of 200 millilitres.

V. LAXMIKUMARAN, Under Secy.

सं० 36/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 120(अ)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के

उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट वर्णन की ओर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद II(2) के अंतर्गत आने वाली सिगरेटों को, उक्त अधिनियमों के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

#### सारणी

वर्णन	दर
(1)	(2)

सिगरेट (जो पैकेजों में पैक की गई सिगरेट हैं) जिनकी प्रति एक हजार समायोजित विक्रय कीमत—

- (i) पचास रुपए से पैंतीस रुपए प्रति एक हजार। अधिक नहीं है
- (ii) पचास रुपए से पैंतीस रुपए प्रति एक हजार घन अधिक है किन्तु पचास रुपए से अधिक समायोजित विक्रय कीमत में साठ रुपए से अधिक नहीं है। पांच रुपए या उसके भाग की प्रत्येक वृद्धि के लिए तीन रुपए पचास पैसे प्रति एक हजार।
- (iii) साठ रुपए से बयालीस रुपए प्रति एक हजार घन अधिक है साठ रुपए से अधिक समायोजित विक्रय कीमत में पांच रुपए या उसके भाग की प्रत्येक वृद्धि के लिए तीन रुपए पचहत्तर पैसे प्रति एक हजार।

परन्तु इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पादशुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच क्रमशः 2.75 : 1.00 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

- (1) सिगरेटों के किसी पैकेज में अंतर्विष्ट प्रत्येक सिगरेट के संबंध में, “समायोजित विक्रय कीमत” से ऐसी यूनिट कीमत अभिप्रेत है जो ऐसे पैकेज की विक्रय कीमत को ऐसे पैकेज में की सिगरेटों की संख्या से विभाजित करके आए :

परन्तु—

- (क) जहां ऐसी सिगरेट, ऐसे पैकेजों में पैक की जाती है जिनमें सिगरेटों की संख्या समान है किन्तु ऐसे पैकेजों की विक्रय कीमत

अलग-अलग हैं वहां प्रत्येक ऐसी सिगरेट के संबंध में समायोजित विक्रय कीमत वह यूनिट कीमत होगी जो ऐसी उच्चतम विक्रय कीमत को ऐसे पैकेज में की सिगरेटों की संख्या से विभाजित करके आए, और

- (ख) जहां ऐसी सिगरेट ऐसे पैकेजों में पैक की जाती है जिनमें सिगरेटों की संख्या भिन्न-भिन्न है वहां प्रत्येक ऐसे पैकेज के लिए यूनिट कीमत का अवधारण प्रत्येक ऐसे पैकेज की विक्रय कीमत को उसमें की सिगरेट की संख्या से विभाजित करके किया जाएगा और ऐसी उच्चतम यूनिट कीमत प्रत्येक ऐसी सिगरेट के संबंध में समायोजित विक्रय कीमत होगी;

- (2) “पैकेजों में पैक की गई सिगरेट” से ऐसी सिगरेट अभिप्रेत हैं जो फूटकर विक्रय के लिए ऐसे पैकेजों में पैक की जाती हैं जिसमें—

- (क) सिगरेटों की संख्या 10, 20, 50 या कोई उच्चतर संख्या है (जो 50 का गुणक है); और

- (ख) ऐसी घोषणा है जिसमें ऐसी घोषणा में विनिर्दिष्ट रकम के रूप में उनकी अधिकतम विक्रय कीमत घन केवल स्थानीय कर विनिर्दिष्ट किए गए हों;

- (3) सिगरेटों के किसी पैकेज के संबंध में, “विक्रय कीमत” से ऐसी अधिकतम कीमत अभिप्रेत है (जिसमें केवल स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं) जिस पर ऐसे पैकेज का, ऐसे पैकेज पर की गई घोषणा के अनुसार विक्रय किया जा सकेगा।

#### No. 36/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 120(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts cigarettes of the description specified in column (1) of the Table below and falling under sub-item II(2) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Acts, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Description	Rate
(1)	(2)
Cigarettes (being cigarettes packed in packages) of which the adjusted sale price per one thousand—	
(i) does not exceed rupees fifty	Thirty-five rupees per one thousand
(ii) exceeds rupees fifty but does not exceed rupees sixty	Thirty-five rupees per one thousand plus three rupees and fifty paise per one thousand for every increase of rupees five or fraction thereof in the adjusted sale price in excess of rupees fifty

(1)	(2)
(iii) exceeds rupees sixty	Forty-two rupees per one thousand plus three rupees and seventy-five paise per one thousand for every increase of five rupees or fraction thereof in the adjusted sale price in excess of rupees sixty:

Provided that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 2.75 : 1.00 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively.

Explanation.—For the purpose of this notification—

- (1) "adjusted sale price", in relation to each cigarette contained in a package of cigarettes, means the unit price arrived at by dividing the sale price of such package by the number of cigarettes in such package :

Provided that.—

- (a) where such cigarettes are packed in package containing the same number of cigarettes but the sale prices of such packages are different, the adjusted sale price in relation to each such cigarette shall be the unit price arrived at by dividing the highest of such sale prices by the number of cigarettes in such package, and
- (b) where such cigarettes are packed in packages containing different number of cigarettes, the unit price for each such package shall be determined by dividing the sale price of each such package by the number of cigarettes therein and the highest of such unit prices shall be the adjusted sale price in relation to each such cigarette;
- (2) "cigarettes packed in packages", means cigarettes which are packed for retail sale, in package which—
- (a) contain 10, 20, 50 or any higher number (being a multiple of 50) of cigarettes, and
- (b) bear a declaration specifying the maximum sale price thereof as the amount specified in the declaration, plus local taxes only ;
- (3) "sale price", in relation to a package of cigarettes means the maximum price (exclusive of local taxes only) at which such package may be sold in accordance with the declaration made on such package.

#### सं० 37/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सांकांमि० 121(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाएं जो इससे उपावद्ध मारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त मारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, यथास्थिति संशोधित या और संशोधित की जाएंगी।

मारणी		
क्रम अधिसूचना सं० और म०	तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1. 43/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982।	उक्त प्रत्येक अधिसूचना में स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—	उक्त प्रत्येक अधिसूचना में स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—
2. 44/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982	“स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जहां उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क में की गई छूट किसी विस्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य या मात्रा पर आधारित है), उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, हिमाव में नहीं ली जाएगी।”	
3. 148/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982।		

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होगी।

#### NO. 37/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date.	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	43/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.	In each of the said notifications, for Explanation II the following Explanation shall be substituted, namely:—
2.	44/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.	“Explanation II.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification, the clearances of any excisable goods, which are exempted from the whole of the duty of excise leviable
3.	148/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.	

1	2	3
		thereon by any other notification (not being a notification where exemption from the whole of the duty of excise leviable thereon is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year) issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force, shall not be taken into account."

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983.

### सं० 38/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां०का०नि० 122(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14च के अन्तर्गत आने वाली प्रसाधन सामग्री और प्रसाधन निर्मितियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए ढाई लाख रुपये से अधिक के कुल मूल्य तक उक्त माल की प्रथम निकासी की बाबत, जिसकी निकासी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की जाती है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर उक्त माल की प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि—

- (1) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से, या
- (2) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से,

देशी उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ढाई लाख रुपये से अधिक हो गया था।

3. जहाँ किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त माल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार उक्त माल की निकासी की है वहाँ हम अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी—

- (1) यदि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक क्लर्क के पास इस आशय की घोषणा फाइल कर देता

है कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य ढाई लाख रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है, और

- (2) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं है।

4. जहाँ उक्त माल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है वहाँ इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य ढाई लाख रुपये से अधिक हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "मूल्य" शब्द से वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका अवधारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किया जाना है।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करके के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्पाद शुल्क माल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्पश्चात् प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जहाँ उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से दी गई छूट किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य या मात्रा पर आधारित है) उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है, हिमाव में नहीं ली जाएगी।

5. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 1983 को प्रवृत्त होगी।

NO. 38/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule 1 of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cosmetics and toilet preparations, falling under Item No. 14F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), (hereinafter referred to as the said goods), in respect of the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto an aggregate value not exceeding rupees two and a half lakhs, cleared on or after the 1st day of April in any financial year, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act ;



Provided that the aggregate value of the first clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at nil rate of duty under this notification shall not exceed rupees two and a half lakhs in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption,—

- (i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or
- (ii) from any factory, by or on behalf of one or more manufacturers,

had exceeded rupees two and a half lakhs during the preceding financial year.

3. Where a manufacturer has not cleared the said goods in the preceding financial year, or has cleared the said goods for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer,—

- (i) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees two and a half lakhs, and
- (ii) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees two and a half lakhs.

4. Where the said goods have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees two and a half lakhs.

Explanation I.—For the purposes of this notification the expression “value” means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification, the clearances of any excisable goods, which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification (not being a notification where exemption from the whole of the duty of excise leviable thereon is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force, shall not be taken into account.

5. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983.

सं० 39/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा०का०नि० 123(घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14 ब के अंतर्गत आने वाली प्रसाधन सामग्री और प्रसाधन निमित्तियों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए पन्द्रह लाख रुपए से अनधिक के कुल मूल्य तक उक्त**

माल की प्रथम निकासी की बाबत, जिसकी निकासी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की जाती है; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने में इस अधिसूचना के अधीन शुल्क को घटी दर पर उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी,—

- (1) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो;
- (ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो।

3. जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त माल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार उक्त माल की निकासी की है वहां इस अधिसूचना में अंतर्निष्ठ छूट ऐसे विनिर्माता की लागू होगी,—

(क) यदि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल कर देता है कि—

- (1) उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है; और
- (2) उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(ख) (i) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के

लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है, और

- (ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी के कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है।

4. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी, -

- (i) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो,
- (ii) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा उनकी ओर से किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो।

5. जहां उक्त माल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है वहां इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी,-

- (i) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो जाता है,
- (ii) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो जाता है।

**स्पष्टीकरण 1-** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'मूल्य' शब्द में वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका अवधारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

**स्पष्टीकरण 2-** इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जहां उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य या मात्रा पर आधारित है), उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, हिसाब में नहीं ली जाएगी।

5. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होगी।

#### No. 39/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 123(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cosmetics and toilet preparations, falling under Item No. 14F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944, (hereinafter referred to as the said goods), in respect of the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto an aggregate value not exceeding rupees fifteen lakhs, cleared on or after the 1st day of April in any financial year, from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act (read with any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in force for the time being) as is in excess of fifty per cent of such duty :

Provided that the aggregate value of clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at the reduced rate of duty under this notification shall not exceed rupees fifteen lakhs in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs ;
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

3. Where a manufacturer has not cleared the said goods in the preceding financial year, or has cleared the said goods for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer,—

(a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise,—

- (i) that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees twenty lakhs, and
- (ii) that the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees fifteen lakhs ; and

- (b) (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees twenty lakhs, and

- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees fifteen lakhs.

4. Nothing contained in this notification shall apply,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs,

- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

5. Where the said goods have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees twenty lakhs,

- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees fifteen lakhs.

Explanation I.—For the purposes of this notification the expression “value” means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification, the clearances of any excisable goods, which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification (not being a notification where exemption from the whole of the duty of excise leviable thereon is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year) issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force, shall not be taken into account.

6. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983.

J. K. BATRA, Under Secy.

सं० 40/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 124(ख).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14 ज के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के उर्वरकों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

No. 40/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fertilizers all sorts, falling under Item No. 14HH of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

सं० 41/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 125(ण).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले और कनेक्टरों या स्विचों के विनिर्माण में प्रयुक्त डाइ-एलिल थैलेट रेजिन को (जिनके अन्तर्गत उनके ढलाई के पाउडर हैं) उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

परन्तु जहां ऐसा प्रयोग उनके उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र किया जाता है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपबर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

NO. 41/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Diallyl Phthalate resins (including moulding powders thereof), falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and used in the manufacture of connectors or switches, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that where such use is elsewhere than in the factory of its production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

सं० 42/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 126(घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उपावृद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

सारणी			(1)	(2)	(3)															
क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन																		
1.	240/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1982	उक्त अधिसूचना में "मूल्य के आठ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "मूल्य के दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।	<p>2. 48/82—Central Excises, dated the 28th February, 1982.</p> <p>In the said notification, for the words "as is in excess of eight per cent ad valorem", the words "under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of ten per cent ad valorem" shall be substituted.</p>																	
2.	48/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 फरवरी, 1982	उक्त अधिसूचना में "उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के आठ प्रतिशत से अधिक है" शब्दों के स्थान पर "उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के दस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है" शब्द रखे जाएंगे।	<p>सं० 43/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क</p> <p>सांकांनि० 127(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 229/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 अक्तूबर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—</p> <p>उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में, क्रम सं० 7 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.</td> <td>I (3)</td> <td>सभी आकारों के</td> <td>मूल्य का</td> <td>—"</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7.50-16 और 9.00-16</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1	2	3	4	5	7.	I (3)	सभी आकारों के	मूल्य का	—"			7.50-16 और 9.00-16		
1	2	3	4	5																
7.	I (3)	सभी आकारों के	मूल्य का	—"																
		7.50-16 और 9.00-16																		

## NO. 42/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	240/82—Central Excises, dated the 1st November, 1982	In the said notification, for the words "Eight per cent ad valorem", the words "ten per cent ad valorem" shall be substituted.

## NO. 43/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 229/82—Central Excises, dated the 15th October, 1982, namely :—

In the Table annexed to the said notification, for S. No. 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7.	I(3)	Tyres for trailers of sizes, namely, 7.50-16 and 9.00-16	Twenty-five per cent ad valorem	—"

## सं० 44/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 128(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले कागज और कागज बोर्ड को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, उसके स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकतम शतों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, छूट देती है।

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर	धर्त
1	2	3	4
1.	प्रतिवर्ग मीटर 65 ग्राम से अनधिक पदार्थ वाले मुद्रण और लेखन कागज की अविरंजित और बादामी किस्में	मूल्य का दस प्रतिशत घन पांच सौ पचहत्तर रुपए प्रति मीटरी टन	---
2.	मुद्रण और लेखन कागज जो ऐसे कागज से भिन्न है जिसमें यांत्रिक काष्ठ लुगदी, फाइबर अन्तर्वस्तु के पचास प्रतिशत से कम नहीं है	कुछ नहीं	यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कागज का दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन में वास्तव में उपयोग किया जाता है और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है : परन्तु यह तब जब कि ऐसे कागज में लुगदी के रूप में उसके पदार्थ में मिथड़ा नहीं है और जहाँ उसमें कोई चिथड़ा है वहाँ उसके पदार्थ में लुगदी के रूप में खोई, जूट वृत या अनाज भूसी, भार के आधार पर, चालीस प्रतिशत से कम नहीं है : परन्तु यह और कि दैनिक समाचार पत्र के मुद्रण की प्रक्रिया में उद्भूत अपशिष्ट का, दैनिक समाचार-पत्र के प्रकाशन में उपयोग में लाए गए ऐसे कागज की कुल मात्रा के अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन रहते हुए, किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग, शुल्क का संदाय किए बिना, किया जा सकेगा यदि समुचित अधिकारी का ऐसी प्रक्रिया में उद्भूत अपशिष्ट के तथ्य के बारे में समाधान हो जाता है और ऐसा अपशिष्ट दैनिक समाचार पत्र के मुद्रण में पुनः उपयोग किए जाने के योग्य नहीं है : परन्तु यह और भी कि यह छूट उक्त कागज की केवल उतनी मात्रा पर अनुज्ञेय होगी जितनी दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत की जाए ।
3.	ब्लॉटिंग कागज	मूल्य का दस प्रतिशत घन एक हजार दो सौ रुपए प्रति मीटरी टन	---
4.	कागज बोर्ड	कुछ नहीं	(i) ऐसे बोर्डों का उपयोग पैकिंग के डिब्बे बनाने में किया जाता है; और (ii) ऐसे बोर्डों के विनिर्माण में उपयोग में लाई गई कच्ची सामग्री का कम से कम 90 प्रतिशत चीड़ के नीड़ल हैं ।
5.	आधारी फिल्टर कागज	कुछ नहीं	---

1	2	3	4
6. ग्रेल कागज	कुछ नहीं	परन्तु यह तब जब कि ऐसे कागज का प्रदाय राष्ट्रीय चक्षु विकलांग संस्थान, देहरादून द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्र पर अंधों के स्कूल या अंधों के मुद्रणालय को सीधे किया जाता है।	
7. डुप्ले कागज बोर्ड	कुछ नहीं	(i) यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा डुप्ले कागज बोर्ड दुग्ध को पैक करने में उपयोग में लाने के लिए निम्न घनत्व पालिएथिलीन संसेचित कागज बोर्ड के विनिर्माण में उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित है; और (ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।	
8. एस्फाल्टी छत की चावरें	कुछ नहीं		---
9. विद्युत ग्रेड विद्युतरोधी कागज या कागज बोर्ड	कुछ नहीं		---
10. सभी प्रकार के कागज जो सामान्यतया क्राफ्ट कागज के नाम से ज्ञात हैं, जिसके अन्तर्गत क्राफ्ट लाइनर या नालीदार करने के माध्यम के रूप में ज्ञात कागज और कागज बोर्ड है जिसका पदार्थ प्रत्येक दशा में 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक है।	मूल्य का दस प्रतिशत धन एक हजार आठ सौ दस रुपए प्रति मीटरी टन।		---
11. निम्नलिखित किस्म के कागज, बोर्ड, अर्थात् लुगवी बोर्ड, डुप्ले बोर्ड और ट्रिप्ले बोर्ड।	मूल्य का दस प्रतिशत धन एक हजार आठ सौ दस रुपए प्रति मीटरी टन।		---
12. मिलबोर्ड और स्ट्राबोर्ड	मूल्य का दस प्रतिशत धन छह सौ पचहत्तर रुपए प्रति मीटरी टन।		---
13. क्रम सं० 1 से 12 में विनिर्दिष्ट से भिन्न कागज और कागज बोर्ड	मूल्य का दस प्रतिशत धन एक हजार चार सौ तीस रुपए प्रति मीटरी टन।		---

**स्पष्टीकरण :—**इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(क) “दैनिक समाचार पत्र” से ऐसी मुद्रित नियत-कालिक कृति अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समा-समाचार या सार्वजनिक समाचारों की समीक्षाएं होती हैं और जो सप्ताह में कम से कम छह दिन प्रकाशित किया जाता है और जिसके मुद्रक और प्रकाशक ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) के अधीन घोषणा की है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इसके अन्तर्गत उस समाचार पत्र का अनु-पूरक या विशेष या साप्ताहिक संस्करण है।

(ख) “लुगवी के रूप में उसके पदार्थ में चिथड़ा” के अन्तर्गत ऐसी लुगवी नहीं है जो परिधानों के फटे-पुराने टुकड़ों से निकाले गए मैले-कुचैले चिथड़ों से या कपड़ों के मैले-कुचैले स्क्रेप से (जिनका संग्रह या तो आवासीय क्वार्टरों से या सड़कों से या मलबे के कचरे में से किया गया है) या परिधानों के ऐसे फटे-पुराने टुकड़ों या कपड़ों के मैले-कुचैले स्क्रेप से बनाई गई हो।

(ग) “मिल बोर्ड” से कोई ऐसा अविरजित सजातीय बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिली-मीटर से अधिक है और जो स्क्रीनिंग और

यांत्रिक लुगदी सहित या उसके बिना मिश्रित रद्दी कागजों से बनाया गया है किन्तु उसमें कोई रंजक द्रव्य नहीं मिलाया गया है;

- (घ) "स्ट्राबोर्ड" से ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जो अंशतः पकाए गए अखिरंजित स्ट्रा या खोई या घासों या अन्य कृषि अवशेषों या इनमें से किसी के मिश्रण से पूर्णतः या प्रमुखतः बनाया जाता है :

परन्तु—

- (i) किसी अन्य सामग्री की मात्रा, जो प्रयोग की जाती है, संघटकों के कुल भार के एक तिहाई भार से अधिक नहीं होगी, और

- (ii) ऐसे बोर्ड को विशेष रूप से संपीड़ित नहीं किया जाएगा और उसकी किसी भी सतह पर कोई कागज नहीं चिपकाया जाएगा।

#### NO. 44/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 128(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts paper and paper boards of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (4) thereof.

TABLE

S. No.	Description	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unbleached and badami varieties of printing and writing paper of a substance not exceeding 65 grammes per square metre.	Ten per cent ad valorem plus five hundred and seventy five rupees per metric tonne.	—
2.	Printing and writing paper other than paper containing mechanical wood pulp amounting to not less than fifty per cent. of the fibre content.	Nil	If an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such paper is actually used in the publication of a daily newspaper, and the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed: Provided that such paper contains no rags in its substance in the form of pulp, and where it contains rags, it also contains in its substance not less than forty per cent by weight of bagasse, jute stalks or cereal straw in the form of pulp: Provided further that the waste arising in the process of printing of a daily newspaper, subject to a maximum of ten per cent. of the total quantity of such paper used in the publication of the daily newspaper may be used for any other purpose without payment of duty if the proper officer is satisfied about the fact of waste resulting in the process and such waste is not capable of being used again in the printing of the daily newspaper : Provided also that this exemption shall be admissible only on such quantities of the said paper as may be authorised by the Registrar of Newspapers of India for publication of the daily newspaper.
3.	Blotting paper.	Ten per cent. ad valorem plus one thousand and two hundred rupees per metric tonne.	—
4.	Paper boards.	Nil	(i) Such boards are used for making packing cases; and (ii) At least 90% of the raw materials used in the manufacture of such boards are pine needles.
5.	Base filter paper.	Nil	—

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Braile paper	Nil	Provided that such paper is supplied direct to a school for the blind or to a blind press against in intent placed by the National Institute for Visually Handicapped, Dehra Dun.
7	Duplex paper board.	Nil	(i) If it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that such Duplex paper board is required for use in the manufacture of low density polyethylene laminated board to be used for packaging of milk; and (ii) The procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
8.	Asphaltic roofing sheets.	Nil	—
9.	Electrical grade insulating paper or paper board.	Nil	—
10.	All sorts of paper commonly known as kraft paper, including paper and paper board of the type known as kraft liner or corrugating medium, of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metre in each case.	Ten per cent. ad valorem plus one thousand eight hundred and ten rupees per metric tonne.	—
11.	Paper board of the following varieties, namely, pulp board, duplex board and triplex board.	Ten per cent. ad valorem plus one thousand eight hundred and ten rupees per metric tonne.	—
12.	Millboard and straw board.	Ten per cent. ad valorem plus six hundred and seventy-five rupees per metric tonne.	—
13.	Paper and paper boards other than these specified in S. Nos. 1 to 12.	Ten per cent. ad valorem plus one thousand four hundred and thirty rupees per metric tonne.	—

Explanation.—For the purposes of this notification :—

- 'Daily newspaper' means any printed periodical work containing public news or comments on public news, which is published on not less than six days in a week, and the printer and publisher of which have made and subscribed a declaration under the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), and includes any supplement or special or weekly edition of such news paper.
- 'rags in its substance in the form of pulp' does not include pulp made out of soiled rags taken from worn and torn pieces of garments, or from soiled scraps of cloth (collected either from residential quarters or from streets or from debris dumps) or from such worn and torn pieces of garments and soiled scraps or cloth.
- 'millboard' means any unbleached homogenous board, having a thickness exceeding 0.50 millimetre and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto;
- 'straw board' means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or other agricultural residues or a mixture of these :

Provided that—

- the quantity of any other material used shall not exceed one third in weight of the total weight of the ingredients, and

- such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

सं० 45 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 129(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 70/76—केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क तारीख 16 मार्च, 1976 को अधिग्रहण करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले स्ट्राबोर्ड और मिलबोर्ड को, दोनों को मिलाकर, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मात्रा तक, जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान देशी उपभोग के लिए किसी विनिर्माता द्वारा निकासी की जाती है, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उसने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।



## सारणी

मात्रा	दर
(1)	(2)
पहले 500 मीटर टन पर	मूल्य का 10 प्रतिशत धन एक सौ पचास रुपए प्रति मीटर टन।
अगले 500 मीटर टन पर	मूल्य का 10 प्रतिशत धन चार सौ पचास रुपए प्रति मीटर टन।

परन्तु इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट घटी दर पर एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से देशी उपभोग के लिए किसी कारखाने से स्ट्राबोर्ड और मिल बोर्ड की कुल निकासी किसी वित्तीय वर्ष में सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यह और कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 181/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 1972 के अधीन मिल बोर्ड की जितनी मात्रा को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है उसे इस अधिसूचना से उपाब्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मात्रा को संगणना करते समय हिसाब में लिया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि 1 अप्रैल, 1982 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् निकासी किए गए स्ट्राबोर्ड और मिल बोर्ड के लिए इस अधिसूचना के अधीन लागू दर का अवधारण करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) को अधिसूचना सं० 70/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 के उपबन्धों के अधीन उक्त तारीख के पूर्व पहले ही निकासी की गई उक्त स्ट्रा बोर्ड और मिल बोर्ड की मात्रा को भी हिसाब में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “मिल बोर्ड” से कोई ऐसा अतिरंजित सजातीय बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी मोटाई 0.50 मिली मीटर से अधिक है और जो स्क्रीनिंग और यांत्रिक लुगदी सहित या उसके बिना मिश्रित रद्दी कागजों से बनाया गया है किन्तु उसमें कोई रंजक द्रव्य नहीं मिलाया गया है;

(ख) “स्ट्राबोर्ड” से ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जो अंशतः—पकाए गए अतिरंजित स्ट्रा या खोई या घासों या अन्य कृषि अवशेषों या इनमें से किसी के मिश्रण से पूर्णतः या प्रमुखतः बनाया जाता है;

## परन्तु—

- किसी अन्य सामग्री की मात्रा, जो प्रयोग की जाती है, संघटकों के कुल भार के एक तिहाई भार से अधिक नहीं होगी, और
- ऐसे बोर्ड को विशेष रूप से संपीड़ित नहीं किया जाएगा और उसकी किसी भी सतह पर कोई कागज नहीं चिपकाया जाएगा।

2. इस अधिसूचना में अंतर्निष्ठ कोई बात कागज बोर्ड के ऐसे किसी विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सं० 89/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 के अधीन छूट का लाभ उठाता है।

## NO. 45/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 70/76-Central Excises dated the 16th March, 1976, the Central Government hereby exempts straw board and mill board, falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), taken together, upto a quantity specified in column (1) of the Table hereto annexed, cleared by any manufacturer for home consumption during any financial year, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table :

TABLE

Quality	Rate
1	2
On the first 500 metric tonnes	10 per cent. <i>ad valorem</i> plus one hundred and fifty rupees per metric tonne.
On the next 500 metric tonnes	10 per cent. <i>ad valorem</i> plus four hundred and fifty rupees per metric tonne.

Provided that the aggregate clearances of straw board and mill board from any factory, for home consumption, by or on behalf of one or more manufacturers, at the reduced rate as specified in this notification, shall not exceed the limits specified in column (1) of the Table in any financial year :

Provided further that any quantity of mill board exempted from duty of excise under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 181/82-Central Excises dated the 29th July, 1972, shall be taken into account for computing the quantity referred to in column (1) of the Table appended to this notification.

Provided also that for the financial year beginning with the 1st day of April, 1982 and ending on the 31st day of March, 1983, for determining the rate applicable, under this notification, for strawboard and millboard cleared on or after the 1st day of March, 1983, the quantity of the said strawboard and millboard already cleared prior to the said date under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 70/76-Central Excises,

dated the 16th March, 1976, shall also be taken into account.

Explanation.—For the purposes of this notification—

- (a) 'mill board' means any unbleached homogenous board, having a thickness exceeding 0.50 millimetre and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto ;
- (b) 'straw board' means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or other agricultural residues or a mixture of these :

Provided that—

- (i) the quantity of any other material used shall not exceed one-third in weight of the total weight of the ingredients, and
- (ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer of paper board who avails of the exemption under the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/80-Central Excises, or No. 89/80-Central Excises, both dated the 19th June, 1980.

सं० 46/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 130(प्र):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 128/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिकांश करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले कागज को जिसमें खोई, जूट धृन्त, अनाज भूसी, हाथी घास (इंपेरेटा सिलिड्रिका) मेस्ता (केनफ) या अपशिष्ट कागज से बनाई गई लुगदी, भार के आधार पर पचास प्रतिशत से कम नहीं है, जिसको किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् देशी उपभोग के लिए निकासी की जाती है, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट जितना उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते छूट देती है।

सारणी

वर्णन	दर
(1)	(2)
कागज जो कागज बोर्ड, सिगरेटी कागज, क्लेसरीन कागज, ग्रीस रोधी कागज, लपित कागज (जिसके अन्तर्गत मोमी कागज है) और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम से अधिक पदार्थ वाले कागज से भिन्न है।	(i) 560 रु० प्रति मीटरी टन, यदि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से सभी किस्म के कागज और कागज बोर्ड की निकासी

(1)

(2)

की कुल मात्रा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 3000 मीटरी टन से अधिक नहीं है।

(ii) 900 रु० प्रति मीटरी टन, यदि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से सभी किस्म के कागज और कागज बोर्ड की निकासी की कुल मात्रा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 3000 मीटरी टन से अधिक है किन्तु 7,500 मीटरी टन से अधिक नहीं है।

(iii) 1120 रु० प्रति मीटरी टन, यदि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से सभी किस्म के कागज और कागज बोर्ड की निकासी की कुल मात्रा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 7,500 मीटरी टन से अधिक है किन्तु 16,500 मीटरी टन से अधिक नहीं है :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे कारखाने में—

(i) बांस या काष्ठ लुगदी बनाने के लिए उससे कोई संयंत्र संलग्न नहीं है; और

(ii) लुगदी से कागज का विनिर्माण किया जाता है।

2. इस अधिसूचना की कोई बात कागज के ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 89/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 या 83/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 के अधीन छूट का लाभ उठाता है।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होगी।

## NO. 46/83-CENTRAL EXCISES

सं० 47/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**G.S.R. 130(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 127/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts paper of the description specified in column (1) of the Table annexed hereto, falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing not less than fifty per cent by weight of pulp made from bagasse, jute stalks, cereal straw, elephant grass (*Imperata Cylindrica*) mesta (Kenaf) or waste paper, cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rates specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, subject to the conditions specified therein.

TABLE

Description	Rates
1	2
Paper, other than paper boards, cigarette tissue, glassine paper, grease proof paper, coated paper (including waxed paper) and paper of a substance not exceeding 25 grammes per square metre.	(i) Rs. 560 per metric tonne, if the total quantity of clearances of all varieties of paper and paper board in the preceding financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or from a factory, by or on behalf of one or more manufacturers did not exceed 3000 metric tonnes.
	(ii) Rs. 900 per metric tonne, if the total quantity of clearances of all varieties of paper and paper board in the preceding financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or from a factory by or on behalf of one or more manufacturers exceeded 3,000 metric tonnes but did not exceed 7,500 metric tonnes.
	(iii) Rs. 1120 per metric tonne, if the total quantity of clearances of all varieties of paper and paper board in the preceding financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or from a factory by or on behalf of one or more manufacturers exceeded 7,500 metric tonnes but did not exceed 16,500 metric tonnes :

Provided that the factory—

(i) does not have a plant attached thereto for making bamboo or wood pulp; and

(ii) manufactures paper out of pulp.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer of paper who avails of the exemption under the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 89/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 or No. 83/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983.

सां० कां० निं० 131 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 129/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधि-क्रांत करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नभक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले कागज को जिसमें खोई, जूट वृन्त, अनाज भूसी, हाथी घास (इपेरेटा सिलिड्रिका), मेस्ता (केनफ) या अपशिष्ट कागज से बनाई गई लुगदी, भारत के आधार पर पचास प्रतिशत से कम नहीं है, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्तम उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1.	सभी प्रकार के कागज जो सामान्य तथा ऋफ्ट कागज के नाम से ज्ञात है, जिसके अंतर्गत ऋफ्ट लाइनर या नालीदार करने के माध्यम के रूप में ज्ञात कागज है जिसका पदार्थ प्रत्येक दशा में 65 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक है।	मूल्य का सात प्रतिशत धन एक हजार एक सौ अस्सी रुपये प्रति मीटरी टन।
2.	अन्य	मूल्य का सात प्रतिशत धन नौ सौ पच्चीस रुपये प्रति मीटरी टन :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्दिष्ट छूट कागज बोर्ड, सिगरेटी कागज, र्लेसीन कागज, ग्रीस रोधी कागज, लेपित कागज (जिसके अंतर्गत मोमी कागज है) और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम से अधिक पदार्थ वाले कागज को लागू नहीं होगी।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होगी।

## NO. 47/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 131(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 129/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central

Government hereby exempts paper of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, falling under sub-item (1) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing not less than fifty per cent. by weight of pulp made from bagasse, jute stalks, cereal straw, elephant grass (*Imperata Cylindrica*, mesta (Kenaf) or waste paper, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in column (3) thereof.

TABLE

S. No.	Description	Rate
1	2	3
1.	All sorts of paper commonly known as kraft paper, including paper of the type known as kraft liner or corrugating medium, of a substance equal to or exceeding 65 grammes per square metre in each case.	Seven per cent. <i>ad valorem</i> plus one thousand one hundred and eighty rupees per metric tonne.
2.	Others	Seven per cent. <i>ad valorem</i> plus nine hundred and twenty-five rupees per metric tonne :

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to paper board, cigarette tissue, glassine paper, grease proof paper, coated paper (including waxed paper) and paper of a substance not exceeding 25 grammes per square metre.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983.

सं० 48/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 132(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) या (राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग की प्रत्येक अधिसूचनाएं उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानों प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथा स्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	181/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 जुलाई 1972	उक्त अधिसूचना में “उपमद (2)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “उपमद (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(1)	(2)	(3)
2.	99/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 मार्च, 1973	उक्त अधिसूचना में, “उपमद (2)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “उपमद (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
3.	278/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 नवम्बर, 1976	उक्त अधिनियम से उपाबद्ध सारणी में, अंम सं० 2 के सामने, स्तम्भ (3) में, “15 प्रतिशत मूल्यानुसार” अंकों और शब्दों के स्थान पर “मूल्य का 10 प्रतिशत धन एक सौ पचहत्तर रुपए प्रति मीटरी टन” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
4.	311/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 2 नवम्बर, 1977	उक्त अधिसूचना में, “उपमद (2)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “उपमद (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
5.	16/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 जनवरी, 1978	उक्त अधिसूचना में, “उपमद (2)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “उपमद (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
6.	89/80—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 19 जून, 1980	उक्त अधिसूचना में,— (क) पहले पैरा के प्रारंभिक भाग में, “मूल्य का बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “मूल्य के दस प्रतिशत धन छह सौ रुपए प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे। (ख) पैरा 2 में, उप पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— “(ii) जो भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (या राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 128/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977, सं० 129/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून,

(1)	(2)	(3)
		1977, सं० 311/77- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 नवम्बर, 1977, सं० 16/78-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 24 जनवरी, 1978 और सं० 45/83- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 के अधीन छूट का लाभ उठाता है।"
7. 142/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 8 जुलाई, 1981		उक्त अधिसूचना में, "उपमद (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपमद (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
8. 62/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982		उक्त अधिसूचना में, "उपमद (1) और (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपमद (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
9. 63/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 फरवरी, 1982		उक्त अधिसूचना में, "उपमद (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपमद (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
10. 67/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 फरवरी, 1982		उक्त अधिसूचना में, "मद सं० 17 की उपमद (4) के अंतर्गत आने वाली" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "मद सं० 17 के अंतर्गत आने वाली" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
11. 68/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 फरवरी, 1982		उक्त अधिसूचना में, "मद सं० 17 की उपमद (4) के अंतर्गत आने वाले" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "मद सं० 17 के अंतर्गत आने वाले" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
12. 279/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 22 नवम्बर, 1982		उक्त अधिसूचना में, "मद सं० 17 की उपमद (4) के अंतर्गत आते हैं" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "मद सं० 17 के अंतर्गत आते हैं" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

## NO. 48/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 132(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or (Department of Revenue and Insurance), or in the Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	181/72-Central Excises, dated the 29th July, 1972.	In the said notification, for the word, brackets and figure "sub-item (2)" the word, brackets and figure "sub-item(1)" shall be substituted.
2.	99/73-Central Excises, dated the 24th March, 1973.	In the said notification, for the word, brackets and figure "sub-item (2)", the word, brackets and figure "sub-item (1)" shall be substituted.
3.	278/76-Central Excises, dated the 17th November, 1976.	In the Table annexed to the said notification, against S. No. 2 in column (3), for the figures and words "15 per cent. <i>ad valorem</i> ", the figures and words "10 per cent. <i>ad valorem</i> plus one hundred and seventy-five rupees per metric tonne" shall be substituted.
4.	311/77-Central Excises, dated the 2nd November, 1977.	In the said notification, for the word, brackets and figure "sub-item (2)", the word, brackets and figure "sub-item (1)", shall be substituted.
5.	16/78-Central Excises, dated the 24th January, 1978.	In the said notification, for the word, brackets and figure "sub-item (2)", the word, brackets and figure "sub-item (1)", shall be substituted.
6.	89/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980.	In the said notification, (a) in the opening portion of the first paragraph, for the words "twenty per cent. <i>ad valorem</i> ", the words "ten per cent. <i>ad valorem</i> plus six hundred rupees per metric tonne", shall be substituted. (b) in paragraph 2, for sub-paragraph (ii), the following shall be substituted, namely :— “(ii) who avails of the exemption under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or Department of Revenue and Banking, as the case may be, No. 128/77-Central Excises, dated the 18th

1	2	3	सारणी		
			क्रम सं०	वर्णन	दर
			(1)	(2)	(3)
					रुपए प्रति किलोग्राम
		June, 1977, No. 129/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, No. 311/77-Central Excises, dated the 2nd November, 1977, No. 16/78-Central Excises, dated the 24th January 1978 and No. 45/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983."			
7. 142/81-Central Excises, dated the 8th July, 1981.	In the said notification, for the word, brackets and figure "sub-item (2)", the word, brackets and figure "sub-item (1)", shall be substituted.		1.	सेलुलोसी मूल का मटेपिल फाइबर और टा	4.00
8. 62/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.	In the said notification, for the words, brackets and figures "sub-items (1) and (2)" the word, brackets and figure "sub-item (1)", shall be substituted.		2.	असेलुलोमी मूल का मटेपिल फाइबर और टा—	
			(क)	पॉलिग्रेस्टर फाइबर	36.00
			(ख)	एक्राइलिक फाइबर	24.00
			(ग)	अन्य	30.00
9. 63/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.	In the said notification, for the word, brackets and figure "sub-item (2)", the word, brackets and figure "sub-item (1)" shall be substituted.			परन्तु एक्राइलिक फाइबर को उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट होगी जो चौदह रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है यदि ऐसा एक्राइलिक फाइबर भारत में उत्पादित एक्राइल-माइडिल से विनिर्मित किया गया है।	
10. 67/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.	In the said notification, for the words, brackets and figures "falling under sub-item (4) of item No. 17", the words and figures "falling under item No. 17", shall be substituted.		3.	कृत्रिम फिलामेंट सूत जिसमें पूर्णतः सेलुलोसी व्युत्पाद या पुनर्योजित सेलुलॉस या दोनों हों :—	
11. 68/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.	In the said notification, for the words, brackets and figures "falling under sub-item (4) of item No. 17", the words and figures "falling under Item No. 17", shall be substituted.		(क)	एसीटेट सूत	
			(i)	75 डेनियर से कम	12.45
			(ii)	5 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 100 डेनियर से कम	9.35
			(iii)	100 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 120 डेनियर से कम	6.95
			(iv)	120 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 150 डेनियर से कम	4.80
			(v)	150 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 350 डेनियर से कम	4.45
			(vi)	350 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 1100 डेनियर से अनधिक	3.65
			(vii)	1100 डेनियर से अधिक	2.55
12. 279/82-Central Excises, dated the 22nd November, 1982.	In the said notification, for the words, brackets and figures "falling under sub-item (4) of Item No. 17", the words and figures "falling under Item No. 17", shall be substituted.		(ख)	अन्य	
			(i)	75 डेनियर से कम	17.10
			(ii)	75 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 100 डेनियर से कम	11.10
			(iii)	100 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 120 डेनियर से कम	7.95
			(iv)	120 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 150 डेनियर से कम	6.60
			(v)	150 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 350 डेनियर से कम	5.65
			(vi)	350 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 1100 डेनियर से अनधिक	3.80
			(vii)	1100 डेनियर से अधिक	2.50

#### सं० 49/83- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 133(प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 के अंतर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कृत्रिम फाइबर और सूत को, जो संयोजित से भिन्न है, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उसके स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।

(1)	(2)	(3)
4. अन्य संश्लिष्ट सूत--		
(क) कृत्रिम मैटेनिक सूत	कुछ नहीं	
परन्तु यह छूट केवल ऐसे कृत्रिम मैटेनिक सूत का लागू होगी जिनके विनिर्माण में ऐसे पालिएस्टर फिल्म या मैटेलाइज्ड पालिएस्टर फिल्म का उपयोग किया गया है जिस पर, यथास्थिति, उक्त अधिनियम के अधीन समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संदाय कर दिया गया है।		
स्पष्टीकरण : इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, ऐसे फिल्म पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के बारे में यह माना जाएगा कि उसका संदाय कर दिया गया है, यदि उसका क्रय बाजार से किया गया है।		
(ख) पालिएमाइड (नाईलॉन) सूत		
(i) 35 डेनियर से कम	64. 80	
(ii) 35 डेनियर और उससे अधिक किंतु 80 डेनियर से कम	57. 80	
(iii) 80 डेनियर और उससे अधिक किंतु 110 डेनियर से कम	44. 80	
(iv) 110 डेनियर और उससे अधिक किंतु 150 डेनियर से कम	37. 80	
(v) 150 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 750 डेनियर से अनधिक	19. 60	
(vi) 750 डेनियर से अधिक	6. 50	
(ग) पालिएस्टर सूत		
(i) 30 डेनियर से कम	83. 00	
(ii) 30 डेनियर और उससे अधिक किंतु 75 डेनियर से कम	76. 00	
(iii) 75 डेनियर और उससे अधिक किंतु 100 डेनियर से कम	69. 00	
(iv) 100 डेनियर और उससे अधिक किंतु 750 डेनियर से अनधिक	55. 00	
(v) 750 डेनियर से अधिक	15. 00	
(घ) अन्य--		
(i) 30 डेनियर से कम	56. 00	
(ii) 30 डेनियर और उससे अधिक किंतु 75 डेनियर से कम	49. 00	
(iii) 75 डेनियर और उससे अधिक किंतु 100 डेनियर से कम	35. 00	

(1)	2	3
(iv) 100 डेनियर और उससे अधिक किंतु 750 डेनियर से अनधिक		28. 00
(v) 750 डेनियर से अधिक		5. 00

परन्तु विभक्त (स्पिन्ड) सूत का उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट होगी यदि ऐसे विभक्त सूत का उत्पादन ऐसे विभक्त सूत के लिए मातृ (मदर) सूत में किया गया है जिन पर, यथास्थिति, उक्त अधिनियम के अधीन समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संदाय कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, विभक्त सूत के लिए मातृ सूत के मामले में डेनियर (निम्नतर डेनियर का) एकल मोनो फिलामेंट सूत, जिसमें धातु सूत भी, का डेनियर होगा :

## NO. 49/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts man-made fibres and yarns, other than textured, falling under Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

TABLE

S. No.	Description	Rate
1	2	3
		Rupces per Kilogram
1.	Staple fibre and tow of cellulosic origin	4.00
2.	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin—	
	(a) polyester fibre	36.00
	(b) acrylic fibre	24.00
	(c) others	30.00
Provided that acrylic fibre shall be exempted from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act as is in excess of rupees fourteen per kilogram if such acrylic fibre has been manufactured from acrylonitrile produced in India.		
3.	Man-made filament yarn, consisting wholly of cellulosic derivatives or regenerated cellulose or both—	
	(a) Acetate yarn	
	(i) below 75 deniers .	12.45
	(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers	9.35
	(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers	6.95
	(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers	4.80

1	2	3
(v) 150 deniers and above but below 350 deniers		4.45
(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers		3.65
(vii) above 1100 deniers		2.55
(b) Others		
(i) below 75 deniers		17.10
(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers		11.10
(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers		7.95
(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers		6.60
(v) 150 deniers and above but below 350 deniers		5.65
(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers		3.80
(vii) above 1100 deniers		2.50
4. Other synthetic yarn—		
(a) Man-made metallic yarn		Nil :
Provided that this exemption shall be applicable only to such man-made metallic yarn in the manufacture of which polyester film or metallised polyester film on which the appropriate duty of excise under the said Act, or, as the case may be, the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), has already been paid, is used.		
Explanation.—For the purposes of this proviso, appropriate duty of excise or additional duty leviable on such film, shall be deemed to have been paid if it has been purchased from the market.		
(b) Polyamide (nylon) yarn—		
(i) below 35 deniers		64.80
(ii) 35 deniers and above but below 80 deniers		57.80
(iii) 80 deniers and above but below 110 deniers		44.80
(iv) 110 deniers and above but below 150 deniers		37.80
(v) 150 deniers and above but not above 750 deniers		19.60
(vi) above 750 deniers		6.50
(c) Polyester yarn—		
(i) below 30 deniers		83.00
(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers		76.00
(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers		69.00
(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers		55.00
(v) above 750 deniers		15.00
(d) Others—		
(i) below 30 deniers		56.00
(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers		49.00

1	2	3
(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers		35.00
(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers		28.00
(v) above 750 deniers		5.00

Provided that split yarn shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon, if such split yarn has been produced from mother yarn for split yarn on which the appropriate duty of excise under the said Act or, as the case may be, the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), has already been paid.

Explanation.—For the purposes of this notification, in the case of mother yarn for split yarn the denier shall be the denier of the single mono-filament yarn (of the lowest denierage) comprising the mother yarn.

J. K. BATRA, Under Secy.

### सं० 50/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 134 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) और वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 50 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 181-82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 मई, 1982 का विखंडन करती है।

### NO. 50/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and sub-section (4) of section 50 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 181/82-Central Excises, dated the 11th May, 1982.

### सं० 51/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 135 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 274/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1982 को अधिक्रांत करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 की उपमद II (i) (ख) के अन्तर्गत आने वाले टेक्सचरीकृत सूत को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है।



सारणी		
क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1.	पाणिप्लाईड (नार्लोन) टैक्सचरीकृत सूत— रु० प्रति किलो किलोग्राम	
(i)	38.5 डेनियर से कम	69.80
(ii)	38.5 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 88 डेनियर से कम	62.80
(iii)	88 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 121 डेनियर से कम	49.80
(iv)	121 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 165 डेनियर से कम	42.80
(v)	165 डेनियर और उससे अधिक	24.60
2.	पालिएस्टर टैक्सचरीकृत सूत—	
(i)	33 डेनियर से कम	88.00
(ii)	33 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 82.5 डेनियर से कम	81.00
(iii)	82.5 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 110 डेनियर से कम	74.00
(iv)	110 डेनियर और उससे अधिक	60.00
3.	अन्य	90.00

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में, टैक्सचरीकृत सूत का डेनियर नीचे विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :—

- एक चेष्टन रील का उपयोग करके तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि उर्मिल को हटाने न कि सूत फैलाने के लिए रील में लपेटते समय खिचाव ठीक ठीक और बराबर रहे, 90 मीटर सूत नाप कर अलग कर लिया जाएगा;
- तत्पश्चात् 90 मीटर सूत को एक यथार्थतापी तुला पर तोल लिया जाएगा और भार ग्रामों में नोट किया जाएगा;
- तत्पश्चात् ऐसे सूत का डेनियर खंड (ii) के अधीन नोट किए गए भार को 100 से गुणा करके परिकलित किया जाएगा;
- प्लाई किए हुए टैक्सचरीकृत सूत की दशा में खंड

(iii) के अधीन परिकलित किए गए डेनियर को उस सूत में की प्लाई की संख्या से भाग दिया जाएगा जिसे कि एकल प्लाई सूत का डेनियर परिकलित किया जा सके।

## NO. 51/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 274/82-Central Excises, dated the 13th November, 1982, the Central Government hereby exempts textured yarn of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II(i)(b) of Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is excess of the amount calculate at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Description	Rate
1	2	3
1	Polyamide (nylon) textured yarn	
(i)	below 38.5 deniers	Rs. 69.80 per kilogram
(ii)	38.5 deniers and above but below 88 deniers	Rs. 62.80 per kilogram
(iii)	88 deniers and above but below 121 deniers	Rs. 49.80 per kilogram
(iv)	121 deniers and above but below 165 deniers	Rs. 42.80 per kilogram
(v)	165 deniers and above	Rs. 24.60 pr kilogram
2.	Polyester textured yarn—	
(i)	below 33 deniers	Rs. 88.00 per kilogram
(ii)	33 deniers and above but below 82.5 deniers	Rs. 81.00 per kilogram
(iii)	82.5 deniers and above but below 110 deniers	Rs. 74.00 per kilogram
(iv)	110 deniers and above	Rs. 60.00 per kilogram
3.	Others	Rs. 90.00 per kilogram

Explanation.—In this notification, the denier of textured yarn shall be determined in the manner specified below, namely :—

- 90 metres of yarn shall be measured off using a wrap reel ensuring just sufficient tension during reelling to remove the crimp but not to stretch the yarn;
- The said 90 metres of yarn shall then be weight on a precision balance and the weight in grams noted;
- The denier of such yarn shall thereafter be calculated by multiplying the weight noted under clause (ii) by 100;
- In the case of plied textured yarn, the denier so calculated under clause (iii) shall be divided by the number of plies contained in such yarn so as to arrive at the denier of single ply yarn.

J. K. BATRA, Under Secy.

## अधिसूचना

NO. 53/83-CENTRAL EXCISES

सं० 52/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 136(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 की उपमद 11(i) (ख) के अन्तर्गत आने वाले टैक्सवरीय सूत को उक्त अधिनियम के अर्धीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्ते उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना, यथा-स्थिति, उक्त अधिनियम के अर्धीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क या भीमाशुल्क टैक्स अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के समतुल्य है, जिसके बारे में गृहय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कमिश्नर से अनिवार्य रीति के अधिकारों के समन्वयन के रूप में यह माहित कर दिया जाता है कि उसका ऐसे टैक्सवरीय सूत के विनिर्माण में प्रयुक्त अनेलुलोनी फिलामेंट सूत पर जो टैक्सवरीय सूत से भिन्न है, संदाय कर दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें गृह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

NO. 52/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts textured yarn, falling under sub-item 11(i)(b) of Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act, as is equivalent to the duty of excise leviable under the said Act or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, provided to the satisfaction of an officer not below the rank of Assistant Collector of Central Excise, to have been paid on non-cellulosic filament yarn, other than texture, used in the manufacture of such textured yarn.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th April, 1983.

सं० 53/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 137(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18(ii) के अन्तर्गत आने वाले कपास के सूत को जिनमें पालिग्रेस्टर फाइबर भार के आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक है; उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अर्धीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्ते उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना छह रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर संगणित रकम से अधिक है;

परन्तु यह तब जब कि उक्त कपास के सूत में, कपास और पालिग्रेस्टर से भिन्न कोई फाइबर नहीं है।

G.S.R. 137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton yarn, falling under Item No. 18A(ii) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing more than 40 per cent by weight of polyester fibre, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of six rupees per kilogram;

Provided that the said cotton yarn does not contain any fibres other than cotton and polyester.

सं० 54/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 138(अ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 19 की उपमद 1 के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक का, जिसमें पालिग्रेस्टर स्टेपल फाइबर भार के आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम है, उक्त अधिनियमों के अर्धीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्ते उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के साठे छह प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है;

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्निष्ठ छूट उक्त सूती फैब्रिक ही होगी, यदि उसमें—

- (1) पालिग्रेस्टर फिलामेंट सूत है, या
- (ii) सूत और पालिग्रेस्टर से भिन्न फाइबर है;

परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अर्धीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच क्रमशः 75 : 25 के अनुपात में प्रभावित की जाएगी।

NO. 54/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 138(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (i) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts cotton fabrics, falling under sub-item 1 of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and containing more than 40 per cent but less than 50 per cent by weight of polyester staple fibre, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Acts as is in excess of the amount calculated at the rate of six and a half per cent ad valorem;

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to the said cotton fabrics, if it contains—

- (i) polyester filament yarn, or
- (ii) fibres other than cotton and polyester;

Provided further that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 75:25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively

सं 55/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं.क्रांति 139(अ) - केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के निम्नप्रमाण (राजपत्र और आमा विभाग) की अधिसूचना सं 91/69 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च 1969 में निर्धारित और प्रकाशित करता है अर्थात् --

उक्त अधिसूचना में उपान्वित गारणियाँ अथवा सं 24 और उसमें सम्बन्धित प्रविष्टियाँ पञ्चान्तर्गतलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् --

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25	19 III	शीशी या लेपित या मसखिा सवाहक पट्टियाँ	मूल फैब्रिक पर न गवय उद्ग्रहणीय गल्ल यदि उसका पट्टो ही पदार्थ नहीं किया गया है।	

26	19 III	क्षतिग्रस्त या निम्नमानक सूता फैब्रिक जिन्हें "चिरी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् ऐसा फैब्रिक जो तापविक सामान्य कटे टुकड़े जो 6 सेंटीमीटर या उससे कम लम्बे हैं।	कुछ नहीं।"	
----	--------	---	------------	--

NO. 55/83 CENTRAL EXCISE

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by subrule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with subsection (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 91/69-Central Excise, dated the 1st March 1969 namely:—

In the Table annexed to the said notification, after S. No. 24 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5
"25	19 III	PVC coated or impregnated heavy boluaz	This duty is the same as leviable on the boluaz fabrics, if not already paid.	
"25	19 III	Damaged or sub-standard cotton fabrics which are classified as "Chin'los", this includes genuine or imitation pieces of such fabrics which are 6 centimeters or less in length	Nil"	

सं 56/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं.क्रांति 140(अ) - केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नगक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची का मद सं 19 की उपमद III या उपमद II के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिकों, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उक्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में छट्ठ दती है जिनका--

- (क) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन सूत फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को, यदि उसका पहलू हीरास्य नहीं किया गया है, और
- (ख) ऐसे सूता फैब्रिक पर सूत के पांच प्रतिशत की दर पर वर्णित रकम से अधिक है

परन्तु इस अधिसूचना की कार्रवाई में ऐसे विनिर्माता का लाभ नहीं होगा जो मूल फैब्रिक पर सदत्त शुल्क के बारे में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56 के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाता है।

NO. 56/83 CENTRAL EXCISE

G.S.R. 140(E).—In exercise of the powers conferred by subrule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with subsection (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts cotton fabrics falling under sub-item III or sub-item IV of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of

Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the amount calculated at the rate of—

(a) the duty of excise leviable on the base fabrics under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), if not already paid; and

(b) five per cent ad valorem on such cotton fabrics;

Provided that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who avails of the special procedure prescribed under rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, in respect of the duty paid on the base fabrics.

#### सं० 57/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांका०नि० 141(अ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 को उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न घनत्व पालएथिलीन की निर्मितियों से लेपित या संसंचित सभी प्रकार के टक्सटाइल फैब्रिक को, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

#### NO. 57/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts all varieties of textile fabrics coated or laminated with preparation of low density polyethylene from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

#### सं० 58/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांका०नि० 142(अ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (3) या उपमद (4) के अंतर्गत आने वाले कृत्रिम फैब्रिक को, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना—

(क) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन मूल फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की, यदि उसका पहले ही संदाय नहीं किया गया है; और

(ख) ऐसे कृत्रिम फैब्रिक पर मूल्य के पांच प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है:

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो मूल फैब्रिक पर संदत्त शुल्क के बारे में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56 के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाता है।

#### NO. 58/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts man-made fabrics, falling under sub-item (3) or sub-item (4) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the amount calculated at the rate of—

(a) the duty of excise leviable on the base fabrics under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), if not already paid; and

(b) five per cent ad valorem on such man-made fabrics;

Provided that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who avails of the special procedure prescribed under rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, in respect of the duty paid on the base fabrics.

#### सं० 59/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांका०नि० 143(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 101/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 जून, 1977 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 23 की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के सीमेंट को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना दो सौ पांच रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

#### NO. 59/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 101/77-Central Excises, dated the 3rd June, 1977, the Central Government hereby exempts all varieties of cement, falling under sub-item (1) of Item No. 23 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of two hundred and five rupees per metric tonne.

## 60/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 144(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 194/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 मई, 1979 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 23 के अन्तर्गत आने वाले और किसी लघु सीमेंट संयंत्र में विनिर्दिष्ट सीमेंट को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्घाटनीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना एक सौ सप्तर रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

2. इस अधिसूचना की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

- (1) किसी ऐसी कंपनी द्वारा विनिर्मित सीमेंट जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रियोग्य है अथवा जिसको विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 29 लागू होती है ;
- (2) किसी पृथक संयंत्र के रूप में या मुख्य संयंत्र के भाग के रूप में किसी बृहत्-सीमेंट संयंत्र द्वारा प्रचालित एकक में विनिर्मित सीमेंट ;
- (3) श्वेत सीमेंट या अन्य प्रकार का सीमेंट जिसकी कीमत समय-समय पर यथासंशोधित सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 द्वारा नियंत्रित नहीं है ;
- (4) सीमेंट जो—
  - (क) चूना पत्थर के तापन और जले हुए कोयले से अभिप्राप्त सागोल ; और
  - (ख) धान की भूसी की राख को बारीक पीसने से और संकली जलयोजित चूना से अभिप्राप्त एमो के नाम से जानी जाती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में,—

- (क) “लघु सीमेंट संयंत्र” पद से ऐसा सीमेंट संयंत्र अभिप्रेत है जो एक या अधिक भट्टों से मिलकर बनता है और जिसकी कुल स्थापित क्षमता 200 टन प्रतिदिन से अधिक नहीं है।
- (ख) “बृहत् सीमेंट संयंत्र” पद से ऐसा सीमेंट संयंत्र अभिप्रेत है जो एक या अधिक

भट्टों से मिलकर बनता है और जिसकी कुल अनुज्ञप्त या रजिस्ट्रीकृत क्षमता 200 टन प्रतिदिन से अधिक है।

3. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

## NO. 60/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 144(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 194/79-Central Excises, dated the 30th May, 1979, the Central Government hereby exempts cement, falling under Item No. 23 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and manufactured in a mini-cement plant, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees one hundred and seventy per metric tonne.

2. Nothing contained in this notification shall apply to—

- (i) cement manufactured by a company which is registered or registerable under section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) or to which section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) is applicable;
- (ii) cement manufactured in a unit operated by a large cement plant either as a separate plant or as a part of the main plant;
- (iii) while cement or other varieties of cement, the price of which is not controlled by the Cement Control Order, 1967, as amended from time to time;
- (iv) cement commonly known as—
  - (a) sagol obtained by heating lime stone and burnt coal; and
  - (b) ashmon obtained by fine grinding of paddy husk ash and hydrated lime with an additive.

Explanation.—In this notification,—

- (a) the expression “mini-cement plant” means a cement plant consisting of one or more kilns and having a total installed capacity not exceeding 200 tonnes per day,
- (b) the expression “large cement plant” means a cement plant consisting of one or more kilns and having a total licensed or registered capacity exceeding 200 tonnes per day.

3. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1984.

## सं० 61/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 145(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तांबे के ऐसे स्टिप्स को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 26क की उपमद (2) के अन्तर्गत आते हैं और जिनके विनिर्माण में उपमद (1) या उपमद (1क) के अन्तर्गत आने वाले

ऐसे तांबे का, जो तांबे के अपशिष्ट के पुराने स्क्रेप या शुल्क सहायक अक्षत धातु से अभिप्राप्त स्क्रेप से बनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, दस मीटरी टन से अनधिक मात्रा तक जिनकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् देशी उपभोग के लिये की जाती है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है;

परन्तु यह तब जब कि किसी अधिकारी का जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारखाने में जिनमें निकासी किये जाने वाले उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर, समस्त-समय पर किये गये पूजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि बीग लाख रुपये से अधिक नहीं है;

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में अथवा एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से तांबे के स्ट्रिप्स की कुल निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में दस मीटरी टन से अधिक थी।

2. जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में तांबे के स्ट्रिप्स की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार तांबे के स्ट्रिप्स की निकासी की है वहां इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी,—

(क) यदि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल कर देता है कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में देशी उपभोग के लिये वित्तीय वर्ष के दौरान तांबे के स्ट्रिप्स की कुल निकासी दस मीटरी टन से अधिक होने की संभावना नहीं है, और

(ख) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में देशी उपभोग के लिये वित्तीय वर्ष के दौरान तांबे के स्ट्रिप्स की कुल निकासी दस मीटरी टन से अधिक नहीं है।

3. जहां तांबे के स्ट्रिप्स की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उनकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है वहां इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखानों से देशी उपभोग के लिये

वित्तीय वर्ष के दौरान तांबे के स्ट्रिप्स की कुल निकासी दस मीटरी टन से अधिक हो जाती है।

स्पष्टीकरण 1—पूजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि का अवधारण करने समय, उस समय जब ऐसा विनिधान किया गया था, विनिधान का अंकित मूल्य ही हिसाब में लिया जायेगा, किन्तु ऐसे संयंत्र और मशीनरी पर जो किसी कारखाने में स्थायी तौर पर हटा दी गई है या किसी प्रयोग के लिये अयोग्य ठहरा दी गई है, किये गये विनिधान का मूल्य ऐसे अवधारण से अपवर्जित कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये, “शुल्क सहायक अक्षत धातु” शब्द से ऐसी अक्षत धातु अभिप्रेत है जिस पर, यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क की विहित रकम या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अनिवार्य शुल्क का संदाय कर दिया गया है।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होगी।

NO. 61/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts copper strips, falling under sub-item (2) of Item No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in the manufacture of which copper falling under sub-item (1) or sub-item (1a) made out of old scrap of copper waste or scrap obtained from duty paid virgin metal is used, upto a quantity not exceeding ten metric tonnes cleared, for home consumption, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, or from any factory, by or on behalf of one or more manufacturers, on or after the 1st day of April in any financial year, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the factory in which the said goods under clearance are manufactured, is not more than rupees twenty lakhs :

Provided further that the exemption contained in this notification shall not be available if the total clearance of copper strips by or on behalf of a manufacturer from one or more factories or from any factory, by or on behalf of one or more manufacturers, had exceeded ten metric tonnes in the preceding financial year.

2. Where a manufacturer has not cleared any copper strips in the preceding financial year, or has cleared any copper strips for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer,—

(a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise that the total clearances of copper strips by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed ten metric tonnes, and

(b) if the total clearances of copper strips by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed ten metric tonnes.

3. Where copper strips have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the

proceeding financial year the exemption contained in this notification shall not be applicable if the total clearances of copper strips from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceed, ten metric tonnes.

Explanation I.—While determining the sum total of the value of the capital investment, only the face value of the investment at the time when the investment was made shall be taken into account, but the value of the investment made on plant and machinery which have been removed permanently from the factory or rendered unfit for any use shall be excluded from such determination.

Explanation II.—For the purposes of this notification the expression "duty paid virgin metal" means virgin metal on which the prescribed amount of duty of excise or as the case may be the additional duty leviable under Section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) has been paid.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983.

सं० 62/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० वि० 146(ख)।—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के विनियम 8 के उपनिधम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय (राजस्व और वाना विभाग) की अधिसूचना सं० 43-75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

यहां अधिसूचना में उपाखण्ड सारणी के क्रम सं० 6 के सामने स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "कुछ नहीं" प्रविष्टि रखी जायेगी।

जितेन्द्र बत्रा, अवर सचिव

# NO 62(83)-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 43/75-Central Excises dated the 1st March, 1975, namely:—

In the Table annexed to the said notification, against S. No. 6, in column (4), for the entry, the entry 'NIL' shall be substituted.

I. K. BATRA, Under Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1983

सं० 62/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० वि० 147(ख)।—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के विनियम 8 के उपनिधम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नगद अधिनियम, 1911 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की सर सं० 29 की उन उपसर्गों के जो उन सारणी के स्तम्भ (2) में का वर्णनात्मक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले अन्तर्दहन इंजिन को, उपाखण्ड की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उक्त अधिनियम के अधीन, उन पर उद्ग्रहणीय उन उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जिसका उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में की वर्णनात्मक प्रविष्टि में अधिनियम सारणी के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, उसके स्तम्भ (4) में की वर्णनात्मक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित करण में अधिक है।

## सारणी

क्रम सं० (1)	उप-सद सं० (2)	वर्णन (3)	दर (4)	शर्त (5)
1.	(i)	वे अंतर्दहन इंजिन जिनकी डिजाइन इस प्रकार की है कि उनका उपयोग परिवहन यानों को संचालित करने के लिये मूल गति उत्पादक के रूप में किया जा सके और जिन्हें उस प्रयोजन के लिये किसी विशेष आकार, माप या क्षमता का बनाया गया है जो किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग के लिये आवश्यक नहीं है।	मूल्य का दस प्रतिशत	—
2.	(ii)	वे अंतर्दहन इंजिन जो क्रम सं० 1 में विनिर्दिष्ट में भिन्न है।	मूल्य का पांच प्रतिशत	—
3.	(i)	अंतर्दहन इंजिन	कुछ नहीं	परन्तु यह कि— (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से अनिवार्य पंक्ति के किसी अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसे इंजिन किसी मोटरयान या ट्रैक्टर के,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				जिसके अन्तर्गत उक्त पहली अनुसूची के मद सं० 34 के अन्तर्गत आने वाले कृषि ट्रैक्टर भी है, विनिर्माण में मूल उपस्कर में प्रयुक्त किये जाने के लिये आशयित हैं; और
				(ii) ऐसे इंजिनों के उत्पादन के कारखाने से अन्यत्र ऐसे उपयोग की बाबत, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
4.	(i)	डीजल तेल-चालित अंतर्दहन इंजिन।	कुछ नहीं	परन्तु यह कि— (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) समाधान हो जाता है कि ऐसे अंतर्दहन इंजिन, उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1(2) के अन्तर्गत आने वाले तीन पहियों वाले मोटरयानों या उपमद 1(2) के अन्तर्गत आने वाली मोटरकारों में, जो अनन्य रूप से टैक्सी के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, फिट किये गये पेट्रोल चालित अंतर्दहन इंजिनों के प्रतिस्थापन के लिये आशयित हैं; और (ii) विनिर्माता, उक्त अधिकारी को, सम्बद्ध राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से डीजल तेल-चालित अंतर्दहन इंजिनों की निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करे, इस प्रभाव का प्रमाणपत्र दे देता है कि डीजल तेल-चालित अंतर्दहन इंजिन उपरोक्त टेक्सियों में पेट्रोल-चालित अंतर्दहन इंजिनों के प्रतिस्थापन के लिये वास्तव में प्रयुक्त किये गये हैं।
5.	(i)	अंतर्दहन इंजिन।	कुछ नहीं	परन्तु यह कि— (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				है), समाधान हो जाता है कि ऐसे अंतर्वहन इंजिन साइकिल-रिक्शा को शक्ति चालित साइकिल-रिक्शा में परिवर्तित करने के लिये अपेक्षित हैं; और
				(ii) विनिर्माता, उक्त अधिकारी को सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से ऐसे अंतर्वहन इंजिनों की निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करे, इस प्रभाव का प्रमाणपत्र दे देता है कि ऐसे अंतर्वहन इंजिन उक्त साइकिल-रिक्शाओं में फिट किये गये हैं।
6.	(i) या (ii)	अंतर्वहन इंजिन जिनकी इंजिन क्षमता 50 घन-सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	कुछ नहीं	—
7.	(ii)	डीजल तेल-चालित अंतर्वहन इंजिन जिन की इंजिन क्षमता 1000 घन-सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	कुछ नहीं	—

वी० लक्ष्मीकुमारन, अवर सचिव

## NO. 63/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 147(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts internal combustion engines of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 29 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (5) thereof.

TABLE

S. No.	Sub-Description	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1. (i)	Internal Combustion Engines designed for use as prime mover for transport vehicle and have been given for that purposes some special shape, size or quality which would not be essential for their use for any other purpose.	Ten per cent <i>ad valorem</i>	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. (ii)	Internal Combustion Engines other than those specified in S. No. 1.	Five per cent. <i>ad valorem</i>	—	
3. (i)	Internal Combustion Engines.	Nil	Provided that —	(i) it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that such engines are intended to be used as original equipment engines in the manufacture of a motor vehicle, or tractor, including agricultural tractor falling under Item No. 34 of the said First Schedule ; and (ii) in respect of such use elsewhere than in the factory of production of such engines, the proce-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.					lector Central Excise (hereinafter referred to as the said officer) is satisfied that such internal combustion engines are required for conversion of cycle rickshaws into powered cycle rickshaws; and
4. (i)	Diesel oil operated Internal Combustion Engines	Nil		<p>Provided that—</p> <p>(i) an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said officer) is satisfied that such internal combustion engines are intended to replace the petrol operated internal combustion engines fitted in three-wheeled-motor vehicles falling under sub-item I(1) or motor cars falling under sub-item I(2) of Item No. 34 of the said First Schedule, used solely as taxis; and</p> <p>(ii) the manufacturer furnishes to the said officer a certificate from an officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the diesel oil operated internal combustion engines or such extended period as the said officer may allow, to the effect that the diesel oil operated internal combustion engines have actually been used for replacement of the petrol operated internal combustion engines in the aforesaid taxis.</p>					<p>(ii) the manufacturer furnishes to the said officer a certificate from an officer authorised by the concerned State Government in this behalf within three months of the date of clearance of such internal combustion engines or such extended period as the said officer may allow, to the effect that such internal combustion engines have been fitted to the said cycle rickshaws.</p>
					6. (i)	Internal Combustion Engines of engine or	Nil		—
					(ii)	capacity not exceeding 50cc.			
					7. (i)	Diesel oil operated internal combustion engines of engine capacity not exceeding 1000 cc.	Nil		
V. LAKSHMI KUMARAN Under Secy.									
सं० 64/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क									
<p>सा०का०नि० 148(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 29क के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के प्रशीतक और वातानुकूलन साधन और यन्त्रों और उनके पुर्जों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), किसी विनिर्मात द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक</p>									
	Internal Combustion Engines	Nil		<p>Provided that—</p> <p>(i) an officer not below the rank of an Assistant Col-</p>					

कारखानों से देशी उपभोग के लिए ढाई लाख रुपए से अधिक के कुल मूल्य तक उक्त माल की प्रथम निकासी की बाबत, जिसकी निकासी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की जाती है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है:

परन्तु एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर उक्त माल की प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि,—

- (i) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से, या
- (ii) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से,

देशी उपभोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ढाई लाख रुपए से अधिक हो गया था।

3. जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त माल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार उक्त माल की निकासी की है वहां इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी —

- (i) यदि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल कर देता है कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य ढाई लाख रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है, और
- (ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं है।

4. जहां उक्त माल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने में नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त, को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है वहां इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी या एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य ढाई लाख रुपए से अधिक हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “मूल्य” शब्द से वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका भ्रवधारण केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2— इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जहां उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से दी गई छूट किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य या मात्रा पर आधारित है), उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, हिसाब में नहीं ली जाएगी।

5. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रयुक्त होगी।

NO. 64/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 148(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all parts, and parts thereof, falling under Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), (hereinafter referred to as the said goods), in respect of the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto an aggregate value not exceeding rupees two and a half lakhs, cleared on or after the 1st day of April in any financial year, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act;

Provided that the aggregate value of the first clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at nil rate of duty under this notification shall not exceed rupees two and a half lakhs in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption,—

- (i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or
- (ii) from any factory, by or on behalf of one or more manufacturers.

had exceeded rupees two and a half lakhs during the preceding financial year.

3. Where a manufacturer has not cleared the said goods in the preceding financial year, or has cleared the said goods for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer,—

- (i) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees two and a half lakhs, and
- (ii) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees two and a half lakhs.

4. Where the said goods have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees two and a half lakhs.

Explanation I.—For the purposes of this notification the expression "value" means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification, the clearances of any excisable goods, which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification (not being a notification where exemption from the whole of the duty of excise leviable thereon is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year) issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for time being in force, shall not be taken in to account.

5. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983.

### सं० 63/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 149(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 29क के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के प्रशीतक और वातानुकूलन साधन और मशीनरी और उनके पुर्जों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए पन्द्रह लाख रुपये से अधिक के कुल मूल्य तक उक्त माल की प्रथम निकासी की बात, जिसकी निकासी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की जाती है, [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचन के साथ पठित] उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की बटी दर पर उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में पन्द्रह लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी,—

- (i) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक हो गया हो;
- (ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो गया हो।

3 जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त माल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार उक्त माल की निकासी की है वहां इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी,—

(क) यदि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल कर देता है कि—

(i) उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है, और

(ii) उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है, और

(ख) (i) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है, और

(ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक नहीं है।

4. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी,—

(i) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक हो गया हो,

(ii) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा उनकी ओर से किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो गया हो।

5. जहां उक्त माल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है वहां इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी,—

(i) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क्य माल

की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो जाता है,

- (ii) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से देशी उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “मूल्य” शब्द से वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका भ्रवधारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्पाद शुल्क माल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जहां उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से दी गई छूट किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य या मात्रा पर आधारित है), उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, हिसाब में नहीं ली जाएगी।

6. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होगी।  
जितेन्द्र बत्रा, भ्रवर सचिव

#### NO. 65/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 149(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts, and parts thereof, falling under Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), (hereinafter referred to as the said goods), in respect of the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto an aggregate value not exceeding rupees fifteen lakhs, cleared on or after the 1st day of April in any financial year, from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act [read with any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in force for the time being] as is in excess of fifty per cent of such duty:

Provided that the aggregate value of clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at the reduced rate of duty under this notification shall not exceed rupees fifteen lakhs in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs;
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

3. Where a manufacturer has not cleared the said goods in the preceding financial year, or has cleared the said goods for the first time on or after the 1st day of August in the

preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer,—

(a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise,—

(i) that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees twenty lakhs, and

(ii) that the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees fifteen lakhs; and

(b) (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees twenty lakhs, and

(ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees fifteen lakhs.

4. Nothing contained in this notification shall apply,—

(i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs,

(ii) if the aggregate value of clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

5. Where the said goods have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable,—

(i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees twenty lakhs,

(ii) if the aggregate value of clearances of the said goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees fifteen lakhs.

**Explanation I.**—For the purposes of this notification the expression “value” means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

**Explanation II.**—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification, the clearances of any excisable goods, which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification (not being a notification where exemption from the whole of the duty of excise leviable thereon is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year) issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force, shall not be taken into account.

6. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983

J. K. BATRA, Under Secy.

## सं० 66/83 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सांकांति सं० 150 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली विद्युत मोटरों या विद्युत मोटरों के पुर्जों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकृत शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

## सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शर्त
(1)	(2)	(3)
1.	विद्युत मोटरों के स्टेटरों, रोटारों और डाइ-कास्ट रोटारों से भिन्न सभी पुर्जे	—
2.	स्टेटर, रोटार और डाइ-कास्ट रोटार	यदि ऐसे स्टेटर, रोटार और डाइ-कास्ट रोटार उत्पादन के कारखाने में विद्युत मोटरों के, जिन पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क, चाहे पूर्णतः या भागतः उद्ग्रहणीय है, विनिर्माण में संघटक भागों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।
3.	विद्युत मोटरों, स्टेटर, रोटार और डाइ-कास्ट रोटार	यदि ऐसी विद्युत मोटरों, स्टेटर, रोटार और डाइ-कास्ट-रोटार उत्पादन के कारखाने में—

(1) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 29 के अन्तर्गत आने वाले प्रशीतकों, वातानुकूलकों, या प्रशीतन या वातानुकूलन साधनों या मशीनरी; या

(2) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले बिजली के पंखों; या

(1) (2) (3)

(3) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 33 के अन्तर्गत आने वाले घरेलू विद्युत साधनों के विनिर्माण में संघटक भागों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिन पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद शुल्क, चाहे पूर्णतः या भागतः, उद्ग्रहणीय है।

## 4. विद्युत मोटरें

यदि ऐसी विद्युत मोटरें उत्पादन के कारखाने में विद्युत मोटरों के और विनिर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं जिन पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क, चाहे पूर्णतः या भागतः उद्ग्रहणीय है।

5. विद्युत मोटरें जो 5 बोल्ट से अनधिक दबाव पर कार्य करने के लिए डिजाइन की गई हैं, और स्टेटर, रोटार और डाइ-कास्ट रोटार जो ऐसी विद्युत मोटरों में प्रयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं।

## NO. 66/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electric motors or parts of electric motors of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 30 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable under section 3 of the said Act, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (3) thereof.

## THE TABLE

S. No.	Description	Condition
(1)	(2)	(3)
1.	All parts of electric motors other than stators, rotors and die-cast rotors.	—
2.	Stators, rotors and die-cast rotors.	If such stators, rotors and die-cast rotors are used in the factory of production as component parts in the manufacture of electric motors on which the duty of excise under the said Act is leviable whether in whole or in part,

1	2	3
3. Electric motors, stators, rotors and die-cast rotors.	If such electric motors, stators, rotors and die-cast rotors are used in the factory of production as component parts in the manufacture of—	
	(i) refrigerators, air-conditioners, or refrigerating or air-conditioning appliances or machinery falling under Item No. 29A of the said First Schedule; or	
	(ii) electric fans falling under Item No. 33 of the said First Schedule; or	
	(iii) domestic electrical appliances falling under Item No. 33C of the said First Schedule.	
	on which the duty of excise under the said Act is leviable whether in whole or in part.	
4. Electric motors.	If such electric motors are used within the factory of production for further manufacture of electric motors on which the duty of excise under the Act is leviable whether in whole or in part.	
5. Electric motors designed to work at a pressure not exceeding 5 volts, and stators, rotors and die-cast rotors designed for use in such electric motors.		

## सं० 67/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० सं० 151 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, तथास्थिति, (राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व विभाग की, अधिसूचना सं० 42/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1976 और सं० 69/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 को अधिकांत करते हुए, इससे उद्भवित सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 32 की उप-मदों के, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले माल को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्भवित उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है।

## सारणी

क्रम सं०	उप-मद	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1)	टेनोकोन और तार रिक्च बोर्डों में और सहबद्ध प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त दृश्य संकेत लैंप।	मूल्य का 10 प्रतिशत
2.	(1)	लघु बल्ब	मूल्य का 10 प्रतिशत
3.	(1)	खनिक की टापी के लैंपों के लिए क्रिप्टान या आर्गन गैस भरे बल्ब (लैंप)	कुछ नहीं।
4.	(1)	60 वाट से अनधिक के निर्वात कुछ और गैस भरे बल्ब जो ऊपर क्रम सं० 1 से 3 में विनिर्दिष्ट से भिन्न हैं।	कुछ नहीं।
5.	(2)	फ्लोरोसेंट प्रकाश ट्यूब	मूल्य का 20 प्रतिशत

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “लघु बल्ब” से केवल ऐसे बल्ब या लैंप (खनिकों की टापी के लैंपों के लिए क्रिप्टान या आर्गन गैस भरे बल्बों (लैंपों) को छोड़कर) अभिप्रेत हैं जिनकी निम्नलिखित वाटता और विमाएं हैं, अर्थात् :—

- (i) 6 वाट से अनधिक वाटता;
- (ii) 30 मिलीमीटर (विहित) से कम लंबाई, और
- (iii) 18 मिलीमीटर (विहित) से कम व्यास।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के अधीन, बल्बों या लैंपों के, यथास्थिति, वर्गीकरण और नाम या बल्बों या लैंपों की वाटता, लंबाई या व्यास के अवधारण के प्रयोजनों के लिए भारतीय मानक विनिर्देशों में विहित परिभाषा तथा परीक्षण के लिए प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत सहायता के लिए गुंजाइश भी है, अंगीकार की जाएगी।

## NO. 67/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or Department of Revenue, as the case may be, No. 42/76-Central Excises dated the 1st March, 1976 and No. 69/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under the sub-items specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 32 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at

the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Sub-Item	Description	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(1)	Visual indicator lamps used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	10 per cent. ad valorem.
2.	(1)	Miniature Bulbs	10 per cent. ad valorem.
3.	(1)	Krypton or Argon gas filled bulbs (lamps) for Miners' Cap Lamps	Nil
4.	(1)	Vacuum and gas filled bulbs not exceeding 60 watts, other than those specified in S. Nos. 1 to 3 above.	Nil
5.	(2)	Fluorescent lighting tubes.	20 per cent. ad valorem.

Explanation I.—For the purposes of this notification, 'Miniature Bulbs' shall mean only such bulbs or lamps (excluding Krypton or Argon gas filled bulbs (lamps) for Miner's Cap Lamps which have the following wattage and dimensions, namely:—

- (i) Wattage not exceeding 6 watts;
- (ii) length less than 30 mm (nominal); and
- (iii) diameter less than 18 mm (nominal).

Explanation II.—For the purposes of determining, under this notification the classification and nomenclature of bulbs or lamps or, as the case may be, the wattage, length or diameter of bulbs or lamps, the definition as well as the procedure for testing, including allowances for tolerances as prescribed in the Indian Standard Specifications shall be adopted.

V. LAKSHMIKUMARAN, Under Secy.

सं० 68/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० सं० 52 (अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 244/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1982 को अधिकृत करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 34 की, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उपमदों के संगत आने वाले मोटरयानों और ट्रैक्टरों को उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है उनके स्तम्भ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकृत शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, छूट देती है।

#### सारणी

क्र०	उप-मद सं०	मोटर और ट्रैक्टरों का वर्णन	दर	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1(1)	शक्ति चालित साइकिलें और शक्ति-चालित साइकिल-रिक्शे	कुछ नहीं	—
2.	1(1)	विक्लांगों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दो-पहियों और तीन-पहियों वाले मोटरयान।	कुछ नहीं	—
3.	1(1)	एक सौ घन सेंटीमीटर से अनधिक की इंजन क्षमता वाले दो पहियों वाले मोटरयान।	मूल्य का दस प्रतिशत	—
4.	1(1)	तीन पहियों वाली आटोरिक्शा	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	—
5.	1(1)	तीन पहियों वाली सैलून कारें।	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत यदि	—

- (i) ऐसे अधिकारी का जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से अनिम्न पंक्ति का न हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) यह समाधान कर दिया जाता है कि ऐसी तीन पहियों वाली सैलून कारें अनन्यतः टैक्सीयों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित हैं; और



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ii) विनिर्माता उक्त अधिकारी को ऐसे अधिकारी से, जो इस निमित्त संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, विनिर्माता द्वारा, शुल्क का संदाय किए जाने के पश्चात् तीन पहियों वाली सैलून कारों की निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि, के भीतर, जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करे, इस आशय का प्रमाणपत्र देता है कि प्रत्येक ऐसी तीन पहियों वाली सैलून कार को अनन्यतः टैक्सी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
6.	1(2)(i)(क) पेट्रोल-चालित सैलून कारें जिनकी इंजन क्षमता 1200 घन सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	मूल्य का पांच प्रतिशत धन नौ हजार पांच सौ रुपए प्रति कार।		
7.	1(2)(i)(क) पेट्रोल-चालित सैलून कारें जिनकी इंजन क्षमता 1200 घन सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	मूल्य का पांच प्रतिशत धन चार हजार सात सौ पचास रुपए प्रति कार।		यदि— (i) ऐसे अधिकारी का, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर से निम्न पंक्ति का नहीं है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) यह समाधान कर दिया जाता है कि ऐसी सैलून कारें अनन्यतः टैक्सियों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित हैं; और
				(ii) विनिर्माता उक्त अधिकारी को ऐसे अधिकारी से जो इस निमित्त संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया है, विनिर्माता द्वारा, शुल्क संदाय किए जाने के पश्चात् सैलून कारों की निकासी की तारीख से तीस मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करे, इस आशय का प्रमाणपत्र देता है कि प्रत्येक ऐसी सैलून कार के अनन्यतः टैक्सी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
8.	1(2)(i)(क) पेट्रोल-चालित सैलून कारें जिनकी इंजन क्षमता 1200 घन सेंटीमीटर से अधिक है किन्तु 1500 घन सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	मूल्य का पांच प्रतिशत धन दस हजार पांच सौ रुपए प्रति कार		

(1) (2)	(3)	(4)	(5)
9. 1(2)(i)(क) पेट्रोल-चालित सैलून कारें जिनकी इंजिन क्षमता 1200 घन सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 1500 घन सेंटीमीटर है अधिक नहीं है।	मूल्य का पांच प्रतिशत धन पांच हजार सात सौ पचास रुपए प्रति कार।	<p>यदि—</p> <p>(i) ऐसे अधिकारी का, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से निम्न पंक्ति का नहीं है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) यह समाधान कर दिया जाता है कि ऐसी सैलून कारें अनन्यतः टैक्सियों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित हैं; और</p> <p>(ii) विनिर्माता उक्त अधिकारी को ऐसे अधिकारी से जो संबंधित राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, विनिर्माता द्वारा, शुल्क का संदाय किए जाने के पश्चात् सैलून कारों की निकासी की तारीख से तीस मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करे, इस आशय का प्रमाणपत्र देता है कि प्रत्येक ऐसी सैलून कार के अनन्यतः टैक्सी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है।</p>	
10. 1(2)(i)(क) डीजल-चालित सैलून कारें जिनकी इंजिन क्षमता 1500 घन सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	मूल्य का पांच प्रतिशत धन चौदह हजार प्रति कार।	—	
11. 1(2)(i)(क) डीजल-चालित सैलून कारें जिनकी इंजिन क्षमता 1500 घन सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।	मूल्य का पांच प्रतिशत धन सात हजार सात सौ रुपए प्रति कार।	<p>यदि—</p> <p>(i) ऐसे अधिकारी का, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से निम्न पंक्ति का नहीं है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) यह समाधान कर दिया जाता है कि ऐसी सैलून कारें अनन्यतः टैक्सियों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित हैं; और</p> <p>(ii) विनिर्माता उक्त अधिकारी को ऐसे अधिकारी से जो संबंधित राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, विनिर्माता द्वारा, शुल्क का संदाय किए जाने के पश्चात् सैलून कारों की निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करे, इस आशय का प्रमाणपत्र देता है कि प्रत्येक ऐसी सैलून कार के अनन्यतः टैक्सी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है।</p>	
12. 1(2)(i)(ख) सैलून कारों से भिन्न मोटरयान	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	—	
13. 1(2)(ii) मोटरयान	मूल्य का बीस प्रतिशत	—	

14. 1(3)	सैलून कारों से भिन्न मोटरयान	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	—
15. 1(3)	डम्पर, जो निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार हैं ?	मूल्य का दस प्रतिशत	—
	(क) डम्पर का शुद्ध भार (जिसमें भारयोग (पेलोड) सम्मिलित नहीं है) 8 टन से अधिक है;		
	(ख) डम्पर को 10 टन या उससे अधिक के अधिकतम भारयोग के लिए डिजाइन किया गया है; और		
	(ग) डम्पर को राजमार्ग से परे उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है।		
16 1(3)	बंधित यान से भिन्न तीन एक्सल वाले मोटर-यान	मूल्य का दस प्रतिशत	
17. 11	छा बार हार्स पावर 12 और उससे कम के ट्रैक्टर	कुछ नहीं	—
18. 11	छा बार हार्स पावर 12 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक के ट्रैक्टर	मूल्य का दस प्रतिशत	—
19. 11	छा बार हार्स पावर 50 से अधिक के ट्रैक्टर	मूल्य का दस प्रतिशत	यदि ऐसे अधिकारी का, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर से निम्न पंक्ति का न हो, यह समाधान कर दिया जाता है कि ऐसे ट्रैक्टरों का उपयोग अनन्यतः कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (1) “शक्ति चालित साइकिल” या “शक्ति चालित साइकिल रिकशा” पद से, यथास्थिति, ऐसी यंत्र नोदित साइकिल या यंत्र नोदित साइकिल रिकशा अभिप्रेत है जिसे आवश्यकता पड़ने पर पैडल से भी चलाया जा सकता है।
- (2) “बंधित यान” पद से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिससे कोई ट्रैलर इस प्रकार संलग्न है कि ट्रैलर का एक भाग मोटरयान पर अध्यारोपित है और ट्रैलर के भार का एक भाग मोटरयान द्वारा वहन किया जाता है।

#### No. 68/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 244/82-Central Excises, dated the 1st November, 1982, the Central Government hereby exempts motor vehicles and tractors of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items spe-

cified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (5) thereof.

TABLE

S. No.	Sub-Item No.	Description of motor vehicles and tractors	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I(1)	Powered cycles and powered cycle rickshaws	Nil	—
2.	I(1)	Two-wheeled and three-wheeled motor vehicles specially designed for use by the handicapped.	Nil	—
3.	I(1)	Two-wheeled motor vehicles of engine capacity not exceeding 100 cubic centimetres.	Ten per cent. ad valorem	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	I(1)	Three-wheeled auto rickshaws.	Fifteen per cent. <i>ad valorem</i> .	
5.	I(1)	Three-wheeled saloon cars.	Fifteen per cent. <i>ad valorem</i> .	If— (i) an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said Officer) is satisfied that such three-wheeled saloon cars are required for use solely as taxis; and (ii) the manufacturer furnishes to the said Officer a certificate from an Officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the three-wheeled saloon car by the manufacturer after payment of duty or such extended period as the said officer may allow to the effect that each such three-wheeled saloon car has been registered for use solely as a taxi.
6.	I(2)(i)(a)	Petrol-operated saloon cars of engine capacity not exceeding 1200 cubic centimetres.	Five per cent. <i>ad valorem</i> plus rupees nine thousand five hundred per car.	—
7.	I(2)(i)(a)	Petrol-operated saloon cars of engine capacity not exceeding 1200 cubic centimetres.	Five per cent. <i>ad valorem</i> plus rupees four thousand seven hundred and fifty per car.	If— (i) an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said Officer) is satisfied that such saloon cars are required for use solely as taxis; and (ii) the manufacturer furnishes to the said Officer a certificate from an Officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the saloon car by the manufacturer after payment of duty or such extended period as the said Officer may allow, to the effect that each such saloon car has been registered for use solely as a taxi.
8.	I(2)(i)(a)	Petrol-operated saloon cars of engine capacity exceeding 1200 cubic centimetres but not exceeding 1500 cubic centimetres.	Five per cent. <i>ad valorem</i> plus rupees ten thousand and five hundred per car.	—
9.	I(2)(i)(a)	Petrol-operated saloon cars of engine capacity exceeding 1200 cubic centimetres but not exceeding 1500 cubic centimetres.	Five per cent. <i>ad valorem</i> plus rupees five thousand seven hundred and fifty per car.	If— (i) an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said Officer) is satisfied that such saloon cars are required for use solely as taxis; and (ii) the manufacturer furnishes to the said Officer a certificate from an Officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the saloon car by the manufacturer after payment of duty or such extended period as the said Officer may allow to the effect that each such saloon car has been registered for use solely as a taxi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. I(2)(i)(a)	Diesel-operated saloon cars of engine capacity not exceeding 1500 cubic centimetres.	Five per cent. ad valorem plus rupees fourteen thousand per car.	—	
11. I(2)(i)(a)	Diesel-operated saloon cars of engine capacity not exceeding 1500 cubic centimetres.	Five per cent. ad valorem plus rupees seven thousand and seven hundred per car.	If— (i) an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said Officer) is satisfied that such saloon cars are required for use solely as taxis; and (ii) the manufacturer furnishes to the said Officer a certificate from an Officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the saloon car by the manufacturer after payment of duty or such extended period as the said Officer may allow, to the effect that each such saloon car has been registered for use solely as a taxi.	
12. I(2)(i)(b)	Motor vehicles other than saloon cars.	Fifteen per cent. ad valorem.	—	
13. I(2)(ii)	Motor vehicles	Twenty per cent. ad valorem.	—	
14. I(3)	Motor vehicles other than saloon cars.	Fifteen per cent. ad valorem.	—	
15. I(3)	Dumpers conforming to the following specifications:— (a) the net weight (excluding payload) of the dumper is more than 8 tonnes; (b) the dumper is designed for a maximum payload of 10 tonnes or more; and (c) the dumper is designed for use off the high way.	Ten per cent. ad valorem.	—	
16. I(3)	Three-axled motor vehicles other than articulated vehicles.	Ten per cent. ad valorem.	—	
17. II	Tractors of Draw-Bar Horse Power 12 and below.	Nil	—	
18. II	Tractors of Draw-Bar Horse Power exceeding 12 but not exceeding 50.	Ten per cent. ad valorem.	—	
19. II	Tractors of Draw-Bar Horse Power exceeding 50.	Ten per cent. ad valorem.	If an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such tractors are used solely for agricultural purposes.	

Explanation:—For the purposes of this notification,—

- (1) The expression "powered cycle" or "powered cycle rickshaw" means a mechanically propelled cycle or, as the case may be, mechanically propelled cycle rickshaw, which may also be pedalled, if any necessity arises for so doing.
- (2) The expression "articulated vehicle" means a motor vehicle to which a trailer is attached in such a manner that a part of the trailer is superimposed on, and a part of the weight of the trailer is borne by, the motor vehicle.

सं० 69/83 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 153 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 26/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत की दर से" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार छह सौ पच्चीस रुपये प्रति कार की दर से" शब्द रखे जाएंगे।

बी० लक्ष्मीकुमारन, अवर सचिव

#### NO. 69/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 153(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26/83-Central Excises, dated the 25th February, 1983, namely:—

In the said notification, for the words "at the rate of fifteen per cent ad valorem", the words "at the rate of rupees five thousand six hundred and twenty-five per car" shall be substituted.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

सं० 70/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 154 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपायद्ध सारणी की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्णन के, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 40 अंतर्गत आने वाले माल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

#### सारणी

1. रोगी या अशक्त व्यक्तियों के लिए पहिए वाली कुर्सी
2. चिकित्सा मेज
3. शल्यक्रिया मेज
4. अस्थिचिकित्सा मेज
5. प्लास्टर मेज
6. प्रसूति या प्रसव मेज
7. शव परीक्षा मेज
8. विशेष अस्पताल विस्तर
9. शिथ्य सहित या उसके बिना प्रसूति कौंड
10. शिथ्य
11. प्रसूति विस्तर

12. आक्सीजन सिलेंडर स्टैंड

13. ओपधि स्टैंड

14. शिथ्य स्टैंड

15. सलाइन स्टैंड

16. शल्यक्रिया उपकरण कैबिनेट

17. रोगी ट्राली

18. स्ट्रेचर ट्राली

19. संवेदनाहरण ट्राली

20. उष्मायित ट्राली

21. द्रव्यचालित दन्त कुर्सी और सर्जिकल मेज।

जितेन्द्र बत्ता, अवर सचिव

#### NO. 70/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 154(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in the Schedule annexed hereto, and falling under Item No. 40 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

#### SCHEDULE

1. Wheel-chair for the sick or invalid
2. Medical table
3. Operation table
4. Orthopaedic table
5. Plaster table
6. Obstetric or labour table
7. Post-mortem table
8. Special hospital bed
9. Maternity cot with or without crib
10. Crib
11. Obstetric bed
12. Oxygen cylinder stand
13. Medicine stand
14. Crib stand
15. Saline stand
16. Surgical instrument cabinet
17. Patient trolley
18. Stretcher trolley
19. Anaesthetic trolley
20. Incubator trolley
21. Hydraulically operated dental chair and operation table.

J. K. BATRA, Under Secy.

सं० 71/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 155 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपायद्ध

सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 46 के अन्तर्गत आने वाले माल को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्तम उत्पाद-शुल्क से, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है।

## सारणी

क्रम	वर्णन	दर	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	फेस पाउडर के केस, बक्सों के केस, गणित के बक्स, रेखा-गणित के बक्स और रंग के बक्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	धातु आधान	कुछ नहीं	यदि ऐसे धातु आधानों के विनिर्माण में या के संबंध में सामान्यतया कोई प्रक्रिया शक्ति की सहायता से ली जाती है।
3.	धातु आधान	कुछ नहीं	यदि उक्त मद सं० 46 के अन्तर्गत आने वाले सपाट आधानों के मुड़वा आधानों के नाम से ज्ञात धातु आधानों से पुनरुत्पादित किए गए हों, जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क पहले ही संदत्त कर दिया गया हो।
4.	धातु आधान	कुछ नहीं	यदि केन्द्रीय सरकार के आर्डरेंस कारखाने में विनिर्मित किए गए हैं और ऐसे कारखाने में या केन्द्रीय सरकार अथवा रक्षा स्थापन के किसी अन्य कारखाने में रक्षा प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	धातु आधान	कुछ नहीं	यदि ऐसे आधान उनके विनिर्माता द्वारा, ऐसी चादरों से या अन्य व्यक्तियों द्वारा शक्ति की सहायता से टिन की हुई, मुद्रित, लेपित या लेकर की हुई है, शक्ति की सहायता के बिना उत्पादित किए जाते हैं।
6.	भारतीय मासक गंस्थान क भा० भा० : 7285 - 1974 या भा० भा० 7312-1974 में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप गैस सिलिण्डर।	मूल्य का दस प्रतिशत।	यदि ऐसे सिलिण्डर किसी ऐसे कारखाने में विनिर्मित किए जाते हैं जिसकी, ऐसे सिलिण्डरों के विनिर्माण करने की वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता, जैसी वह तकनी की विकास निदेशालय के विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित है, ऐसे एक लाख सिलिण्डरों की संख्या से अधिक नहीं है।

## NO. 71/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 155(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (4) thereof.

TABLE

S. No.	Description	Rate	Condition
1	2	3	4
1.	Face powder cases, spectacle cases, mathematical boxes, geometry boxes and colour boxes.	Nil	Nil
2.	Metal containers	Nil	If in or in relation to the manufacture of such metal containers no process is ordinarily carried on with the aid of power.

1	2	3	4
3. Metal containers	Nil	If reformed out of metal containers commonly known as flattened containers or folded containers, falling under the said Item No. 46 on which the duty of excise under section 3 of the said Act has already been paid.	
4. Metal containers	Nil	If manufactured in an ordnance factory belonging to the Central Government and used for purposes of defence in such factory or in any other ordnance factory belonging to Central Government or defence establishment.	
5. Metal containers	Nil	If such containers are produced by the manufacturer thereof without the aid of power from sheets which had been tinned, printed, coated or lacquered by others with the aid of power.	
6. Gas cylinders, conforming to the specifications laid down in IS:7285-1974 or IS:7312-1974 of the Indian Standard Institution.	Ten per cent. ad valorem	If such cylinders are manufactured in any factory whose annual licenced capacity for manufacturing such cylinders as certified by the Development Officer of Directorate General of Technical Development does not exceed one lakh numbers of such cylinders.	

#### सं० 72/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 156(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 321/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 नवम्बर, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 51क की उपमद (iii) के अन्तर्गत आने वाले औजारों को, जो किसी कारखाने में विनिर्मित किए गए हैं और जो उस कारखाने में जिसमें वे विनिर्मित किए गए हैं या उसी विनिर्माता के किसी अन्य कारखाने में उपयोग के लिए आशयित हैं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है:

परन्तु जहाँ ऐसा उपयोग, किसी विनिर्माता के किसी कारखाने में जो उस कारखाने से भिन्न है जहाँ उक्त औजार विनिर्मित किए गए हैं, किया जाता है वहाँ, इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित छूट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के

अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगी।

#### NO. 72/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 321/77-Central Excises, dated the 21st November, 1977, the Central Government hereby exempts tools, falling under sub-item No. (iii) of Item No. 51A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured in a factory and intended for use in the factory in which they are manufactured, or in any other factory of the same manufacturer, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

Provided that where such use is in a factory of a manufacturer, different from his factory where the said tools have been manufactured, the exemption contained in this notification shall be allowable subject to the observance of the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944.

#### सं० 73/83 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 157 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 54 के अन्तर्गत आने वाले प्रैसर कुकरों, को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

#### NO. 73/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts pressure cookers, falling under Item No. 54 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

#### सं० 74/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 158(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि इससे उपावद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी, प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

#### सारणी

क्र सं० अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)
1. 179/77-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना में अन्तर्लिखित परन्तु अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात्:— “परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात चन्दन-तेल को लागू नहीं होगी।”



1	2	3
2.	105/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना के पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “5. इस अधिसूचना की कोई बात चन्दन तेल की लागू नहीं होगी।”	
3.	46/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981	उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में स्पष्टीकरण से पत्रवे निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:— “परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात चन्दन तेल की लागू नहीं होगी।”

## NO. 74/84-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 158(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	179/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.	In the said notification, the following proviso shall be added at the end, namely:— “Provided that nothing contained in this notification shall apply to a Sandalwood oil”;
2.	105/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980	In the said notification after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted, namely:— “5. Nothing contained in this notification shall apply to Sandalwood oil”;
3.	46/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981.	In the said notification, in paragraph 1, before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that nothing contained in this notification shall apply to Sandalwood oil.”

## सं. 75/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 159(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 234/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं. 41 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“42 कृषिक श्रेणी पाइराइट ।

43. प्रैग्मड, खोई, ब्रावा और फ्लाई ऐश ।”

## NO. 75/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 159(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 234/82-Central Excises, dated the 1st November, 1982:—

In the Schedule annexed to the said notification after S. No. 41, the following shall be inserted, namely:—

“42. Agricultural grade pyrites.

43. Pressmud, bagasse, saw dust and fly ash.”

## सं. 76/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 160(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 68 के अन्तर्गत आने वाले ईंधन-दक्ष मिट्टी के तेल के बर्नर और स्टोव को, उक्त अधिनियम की उपधारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, कोई बर्नर या स्टोव ईंधन-दक्ष तब समझा जाएगा यदि उसकी ऊष्मा-दक्षता 55 प्रतिशत या अधिक है और भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग के उप-सचिव की पंक्ति से अग्रिम अधिकारी द्वारा तदनुसार प्रमाणित किया जाता है ।

## NO. 76/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 160(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fuel efficient kerosene burners and stoves falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excise and Sale Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

Explanation.—For the purpose of this notification, a burner or stove shall be deemed to be fuel efficient if it has a thermal efficiency of 55 per cent or more and certified accordingly by an officer, not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India, in the Department of Petroleum, Government of India.

## सं. 77/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 161(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 105/80-केन्द्रीय

उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नसक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 68 के अन्तर्गत आने वाले माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), जो चंदन तेल से भिन्न है, किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में देशी उपभोग के लिए उक्त माल की प्रथम निकासी की बाबत, तीस लाख रुपये से अधिक मूल्य तक, जिसकी निकासी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की जाती है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह कि किसी अधिकारी का जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिसमें निकासी किए जाने वाले उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर, समय-समय पर किए गए पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है :

परन्तु यह और कि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर उक्त माल की ऐसी प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी दशा में तीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

2. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने में देशी उपभोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में चालीस लाख रुपये से अधिक हो गया था ।

3. इस अधिसूचना की कोई बात किसी विनिर्माता को लागू नहीं होगी, —

(क) यदि ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क माल का कुल मूल्य, जिसकी निकासी, देशी उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से की जाती, चालीस लाख रुपये से अधिक हो गया हो; या

(ख) जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56ग में स्थाननिर्दिष्ट प्राथमिक विनिर्माता है और जो उक्त नियम में दी गई विशेष प्रक्रिया का उपभोग करना है ।

4. पैरा 2 और पैरा 3 के खण्ड (क) की कोई बात इस अधिसूचना में अन्तर्निहित छूट की —

(1) किसी ऐसे विनिर्माता की जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 283/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 नवम्बर, 1982 के अधीन दिए गए सूजरा का उक्त किसी माल के लिए वर्ष 1983-84 के लिए लागू नहीं होगी यदि ऐसा विनिर्माता, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 103/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 के अधीन उक्त ऐसे माल के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान छूट का पात्र था ;

(2) किसी ऐसे विनिर्माता को जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. /

83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 के अधीन दिए गए सूजरा का उक्त किसी माल के लिए वर्ष 1983-84 के लिए लागू नहीं होगी यदि ऐसा विनिर्माता, इस अधिसूचना के अधीन उक्त ऐसे माल के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान छूट का पात्र था ।

स्पष्टीकरण 1 :—पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि का अवधारण करने समय, उस समय जब ऐसा विनिधान किया गया था, विनिधान का अंतिम मूल्य ही हिसाब में लिया जाएगा, किन्तु ऐसे संयंत्र और मशीनरी पर जो किसी औद्योगिक एकक के स्थायी तौर पर हटा दी गई है या किसी प्रयोग के लिए अयोग्य ठहरा दी गई है, किए गए विनिधान का मूल्य ऐसे अवधारण में अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2 :—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उत्पाद-शुल्क माल की जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जहां किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य और मात्रा पर आधारित उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाती है) उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, निकासी को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3— इस अधिसूचना के अधीन निकासी के मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उक्त माल की, उक्त नियम 56ग के उपबन्धों के अधीन किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा जो उक्त नियमों के नियम 56ग में निर्दिष्ट द्वितीय विनिर्माता है, निकासी को, जिसके अन्तर्गत उक्त नियम 56ग के उपनियम (1) के चौथे परन्तुक के अनुसार की गई निकासी नहीं है, हिसाब में लिया जाएगा ।

5 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होगी ।

बी. लक्ष्मी कुमारन, उवर सचिव

#### NO. 77/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 161(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 105/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980, the Central Government hereby exempts goods, other than sandwood oil, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 194), (hereinafter referred to as the said goods), in respect of the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto a value not exceeding rupees thirty lakhs, cleared on or after the 1st day of April in and financial year, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured, is not more than rupees twenty lakhs :

Provided further that the total value of the first clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at nil rate of duty under this notification shall in no case exceed rupees thirty lakhs in a financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year had exceeded rupees forty lakhs.

3. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer,—

- (a) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories during the preceding financial year, has exceeded rupees forty lakhs, or
- (b) who is a primary manufacturer as referred to in rule 56C of the Central Excise Rule, 1944 and who avails of the special procedure laid down in the said rule.

4. Notwithstanding anything contained in paragraph 2 and clause (a) of paragraph 3, the exemption contained in this notification shall apply —

- (i) for the year 1983-84 to a manufacturer who is eligible for availing the credit granted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 283/82-Central Excises, dated the 27th November, 1982, for any of the said goods, if such manufacturer was eligible for exemption under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 105/80-Central Excises dated the 19th June, 1980 during the year 1982-83 for such of the said goods ;
- (ii) for the year 1984-85 to a manufacturer who is eligible for availing the credit granted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, for any of the said goods, if such manufacturer was eligible for exemption under this notification during the year 1983-84 for such of the said goods

Explanation I.—While determining the sum total of the value of the capital investment only the face value of the investment at the time when such investment was made shall be taken into account, but the value of the investment made on plant and machinery which have been removed permanently from the industrial unit or rendered unfit for any use shall be excluded from such determination.

Explanation II.—For the purposes of computing the value of clearances under this notification, the clearances of excisable goods, which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification (not being a notification where exemption from the whole of the duty of excise leviable thereon is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year) issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force, shall not be taken into account.

Explanation III.—For the purpose of computing the value of clearances under this notification, the clearances of the said goods, by a manufacturer who is a secondary manufacturer as referred to in rule 56C, of the said rules, under the provisions of the said rule 56C, except the clearances effected in terms of the fourth proviso to sub-rule (1) of the said rule 56C, shall not be taken into account.

5. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 1983

V. I. AKSHMIKUMARAN, Under Secy

सं. 78/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 162(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 223/62-

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मव 58 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“59. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मव स. 18 की उपमद 2(1)(ख) के अंतर्गत आने वाला टेक्स्चरीकृत सूत।”

NO. 78/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962 namely:—

In the said notification, after Item 58, the following Item shall be inserted, namely :—

“59 Textured yarn, falling under sub-item II(a)(b) of Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

सं. 79/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 163(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों के 8 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) किसी उत्पाद-शुल्क माल की बाबत उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन उस पर उद्ग्रहीत उत्पाद-शुल्क के (उस पर उद्ग्रहीत उत्पाद-शुल्क वह है जिसे इसमें इसके पश्चात् “कानूनी शुल्क” कहा गया है) किसी भाग से छूट, किसी ऐसे रूप या पद्धति से, जिसमें कानूनी शुल्क उद्ग्रहीत है, भिन्न रूप या पद्धति में अभिव्यक्त दर पर ऐसे माल पर किसी शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करके दी जा सकेगी और ऐसे उत्पाद-शुल्क माल के सम्बन्ध में इस उपनियम में उपबोधित रीति से दी गई कोई छूट इस धारा के अधीन प्रभावी होगी कि ऐसे माल पर प्रभावी उत्पाद-शुल्क किसी भी दशा में कानूनी शुल्क से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.—उत्पाद-शुल्क की किसी दर के सम्बन्ध में “रूप या पद्धति” से ऐसा आधार, अर्थात्, मल्यांकन, भार, क्षेत्र, आयाम या अन्य मापमान, अभिप्रेत है, जिसके प्रति निर्देश में शुल्क उद्ग्रहीत है।”

जितेन्द्र बत्रा, अवसर सचिव

NO. 79/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 163(E).—In exercise of the powers conferred by

section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944. namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (4th Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the said rules, after sub-rule (2) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(3) An exemption under sub-rule (1) or sub-rule (2) in respect of any excisable goods from any part of the duty of excise leviable thereon (the duty of excise leviable thereon being hereinafter referred to as the statutory duty) may be granted by providing for the levy of a duty on such goods at a rate expressed in a form or method different from the form or method in which the statutory duty is leviable and any exemption granted in relation to any excisable goods in the manner provided in this sub-rule shall have effect subject to the condition that the duty of excise chargeable on such goods shall in no case exceed the statutory duty.

Explanation.—“Form or method”, in relation to a rate of duty of excise, means the basis, namely, valuation, weight, number, length, area, volume or other measure with reference to which the duty is leviable.”.

J. K. BATRA, Under Secy.

सं० 80/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 164 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल्स और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक 1983 के खण्ड 55 के उपखंड (4), जो खंड अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उस विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944 के नियम 56 कक के उप-नियम (1) के अनुसरण में निदेश देती है कि इससे उपावद्ध सारणी क और सारणी ख के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क माप की वावत (जिस इसमें इसके पश्चात् “विनिर्दिष्ट माप” कहा गया है) जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् “केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम” कहा गया है) पहली की अनुसूची की ऐसी मद सं० के अंतर्गत आता और जो उक्त सारणियों के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट और जिसकी किसी कारखाने से देशी उपभोग के लिए 1 मार्च, 1983 से प्रारम्भ होने वाली और 20 फरवरी, 1984 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रोत्साहन अवधि” कहा गया है). आधारिक निकासी से अधिक निकासी की गई है,—

(क) किसी मामले में जहां विनिर्दिष्ट माल पर शुल्क केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन मूल्य के प्रति निर्देश से उद्ग्रहणीय है और ऐसे विनिर्दिष्ट माप पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के

अधीन प्रभाय शुल्क की प्रभायी दर मूल्य के बोनस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वगैरा,—

(i) आधारिक निकासी से अधिक किन्तु आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अनधिक विनिर्दिष्ट माल की ऐसी निकासी पर संदत्त सीमाशुल्क के 30 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा ; और

(ii) आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की ऐसी निकासी पर संदत्त उत्पाद-शुल्क के बराबर रकम का मुजरा ;

(ख) इस अधिसूचना से उपावद्ध सारणी क की मद सं० 19 और 21 के सामने विनिर्दिष्ट माल के मामले में,—

(i) आधारिक निकासी से अधिक किन्तु आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अनधिक ऐसे विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर 93.75 पैसे प्रति किलोग्राम की रकम का मुजरा, और

(ii) आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक ऐसे विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर 125 पैसे प्रति किलोग्राम की रकम का मुजरा ;

(ग) किसी अन्य मामले में,—

(i) आधारिक निकासी से अधिक किन्तु आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अनधिक ऐसे विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर संदत्त उत्पाद-शुल्क के 15 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा ; और

(ii) आधारिक निकासी के 110 प्रतिशत से अधिक ऐसे विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर संदत्त उत्पाद-शुल्क के 20 प्रतिशत के बराबर रकम का मुजरा,

उक्त सारणियों के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दिया जा सकेगा—

(i) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित माल की निकासी (जिसके अन्तर्गत आधारिक निकासी भी है), उक्त सारणियों के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सारणियों के प्रत्येक क्रम संख्यांक की बाबत उक्त सारणियों के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संगणना के लिए इकाई के अनुसार प्रथमतः संगणित की जाएगी और प्रत्येक ऐसे क्रम संख्यांक की बाबत, उक्त क्रम संख्यांक के सामने उक्त

सारणियों के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सभी माल की निकासी का कुल योग संगणना में लिया जाएगा।

(ii) विनिर्दिष्ट माल की निकासियों का (जिसे अन्तर्गत आधार्मिक निकासी भी है) अवधारण करने में उक्त किन्हीं या सभी अधिनियमों के अधीन उद्घरण्य संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट माल की निकासी और निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट माल की निकासी भी संगणना में ली जाएगी।

(iii) किसी भी विनिर्माता को 1 अप्रैल, 1984 के पूर्व मुजरा अनुपात नहीं किया जाएगा।

(iv) किसी भी कारखाने की बाबत जिसमें विनिर्दिष्ट माल की निकासी—

(क) 1 अप्रैल, 1980 को या उसके पश्चात पहली बार की गई थी, या

(ख) वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान नहीं की गई थी,

मुजरा अनुपात नहीं किया जाएगा।

(v) आधार्मिक निकासी के 160 प्रतिशत से अधिक विनिर्दिष्ट माल की निकासी पर संदत्त उत्पाद-शुल्क की बाबत मुजरा अनुपात नहीं किया जाएगा।

(vi) आधार्मिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि की बाबत सारणी के क्रम सं० 22, 23, 24 और 25 के सामने वर्णित विनिर्दिष्ट माल की (जिसे इसके पश्चात् इस खंड में उक्त विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) निकासी का अवधारण करने के लिए उक्त विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए आधार्मिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि के दौरान बाहर से कारखाने में प्राप्त उक्त विनिर्दिष्ट माल की मात्रा आधार्मिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि के दौरान की गई उक्त विनिर्दिष्ट माल की निकासी से क्रमशः घटा दी जाएगी।

(vii) ऊपर खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, आधार्मिक अवधि या प्रोत्साहन अवधि की बाबत उक्त सारणी के क्रम सं० 22, 23, 24 और 25 के सामने वर्णित विनिर्दिष्ट माल का (जिसे इसके पश्चात् इस खंड में उक्त विनिर्दिष्ट माल कहा गया है) अवधारण करने के लिए उक्त विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए ऐसी अवधियों के दौरान उत्पादन कारखाने के भीतर की विनिर्दिष्ट माल की निकासी संगणना में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ—

(1) “आधार्मिक निकासी” से—

(क) ऐसे कारखाने के मामले में जो किसी कारण से आधार्मिक अवधि के दौरान किसी एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए बंद नहीं रहा था—

(i) उक्त सारणी ‘क’ के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आधार्मिक अवधि के दौरान ऐसे कारखाने में ऐसे माल की निकासी का 110 प्रतिशत अभिप्रेत है, और

(ii) उक्त सारणी ‘ख’ के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल की बाबत, आधार्मिक अवधि के दौरान ऐसे कारखाने में ऐसे माल की निकासी का 120 प्रतिशत अभिप्रेत है।

(ख) ऐसे कारखाने के मामले में जो किसी कारणवश आधार्मिक अवधि के दौरान एक समय में पंद्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए बंद रहा था, उपरोक्त खंड (क) यथास्थिति, उपखंड (i) के अधीन या गुणनखंड 365/365-य द्वारा गुणा करके उपखंड (ii) के अधीन अवधारित निकासी अभिप्रेत है जहां य, यथास्थिति अवधि या अवधियों में समाविष्ट कुल दिन की संख्या का द्योतन करता है जिस के दौरान कारखाना इस प्रकार बंद रहा था।

(2) “आधार्मिक अवधि” ऐसी अवधि होगी जिसमें 1 मार्च, 1981 से प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाली या 1 मार्च, 1982 को प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट माल की निकासी का योग उच्चतर है।

(3) “संदत्त उत्पाद-शुल्क” में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1), अनिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और वित्त अधिनियम, 1983 के खंड 55 जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के अधीन संदत्त उत्पाद-शुल्क, यदि कोई हो, का कुल योग अभिप्रेत है।

(4) “केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उद्घरण्य शुल्क की प्रभावी दर” में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के माध्यम से, जो तत्काल प्रवृत्त है (जो उस अधिसूचना से भिन्न है जिसमें ऐसे माल पर ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग, किए गए कच्चे माल या मध्यमक पुरजों पर पहले से ही

सबसे किसी उत्पाद-शुल्क की बाबत सूचना देने या उसके बराबर कटौती करने के लिए किसी छूट के लिए उपबंध है) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर अभिप्रेत है।

(5) "मूल्य" से—

(क) उक्त सारणी ख के क्रम स 1 से 17 के सामने विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-

शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित मूल्य अभिप्रेत है।

(ख) उक्त सारणी ख के क्रम मध्या 18 से 23 के सामने विनिर्दिष्ट माल की बाबत, यथा स्थिति उपर खड (क) के अधीन या भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, राजस्व और वीमा विभाग की अधिसूचना सं० 120/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित मूल्य अभिप्रेत है।

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की पहली अनुसूची की मद मध्या	माल का वर्णन	संगणना के लिए इकाई	धर्मे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	14क	मोटा क्षार	भार	---
2	14क(1)	कैल्शियम कार्बाइड, बर्लियम पेरट और बर्लियम पाउडर, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडा बाइ-कार्बोनेट, सोडियम या सोडियम का बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन पर क्लोराइड और सोडियम पर-सैगनेट।	भार	---
3	14ख	कार्बोनिट सोडा और कार्बोनिट पाउडर	भार	---
4	14ग	ग्लिसरीन	भार	---
5	14घ	सिलिकेट कार्बोनिट उत्पाद	भार	---
6	14छ	हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल	भार	---
7	14ज(1)	आक्सीजन	आयतन	---
8	14ज(ii), (iii), (iv) और (vi)	क्लोरीन, अमोनिया, कार्बोनिट अम्ल और एमिटिलीन	भार	---
9	15क(1)	कृत्रिम या सिलिकेट रजिन और कार्बोनिट सामग्री तथा अन्य सामग्री	भार	---
10	15कक	कार्बोनिट सर्फेस-फ्लैट एजेंट (साबुन से भिन्न) सर्फेस-फ्लैट निर्मितिया और धुलाई निर्मितिया	भार	---
11	17(1)	अविलेपित और विनेपित मुद्रण और लेखन कागज (पोस्टर कागज से भिन्न)	भार	परन्तु यह कि कारखाने में निकासी किया गया अविलेपित आ मुद्रण और लेखन कागज (पोस्टर कागज से भिन्न) की बाबत विनिर्दिष्ट वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 108/81-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 जून, 1981 द्वारा दी गई छूट उपभोग नहीं किया गया है या नहीं करता है।

1	2	3	4	5
				परन्तु यह भी कि ऐसे कागज का उत्पादन लुगदी से किया गया है।
12.	17(1)	कागज बोर्ड और अन्य सभी प्रकार का कागज	भार	परन्तु यह कि ऐसे कागज बोर्ड या कागज का उत्पादन लुगदी से किया गया है।
13.	क्रम सं० 18 की उपसद I	स्टेपल फाइबर और सेलुलोजिक मूल का टो	भार	---
14.	"	स्टेपल फाइबर और असेलुलोजिक मूल का टो- एक्राइलिक फाइबर	भार	---
15.	"	स्टेपल फाइबर और असेलुलोजिक मूल का पालि- एस्टर फाइबर	भार	---
16.	"	क्रम सं० 14 या क्रम सं० 15 के अन्तर्गत आने वाली स्टेपल फाइबर और असेलुलोजिक मूल का टो	भार	---
17.	सद सं० 18 की उपसद II	कृत्रिम फिलामेंट सूत जो पूर्णतः सेलुलोजिक उत्पादों या सम्मिश्रित सेलुलोज या दोनों से मिलकर बना है।	भार	---
18.	सद सं० 18 की उपसद II	नाइलोन फिलामेंट सूत, टैक्सचरीकृत से भिन्न	भार	---
19.	"	नाइलोन फिलामेंट सूत, टैक्सचरीकृत	भार	---
20.	"	पालिग्रेस्टर फिलामेंट सूत, टैक्सचरीकृत से भिन्न	भार	---
21.	"	पालिग्रेस्टर फिलामेंट सूत, टैक्सचरीकृत	भार	---
22.	26	इस्पात की मिल्लियाँ जिनके अन्तर्गत पिघला इस्पात स्क्रैप भी है।	भार	
23.	26क	तांबा	भार	परन्तु यह कि ऐसे तांबे का एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र में विनिर्माण किया जाता है।
24.	26कक	लोह और इस्पात उत्पाद	भार	परन्तु यह कि ऐसे लोह या इस्पात उत्पादों का किसी एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र या किसी कारखाने में विद्युत भट्टी की सहायता से विनिर्माण किया जाता है।
25.	26ख	जस्ता	भार	परन्तु यह कि ऐसे जस्ते का एकीकृत अयस्क आधारित संयंत्र में विनिर्माण किया जाता है।
26.	28	टिन प्लेट और टिन की चादर	भार	---
27.	30ख	मोटर स्टार्टर	संख्या	---
28.	31(1)	विद्युत बैटरियाँ (शुष्क किस्म की—धातु आवरण से ढकी हुई बैटरियों से भिन्न)	संख्या	---
29.	31(1)	विद्युत बैटरियाँ (शुष्क किस्म की—आवरण से ढकी हुई बैटरियाँ)	संख्या	---

1	2	3	4	5
30	31(2)	विद्युत बैटिंग (भट्टा, रण रिम्भ की)	संख्या	---
31	32(1)	छोटे लैम्प और दृश्य सूचक बल्ब जिनका उपयोग टेलीफोन और तार के स्विच बोर्डों और सहबद्ध प्रयोजना के लिए किया जाता है से भिन्न बिजली और गैस भरे विद्युत बल्ब	संख्या	---
32	32(1)	छोटे विद्युत बल्ब और दृश्य सूचक बल्ब जिनका उपयोग टेलीफोन और तार स्विच बोर्डों और सहबद्ध प्रयोजना के लिए किया जाता है।	संख्या	---
33	32(2)	फ्लोरोसेन्ट प्रकाश ट्यूब	संख्या	---
34	32(3)	मोडियम और सर्करी वाष्प निर्वाचित लैम्प	संख्या	---
35	34 I (1)	दो पहियों वाले मोटर यान जिनके इंजन की क्षमता 100 घन सेंटीमीटर से अधिक नहीं है	संख्या	---
36	34 I (1)	क्रम सं० 35 के अन्तर्गत आने वाले दो पहियों वाले मोटर यान	संख्या	---
37	34 I (1)	तीन पहियों वाले मोटर यान	संख्या	---
38	34 I (2)	सैलून कार से भिन्न मोटर यान	संख्या	---
39	34 I (3)	सैलून कार से भिन्न मोटर यान	संख्या	---
40	34 II	ट्रैक्टर जिनके अन्तर्गत कृषि ट्रैक्टर भी हैं	संख्या	---
41	34ख	संकर्स ट्रक	संख्या	---
42	63	तार के रस्से	भार	---
43	64	कार्बन काजल	भार	---
44	65	रबड़ प्रसरक रसायन	भार	---
45	68	कंक्रीट मिश्रक	संख्या	---
46	68	ग्रेडर्स, उत्खनित, बलुआ और मिट्टी हटाने वाले अन्य उपकरण	संख्या	---
47	68	लोकोमोटिव	संख्या	---
48	68	रेल डिब्बे	संख्या	---

## मारणी-ख

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1914 की पहली अनुसूची की मद संख्या	माल का वर्णन	संगणना के लिए इकाई	धर्म
1	2	3	4	5
1	14	वर्णक रंग, पेंट, हनेमल, वार्निश, कानिख और मेल्बोस लेकर	परिमाण	---
2	16	टायर	परिमाण	परन्तु यह कि कारखाने से निकाली किए गए टायरों की बाबत विनिर्माता ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 107/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1981 द्वारा दी गई छूट का उपयोग नहीं किया है या जिस



1	2	3	4	5
				मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 268/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 नवम्बर, 1982 द्वारा दी गई छूट का उपभोग नहीं करता है।
3.	16	द्यूब	परिमाण	—
4.	16	फ्लैप	मूल्य	—
5.	16क(4)	पांरेषण-पट्टे प्रवहण पट्टा या एली-वेटर पट्टे या बल्कनीकृत रबड़ का पट्टा लगाना	मूल्य	—
6	16कक	संश्लिष्ट रबड़ जिसके अंतर्गत संश्लिष्ट रबड़ लेटेक्स और पूर्व बल्कनीकृत रबड़ लेटेक्स भी है	मूल्य	—
7.	29	अंतर्दहीन इंजन	मूल्य	—
8. मद	30 की उपमद (क), (ख) और (ग)	विद्युत मोटर	मूल्य	—
9.	30क	शक्ति से चलने वाले पम्प	मूल्य	—
10.	33 ख	बिजली के तार और केबल	मूल्य	—
11.	45	भार अवधारित करने की मशीनरी और उपस्कर	मूल्य	—
12.	49	रोलिंग बेयरिंग	मूल्य	—
13.	50	सभी प्रकार के वैल्विंग एलेक्ट्रोड	मूल्य	—
14.	51	बिलेपित अपघर्षक और धर्षण चक्र	मूल्य	—
15.	51क	औजार	मूल्य	—
16.	62	औजार टिप	मूल्य	—
17.	67	ग्रेफाइट एलेक्ट्रोड और एनोड	मूल्य	—
18	18	मशीन औजार	मूल्य	—
19.	68	वायु और गैस संपीडक	मूल्य	—
20.	68	बायलर	मूल्य	—
21.	68	क्रेन	मूल्य	—
22.	68	औद्योगिक चूल्हे और भट्टियां	मूल्य	—
23.	68	उच्चताप सह ईंट	मूल्य	—

2. इस अधिसूचना की कंडीशन बात ऐसे विनिर्दिष्ट माल को लागू नहीं होगी जो मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित किया जाना है और भारत में किसी स्थान पर लाया जाता है।

बी० लक्ष्मी कुमारन, अवर सचिव

## NO. 80/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 164(E).**—In pursuance of sub-rule (1) of rule 56AA of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and sub-clause (4) of clause 55 of the Finance Bill, 1983 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that in respect of excisable goods of the description specified in column (3) of Table A and Table B hereto annexed [hereinafter referred to as the specified goods] and falling under such Item number of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) [hereinafter referred to as the Central Excises Act], as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Tables and cleared from a factory for home consumption during the period commencing on and from the 1st day of March, 1983 and ending with the 29th day of February, 1984 [hereinafter referred to as the incentive period] in excess of the base clearances,—

(A) in a case where duty of excise on specified goods is chargeable under the Central Excises Act with reference to value and the effective rate of duty leviable under the Central Excises Act on such specified goods is not more than 20 per cent. ad valorem :—

(i) a credit of an amount equal to 30 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding the base clearances but not exceeding 110 per cent. of the base clearances; and

(ii) a credit of an amount equal to 40 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding 110 per cent. of the base clearances;

(B) in the case of goods specified against S Nos 19 and 21 of Table A, annexed to this notification,—

(i) a credit of an amount of 93.75 paise per kilogram on clearances of such specified goods exceeding the base clearances but not exceeding 110 per cent. of the base clearances; and

(ii) a credit of an amount of 125 paise per kilogram on clearances of such specified goods exceeding 110 per cent. of the base clearances;

(C) in any other case,—

(i) a credit of an amount equal to 15 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding base clearances but not exceeding 110 per cent. of the base clearances; and

(ii) a credit of an amount equal to 20 per cent. of the duties of excise paid on clearances of such specified goods exceeding 110 per cent. of the base clearances.

may be granted subject to the conditions, if any, specified in column (5) of the said Table and the conditions specified below :—

(i) The clearances (including the base clearances) of the specified goods mentioned in column (3) of the said Tables shall be computed separately in respect of each serial number of the Table specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table in terms of the unit for calculation specified in the corresponding entry in column (4) of the said Tables and in respect of each such serial number, the aggregate of the clearances of all the goods specified in column (3) of the said Tables against the said serial number shall be taken into account.

(ii) In determining the clearances (including the base clearances) of the specified goods, the clearances of the specified goods exempted from the whole of the duties of excise leviable thereon under any or all of the said Acts and the clearances of the specified goods for export shall also be taken into account.

(iii) No credit shall be allowed to any manufacturer before the 1st day of April, 1984.

(iv) No credit shall be allowed in respect of a factory from which clearances of the specified goods—

(a) were effected for the first time on or after the 1st day of April, 1980; or

(b) were not effected during the financial years 1980-81, 1981-82 and 1982-83.

(v) No credit shall be allowed in respect of the duties of excise paid on the clearances of the specified goods in excess of 160 per cent of the base clearances.

(vi) For determining the clearances of the specified goods mentioned against serial numbers 22, 23, 24 and 25 of the said Table A (hereinafter in this clause referred to as the said specified goods) in respect of the base period or the incentive period, the quantity of the said specified goods received in the factory from outside during the base period or the incentive period for the manufacture of the said specified goods shall respectively be deducted from the clearances of the said specified goods effected during the base period or the incentive period.

(vii) Notwithstanding anything contained in clause (ii) above for determining the clearances of the specified goods mentioned against serial numbers 22, 23, 24 and 25 of the said Table A (hereinafter in this clause referred to as the said specified goods) in respect of the base period or the incentive period, the clearances of the said specified goods effected within the factory of production during such period for use in the manufacture of the said specified goods shall not be taken into account.

**Explanation.**—For the purposes of this notification,—

(1) “base clearances”,—

(a) in the case of a factory which had not remained closed for a period of more than 15 days at one time during the base period due to any reason—

(i) in respect of goods specified in column (3) of the said Table A, means 110 per cent of the clearances of such goods from such factory during the base period; and

(ii) in respect of goods specified in column (3) of the said Table B, means 120 per cent of the clearances of such goods from such factory during the base period;

(b) in the case of a factory which had remained closed for a period of more than 15 days at one time during the base period due to any reason, means the clearances as determined under sub-clause (i) or, as the case may be, sub-clause (ii) of clause (a)

above multiplied by the factor  $\frac{365}{365-X}$ , where X denotes the total number of days comprised in the period or, as the case may be, periods during which the factory was so closed

(2) “base period” shall be the year in which the aggregate of the clearances of specified goods during the period, commencing on and from the 1st day of March, 1981 and ending with the 28th day of February, 1982 or the period commencing on and from the 1st day of March, 1982 and ending with the 28th day of February, 1983, whichever was higher.

(3) “duties of excise paid” means the sum total of the duties of excise, if any, paid under the Central Excise, and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and clause 55 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law.

(4) “effective rate of duty leviable under the Central Excises Act” means the rate of duty specified in the First Schedule to the Central Excises Act, read with any notification issued under sub-rule (1) of rule 9 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force (other than a

notification providing for any exemption for giving credit with respect to, or reduction of duty of excise on such goods equal to, any duty of excise already paid on the raw material or component parts used in the production or manufacture of such goods).

(5) "value",—

(a) in relation to the goods specified against serial numbers 1 to 17 of the said Table B, means value as

determined in accordance with the provisions of sections 4 of the Central Excises Act;

(b) in respect of the goods specified against serial numbers 18 to 23 of the said Table B, means value as determined under clause (a) above or, as the case may be, in accordance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance, No. 120/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975.

TABLE—A

Sl. No. of the first Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944	Description of goods	Unit for calculation	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 14A	Soda Ash	Weight	—
2. 14AA(1)	Calcium carbide, bleaching paste and bleaching powder, sodium hydrosulphite, bicarbonate of soda, bichromates of potassium or sodium, hydrogen peroxide and potassium permanganate.	Weight	—
3. 14B	Caustic soda and caustic potash	Weight	—
4. 14C	Glycerine	Weight	—
5. 14DD	Synthetic Organic products	Weight	—
6. 14G	Hydrochloric and Sulphuric Acids	Weight	—
7. 14H(i)	Oxygen	Volume	—
8. 14H(ii), (iii), (iv) and (vi).	Chlorine Ammonia, Carbonic Acid (carbon dioxide) and Acetylene.	Weight	—
9. 15A(1)	Artificial or synthetic resins and plastic materials and other materials.	Weight	—
10. 15AA	Organic surface active agents (other than soap); surface-Active preparations and washing preparations.	Weight	—
11. 17(1)	Uncoated and coated printing and writing paper (other than poster papers).	Weight	Provided that in respect of uncoated and coated printing and writing paper (other than poster paper) cleared from the factory, the manufacturer has not availed of and does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 108/81-Central Excises, dated the 24th June, 1981; Provided also that such paper has been produced out of pulp.
12. 17(1)	Paper board and all other kinds of paper.	Weight	Provided that such paper board or paper has been produced out of pulp.
13. Sub-Item I of Item No. 18.	Staple fibre and tow of cellulosic origin.	Weight	—
14. „	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin— fibre.	Weight	—
15. „	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin— Polyester fibre.	Weight	—
16. Sub-Item I of Item No. 18.	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin, not falling under S. No. 14 or S.No. 15.	Weight	—
17. Sub-Item II of Item No. 18.	Man-made filament yarn consisting entirely of cellulosic derivatives or regenerated cellulose or both.	Weight	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18. Sub-item II of item No. 18	Nylon filament yarn, other than textured.	Weight	—	
19. „	Nylon filament yarn, textured.	Weight	—	
20. „	Polyester filament yarn, other than textured.	Weight	—	
21. „	Polyester filament yarn, textured.	Weight	—	
22. 26	Steel ingots including steel melting scrap.	Weight	—	
23. 26A	Copper	Weight		Provided that such copper is manufactured in an integrated ore-based plant.
24. 26AA	Iron or steel products	Weight		Provided that such iron or steel products are manufactured in an integrated ore-based steel plant or in a factory with the aid of electric furnace.
25. 26B	Zinc	Weight		Provided that such zinc is manufactured in an integrated ore-based plant.
26. 28	Tin plates and tinned sheets	Weight	—	
27. 30B	Motor starters	Number	—	
28. 31(1)	Electric batteries (Dry type—other than metal jacketed batteries).	Number	—	
29. 31(1)	Electric batteries (Dry type—metal jacketed batteries).	Number	—	
30. 31(2)	Electric batteries (storage type)	Number	—	
31. 32(1)	Vacuum and gas filled electric bulbs other than miniature lamps and visual indicator bulbs used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	Number	—	
32. 32(1)	Miniature electric bulbs and visual indicator lamps used in telephonic and telegraphic switch boards and for allied purposes.	Number	—	
33. 32(2)	Fluorescent lighting tubes	Number	—	
34. 32(3)	Sodium and Mercury vapour discharge lamps.	Number	—	
35. 34I(1)	Two-wheeled motor vehicles of engine capacity not exceeding 100 cubic centimeters.	Number	—	
36. 34I(1)	Two-wheeled motor vehicles not falling under S.No. 35.	Number	—	
37. 34I(1)	Three-wheeled motor vehicles	Number	—	
38. 34I(2)	Motor vehicles other than saloon cars	Number	—	
39. 34I(3)	Motor vehicles other than saloon cars	Number	—	
40. 34II	Tractors, including agricultural tractor.	Number	—	
41. 34B	Works trucks	Number	—	
42. 63	Wire ropes	Weight	—	
43. 64	Carbon black	Weight	—	
44. 65	Rubber processing chemicals	Weight	—	
45. 68	Concrete Mixers	Number	—	
46. 68	Graders, Excavators, Bulldozers and other earth moving equipments.	Number	—	
47. 68	Locomotives	Number	—	
48. 68	Railway wagons	Number	—	

TABLE—B

Sl. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.	Description of goods	Unit for calculation	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 14		Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers.	Value	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	16	Tyres	Value	Provided that in respect of tyres cleared from the factory, the manufacturer has not availed of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 107/81—Central Excise, dated the 24th April, 1981, or does not avail himself of the exemption contained in the Ministry of Finance (Department of Revenue) notification No. 268/82—Central Excise, dated the 13th November, 1982.
3.	16	Tubes	Value	—
4.	16	Flaps	Value	—
5.	16A(4)	Transmission, conveyor or elevator belts or belting of vulcanised rubber	Value	—
6.	16A^	Synthetic rubber, including synthetic rubber latex and prevulcanised synthetic rubber latex.	Value	—
7.	29	Internal Combustion Engines	Value	—
8.	Sub-Items (A), (B) & (C) of Item 30.	Electric Motors	Value	—
9.	30A	Power Driven pumps	Value	—
10.	33B	Electric wires and cables	Value	—
11.	45	Machinery and appliances for determination of weight.	Value	—
12.	49	Rolling bearings.	Value	—
13.	50	Welding electrodes, all sorts	Value	—
14.	51	Coated abrasives and grinding wheels	Value	—
15.	51A	Tools.	Value	—
16.	62	Tool tips	Value	—
17.	67	Graphite electrodes and anodes	Value	—
18.	68	Machine tools	Value	—
19.	68	Air and gas compressors	Value	—
20.	68	Boilers	Value	—
21.	68	Cranes	Value	—
22.	68	Industrial ovens and furnaces	Value	—
23.	68	Refractory blocks	Value	—

Nothing contained in this notification shall apply to the specified goods which produced and manufactured in a free trade zone and brought to any other place in India

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

### सं० 81/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

### अनुसूची

सा० प्र० वि० 165 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेदन देती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना ऐसे माल को लागू नहीं होगी जो किसी मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित किया जाता है और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है।

1. सं० 26/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1983
2. सं० 27/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1983
3. सं० 28/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
4. सं० 30/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983

5. सं० 33/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
6. सं० 34/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
7. सं० 35/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1983
8. सं० 38/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1983
9. सं० 39/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
10. सं० 40/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
11. सं० 41/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
12. सं० 44/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
13. सं० 45/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
14. सं० 46/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
15. सं० 47/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
16. सं० 49/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
17. सं० 51/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
18. सं० 52/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
19. सं० 53/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
20. सं० 59/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
21. सं० 60/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
22. सं० 61/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
23. सं० 63/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
24. सं० 64/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
25. सं० 65/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
26. सं० 66/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
27. सं० 67/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983

28. सं० 68/83—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
29. सं० 70/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
30. सं० 71/83—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
31. सं० 72/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
32. सं० 73/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
33. सं० 76/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
34. सं० 77/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
35. सं० 80/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
36. सं० 83/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
37. सं० 95/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983

जितेन्द्र बत्ता, अवसर सचिव

#### NO. 81/83 CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 165(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications specified in the schedule hereto annexed shall not apply to the goods which are produced or manufactured in a free trade zone and brought to any other place in India

#### THE SCHEDULE

1. No. 26/83—Central Excises, dated the 25th February, 1983.
2. No. 27/83—Central Excises, dated the 25th February, 1983.
3. No. 28/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
4. No. 30/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
5. No. 33/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
6. No. 34/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
7. No. 35/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
8. No. 38/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
9. No. 39/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
10. No. 40/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
11. No. 41/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
12. No. 44/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
13. No. 45/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
14. No. 46/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
15. No. 47/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
16. No. 49/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
17. No. 51/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
18. No. 52/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.
19. No. 53/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983.

20. No. 59/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
21. No. 60/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
22. No. 61/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
23. No. 63/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
24. No. 64/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
25. No. 65/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
26. No. 66/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
27. No. 67/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
28. No. 68/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
29. No. 70/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
30. No. 71/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
31. No. 72/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
32. No. 73/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
33. No. 76/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
34. No. 77/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
35. No. 80/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
36. No. 83/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.
37. No. 95/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.

सं० 82/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 166(अ).--केन्द्रीय सरकार, अनिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इसमें सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना ऐसे माल को लागू नहीं होगी जो किसी मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित किया जाता है और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया जाता है।

#### अनुसूची

1. सं० 36/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983
2. सं० 54/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983

#### NO 82/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 166(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that each of the notifications specified in the Schedule hereto annexed shall not apply to the goods which are produced or manufactured in a free trade zone and brought to any other place in India.

#### SCHEDULE

1. No. 36/83-Central Excises dated the 1st March, 1983
2. No. 54/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983.

सं० 83/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 167(अ):-केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना

सं० 80/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जन, 1980 को अधिष्क्रान्त करने हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट माल" कहा गया है), और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की ऐसी मद संख्या के अन्तर्गत आता है जो उसकी सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, और जिसकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् देशी उपभोग के लिए की जाती है,—

(क) पांच लाख रुपए से अनधिक के कुल मूल्य तक विनिर्दिष्ट माल की प्रथम निकासी की दशा में, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से; और

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट मूल्य की उक्त प्रथम निकासी की ठीक अगली निकासी की दशा में (जो बीस लाख रुपए से अधिक के कुल मूल्य के विनिर्दिष्ट माल की निकासी है), [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित] उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद-शुल्क से जितना ऐसे शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है,

छूट देती है।

परन्तु एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से विनिर्दिष्ट माल की निकासी का कुल मूल्य, इस पैरा के खंड (क) और (ख) के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष में क्रमशः पांच लाख रुपए और बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि,—

- (i) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से, या
- (ii) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से,

देशी उपयोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पच्चीस लाख रुपए से अधिक हो गया था।

3. जहां किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी विनिर्दिष्ट माल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार

ऐसे माल की निकासी को है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्दिष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी, यदि—

(क) वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलक्टर के पास इस आशय की घोषणा फाइल कर देता है कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देशी उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्कय माल की निकासी का कुल मूल्य पच्चीस लाख रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है, और

(ख) उसके द्वारा या उसकी ओर से, एक या अधिक कारखानों से, देशी उपयोग के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी उत्पाद-शुल्कय माल की निकासी का कुल मूल्य पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है।

4. जहाँ विनिर्दिष्ट माल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, किसी कारखाने से नहीं की गई है, या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वर्ष में, 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्दिष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से देशी उपयोग के लिए, वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्कय माल की निकासी का कुल मूल्य पच्चीस लाख रुपए से अधिक हो जाना है।

5. पैरा 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिसूचना में अंतर्दिष्ट छूट,—

(1) वर्ष 1983-84 के लिए, किसी विनिर्माता को, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 283/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 नवम्बर, 1982 के अधीन किसी विनिर्दिष्ट माल के लिए दिए गए मुजरा का उपभोग करने का पात्र है, लागू होगी यदि ऐसा विनिर्माता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 के अधीन, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान छूट का पात्र नहीं था।

(ii) वर्ष 1984-85 के लिए, किसी विनिर्माता को, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 के अधीन किसी विनिर्दिष्ट माल के लिए दिए गए मुजरा का उपभोग करने का पात्र है, लागू होगी यदि ऐसा विनिर्माता इस अधिसूचना के अधीन, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान छूट का पात्र था।

स्पष्टीकरण-1 किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट माल की, की गई निकासी का कुल मूल्य की संगणना उक्त सारणी की प्रत्येक क्रम संख्या की बाबत अलग-अलग की जाएगी और प्रत्येक ऐसी क्रम संख्या की बाबत उक्त क्रम संख्या के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सभी माल का कुल मूल्य हिसाब में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण-2 इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'मूल्य' मद से वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका अवधारण, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नामक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार या उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियत या परिवर्तित टैरिफ मूल्यों के अनुसार किया जाता है।

स्पष्टीकरण-3—इस अधिसूचना के अधीन की गई निकासी के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी की क्रम सं० 25 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत, जहाँ कोई विनिर्माता केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा संचालित माण्ड विकास केन्द्र की या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी भट्टे में चीनी मिट्टी के सामान या पोर्सिलेन के सामान को या दोनों को पकाता है, वहाँ उक्त विनिर्माता के चीनी मिट्टी के सामान या पोर्सिलेन के सामान को या दोनों को, जो ऐसे भट्टे में पकवाए गए हैं, मूल्य हिसाब में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण-4—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्पाद-शुल्कय माल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा (जो ऐसी अधिसूचना नहीं है जहाँ उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से दी गई छूट किसी वित्तीय वर्ष में की गई निकासी के मूल्य या मात्रा पर आधारित है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, हिमात्र में नहीं ली जाएगी।

स्पष्टीकरण-5 जहाँ किसी विनिर्दिष्ट माल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निवेश" कहा गया है), उपयोग, निवेश के उत्पादन के कारखाने के भीतर विनिर्दिष्ट माल के (जिसे इसमें इसके पश्चात् "परिरूपित माल" कहा गया है) और विनिर्माण के लिए किया जाता है और जहाँ ऐसे निवेश और परिरूपित माल उक्त पहली अनुसूची की उमी मद के अन्तर्गत आते हैं, वहाँ ऐसे उपयोग के लिए ऐसे निवेश की निकासी इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।



सारणी		1	2	3
क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली, अनुसूची की मद सं०	वर्णन		
1	2	3		
1.	1क	मिष्ठांन (कन्फेक्शनरी)	17.	15ग सभी प्रकार के स्टार्च (जिसमें डैक्स्टीन और अन्य प्रकार के रूपान्तरित स्टार्च भी हैं)
2.	1ख	तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्य उत्पाद।	18.	15 घ जूते, फर्नीचर, फर्श चमड़ा, घातु, मोटरयान और काच के लिए पालिश और क्रीम मांजने के पाउडर और पैस्ट।
3.	1ग	वनस्पति अवाष्पशील तेल।	19.	16क रबड़ उत्पाद।
4.	12	वर्णक, रंग, पेंट, इनेमल, वार्निश, कालिख और सीलुसोस लेकर।	20.	16ख लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं
5.	14	कैनशियम कार्बाइड, क्लीचिंग पेस्ट और क्लीचिंग पाउडर तथा सोडियम का बाईक्रोमेट।	21.	17 सभी प्रकार के कागज और कागज बोर्ड और उनकी विनिर्दिष्ट वस्तुएं।
6.	14 कक(1)	मोडियम मिलिकेट।	22.	22इ० टाइपराइटर के और वैसे ही रिबन चाहे वे धरखी पर चढ़े हो या नहीं।
7.	14 खख	ग्लिसरीन।	23.	22घ ऐस्बेस्टास फाइबर और सूत और उसमें विनिर्माण।
8.	14 ग	ऐसे किस्म के संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पादन जिनका प्रयोग कार्बनिक संदीपकों के रूप में किया जाता है। ऐसे किस्म के उत्पाद जो प्रकाश विरंजन कर्मकों के रूप में जाने जाते हैं और फाइबर के लिए मुख्य होते हैं।	24.	23क काच और कांच का सामान।
9.	14 घच	पेटेंट या एकायन औषधियां।	25.	23 ख सभी प्रकार की चीनी मिट्टी का सामान और पोर्सिलेन का सामान
10.	14चच	दूधपेस्ट (जिसके अन्तर्गत दन्त क्रीम भी है)।	26.	23ग सभी प्रकार के ऐस्बेस्टास सीमेंट उत्पाद, जिनके अन्तर्गत चपटी और नालीदार चादरें, पाइप और ट्यूब तथा टाइल हैं।
11.	14चच	सभी प्रकार की नाईट्रिक, हाइड्रो-क्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल (जिनके अन्तर्गत सधूम अम्ल और उनके एनहाईड्राइड भी हैं)।	27.	29क सभी प्रकार के विद्युत मुद्रांकन और पट्टिकाएं।
12.	14 छ	गैसे, जिनके अन्तर्गत द्रवित और पिंडित गैसों भी हैं।	28.	20 सभी प्रकार के अन्तर्दहन इंजन।
13.	14 ज	साबुन।	29	30 सभी प्रकार की विद्युत मोटर और उनके पुर्जे।
14.	15	कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री और अन्य विनिर्दिष्ट सामग्री।	30.	30क द्रव पदार्थों के लिए शक्ति चालित पम्प (जिनके अन्तर्गत मोटर पम्प, टर्बी पम्प, और मोनोब्लॉक पम्प सेट हैं), चाहे उनमें मापक यंत्र फिट किए हुए हों या नहीं।
15.	15क(1)	कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय कर्मक (साबुन से भिन्न), पृष्ठसक्रिय निर्मितिया और धुलाई के लिए निर्मितिया, चाहे उसमें साबुन हो या नहीं।	31.	30ख मोटर स्टार्टर
16.	15कक		32.	31 विद्युत बैटरियां और उनके पुर्जे
			33.	32 विद्युत प्रकाश बल्ब और फ्लोरोसेंट प्रकाश ट्यूब।
			34.	33 सभी प्रकार के बिजली के पंखे, जिनके अन्तर्गत बिजली के पंख के रगुलेटर भी हैं।
			35.	38ख सभी प्रकार के बिजली के तार और केबल जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

1	2	3	1	2	3
36.	33ग	घरेलू विद्युत साधित्र जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	51.	49	सभी प्रकार के रोलिंग बेयरिंग अर्थात् बाल या गेयर बेयरिंग।
37.	33घ	कार्यालय की मशीनें और साधित्र जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	52.	50	सभी प्रकार के वैरिडिंग इन्कट्रोंड।
38.	33ङ०	विद्युत प्रदाय मीटर।	53.	51	लेपित अपघर्षक और चक्कियां।
39.	34	ट्रैलर।	54.	51क	औजार।
40.	34क	मोटर यानों और ट्रैक्टरों के (जिनके अन्तर्गत ट्रैलर हैं) पुर्जे और उपमाधन।	55.	52	आधार धातु या उनकी मिश्र धातुओं के चूड़ीदार या टप किए हुए बोल्ड और द्विवरियां तथा पेच।
41.	34ख	यंत्रनोदित संकर्म ट्रक जिनका प्रयोग थोड़ी दूरी के परिवहन या माल लादने-उतारने के लिए किया जाता है।	56.	53	जिप या स्नाइड बन्धक और उनके भाग।
42.	37ख	चलचित्त प्रक्षेपित्र और उनके पुर्जे।	57.	56	ताश।
43.	37ग	फोटोग्राफिक साधित्र और माल।	58.	57	कपूर।
44.	40	इस्पात से भागतः या पूर्णतः बना हुआ इस्पात का फर्नीचर चाहे वह समंजित दशा में हो या असमंजित दशा में (किन्तु इस्पात के बने खांचेदार कोणों और नालियों) (चैनलों) को छोड़कर)।	59.	58	सैन्थाल।
45.	41	क्राउन कार्क, चाहे उनमें ताशर या अन्य फिटिंग हों या नहीं।	60.	59(3)	ध्वनि रिकार्ड करने के लिए केसेट टेप।
46.	42	पैकेज करने के लिए सभी प्रकार के पिलफर प्रूफ इक्कन, चाहे उनमें वाशर या अन्य फिटिंग हों या नहीं।	61.	60	सभी प्रकार के आसंजक टैप जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं जिनके अन्तर्गत सेलुलोस आसंजक टैप और पैपर बैक आसंजक टैप भी हैं।
47.	44	हाथ की घड़ियां, दीवाल घड़ियां और टाइमपीस, जो मुख्यतया समय दिखाने के लिए डिजाइन की गई हों।	62.	61	विद्युत प्रकाश फिटिंग।
48.	45	घजन का अवधारण करने के लिए मशीनरी और साधित्र जिनके अन्तर्गत तौल पटल के पुर्जे भी हैं।	63.	62	टंग्स्टन, मालिब्डेनम और वैनेडियम जैसी धातुओं के सिन्दरित कार्बाइड के किसी भी रूप या आकार के बिना सिरे वाले टूल टिप।
49.	46	धातुओं के आधान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	64.	63	तार के रस्से।
50.	48	आधार धातु के मेफ, निजोरी, स्ट्रांग रूम लाइनिंग और स्ट्रांग रूम के दरवाजे, (चाहे उनमें चौखट हों या नहीं) तथा नकदी और विलेख रखने वाले बक्से तथा वैसी ही चीजे	65.	64	कार्बन ब्लैक (जिसके अन्तर्गत लैम्प ब्लैक और एसिटिलीन ब्लैक भी हैं)।
			66.	65	खड़ प्रसंस्करण रसायन।
			67.	66	स्थायी शुम्बक।

6. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1983 को प्रवृत्त होगी।

#### NO. 83/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/80-Central Excises dated the 19th June, 1980, the Central Government hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed (hereinafter referred to as the "Specified goods"), and falling under such Item Number of the First Schedule to Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, and cleared for home consumption on or after the

1st day of April in any financial year, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories;—

- (a) in the case of first clearances of the specified goods upto an aggregate value not exceeding rupees five lakhs, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act; and
- (b) in the case of the clearances (being clearances of the specified goods of an aggregate value not exceeding rupees twenty lakhs) immediately following the said first clearances of the value specified in clause (a), from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act [read with any relevant notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944 and in force for the time being] as is in excess of seventy-five per cent of such duty.

Provided that the aggregate value of clearances of the specified goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers in any financial year shall not exceed rupees five lakhs and rupees twenty lakhs respectively in terms of clauses (a) and (b) of this paragraph.

2. Nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption,—

- (i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or
- (ii) from any factory by or on behalf of one or more manufacturers,

had exceeded rupees twenty-five lakhs in the preceding financial year.

3. Where a manufacturer has not cleared any specified goods in the preceding financial year, or has cleared any such goods for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer,—

- (a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees twenty-five lakhs, and
- (b) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees twenty-five lakhs.

4. Where the specified goods have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees twenty-five lakhs.

5. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the exemption contained in this notification shall apply,—

- (i) for the year 1983-84 to a manufacturer who is eligible for availing the credit granted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 283/82-Central Excises, dated the 27th November, 1982, for any specified goods if such manufacturer was eligible for exemption under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 during the year 1982-83 for such specified goods,
- (ii) for the year 1984-85 to a manufacturer who is eligible for availing the credit granted under the notification

of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, for any specified goods if such manufacturer was eligible for exemption under this notification during the year 1983-84 for such specified goods.

Explanation I.—The aggregate value of clearances of the specified goods made during any financial year shall be computed separately in respect of each serial number of the said Table and in respect of each such serial number, the aggregate value of all the goods specified in column (3) of the said Table against the said serial number, shall be taken into account.

Explanation II.—For the purposes of this notification the expression 'value' means either the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or, as the case may be, according to the tariff values fixed or altered under section 3 of the said Act.

Explanation III.—For the purposes of determining the value of clearances under this notification, in respect of the goods of the description specified against serial number 25 of the said Table, where a manufacturer gets his Chinaware or Porcelainware or both fired in a kiln belonging to or maintained by a Pottery Development Centre run by the Central Government or a State Government or by the Khadi and Village Industries Commission, the value of the Chinaware or Porcelainware or both, belonging to the said manufacturer and fired in such a kiln, shall be taken into account.

Explanation IV.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification, the clearances of any excisable goods, which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification (not being a notification where exemption from the whole of the duty of excise leviable thereon is granted based upon the value or quantity of clearances made in a financial year) issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force, shall not be taken into account.

Explanation V.—Where any specified goods (hereinafter referred to as inputs) are used for further manufacture of specified goods (hereinafter referred to as finished goods) within the factory of production of inputs and where such inputs and finished goods fall under the same item of the said First Schedule, the clearances of such inputs for such use shall not be taken into account for the purposes of calculating the aggregate value of clearances under this notification.

TABLE

S. No.	Item No. in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.	Description
1	2	3
1.	1A	Confectionery.
2.	1B	Prepared or preserved Foods.
3.	1C	Foods products.
4.	12	Vegetable Non-essential Oils.
5.	14	Pigments, Colours, Paints, Enamels, Varnishes, Blacks and Cellulose Lacquers.
6.	14AA(1)	Calcium Carbide, bleaching paste and bleaching powder and bichromate of sodium.
7.	14BB	Sodium Silicate.
8.	14C	Glycerine.

1	2	3	1	2	3
9.	14DD	Synthetic Organic Products of a kind used as Organic Lumino-phores; products of the kind known as optical bleaching agents, substantive to the fibre.	38.	33E	Electricity Supply Meters.
10.	14E	Patent or Proprietary Medicines.	39.	34	Trailers.
11.	14FF	Tooth-Paste (including Dental Cream).	40.	34A	Parts and Accessories of Motor Vehicles and Tractors, including Trailers.
12.	14G	Nitric, Hydrochloric and Sulphuric Acids (including fuming acids and anhydrides thereof), all sorts.	41.	34B	Works Trucks, mechanically propelled, used for short distances transport or handling of goods.
13.	14H	Gases, including liquified or solidified gases.	42.	37B	Cinematograph Projectors and parts thereof.
14.	15	Soap.	43.	37C	Photographic Apparatus and goods.
15.	15A(1)	Artificial or synthetic resins and plastic materials and other specified materials.	44.	40	Steel furniture made partly or wholly of steel whether in assembled or un-assembled condition (but excluding slotted angles and channels made of steel).
16.	15AA	Organic Surface-Active Agents (other than soap); surface active preparations and washing preparations, whether or not containing soap.	45.	41	Crown Corks, with or without washers or other fittings.
17.	15C	Starch (including Dextrin and other forms of modified starch), all sorts.	46.	42	Pilfer Proof Caps for packaging, all sorts, with or without washers or other fittings.
18.	15D	Polishes and creams for footwear, furniture, floors, leather, metals, motor vehicles and glass; scouring powders and pastes.	47.	44	Watches, clocks, and Time Pieces, primarily designed to show the time of day.
19.	16A	Rubber Products.	48.	45	Machinery and Appliances for determination of weight including parts of weigh-bridges.
20.	16B	Wood and articles of wood.	49.	46	Metal containers not elsewhere specified.
21.	17	Paper and paper board, all sorts and specified articles thereof.	50.	48	Safes, Strong-Boxes, Strong-room linings and Strong-room doors (whether or not with door frames), and cash and deed boxes and the like, of base metal.
22.	22E	Typewriter and similar Ribbons, whether or not on spools.	51.	49	Rolling Bearings, that is to say, Ball or Roller Bearings, all sorts.
23.	22F	Asbestos fibre and yarn, and manufactures therefrom.	52.	50	Welding Electrodes, all sorts.
24.	23A	Glass and Glassware.	53.	51	Coated Abrasives and Grinding Wheels.
25.	23B	Chinaware and Porcelainware, all sorts.	54.	51A	Tools.
26.	23C	Asbestos Cement products, all sorts, including flat and corrugated sheets, pipes and tubes and tiles.	55.	52	Bolts, and Nuts, Threaded or Tapped, and Screws, of base metal or alloys thereof.
27.	28A	Electrical Stampings and Laminations, all sorts.	56.	53	Zip or Slide Fasteners and parts thereof.
28.	29	Internal combustion Engines, all sorts.	57.	56	Playing Cards.
29.	30	Electric Motors, all sorts; and parts thereof.	58.	57	Camphor.
30.	30A	Power Driven Pumps (including motor pumps, turbo-pumps and monobloc pump sets) for liquids, whether or not fitted with measuring devices.	59.	58	Menthol.
31.	30B	Motor Starters.	60.	59(3)	Cassette tapes for sound recording.
32.	31	Electric Batteries and Parts thereof.	61.	60	Adhesive Tapes, all sorts, not elsewhere specified, including cellulose adhesive tapes and paper backed adhesive tapes.
33.	32	Electric Lighting Bulbs and Fluorescent Lighting Tubes.	62.	61	Electric Lighting Fittings.
34.	33	Electric Fans including Regulators for Electric Fans, all sorts.	63.	62	Tool Tips, in any form or size, unmounted, of sintered carbides of metals such as Tungsten, Molybdenum and Vanadium.
35.	33B	Electric Wires and Cables, all sorts, not otherwise specified.	64.	63	Wire Ropes.
36.	33C	Domestic Electrical appliances, not elsewhere specified.	65.	64	Carbon black (including Lamp Black and Acetylene Black).
37.	33D	Office Machines and apparatus, not elsewhere specified.	66.	65	Rubber Processing Chemicals.
			67.	66	Permanent Magnets.

6. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1983.

J.K. BATRA, Under Secy.

## सं० 84/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 168 (अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 50 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची में वर्णित सभी माल को, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से, 1 मार्च, 1983 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, छूट देती है।

## NO. 84/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 168(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 50 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government hereby exempts all the goods mentioned in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of the said section for the period commencing on the 1st day of March, 1983 and ending on the 31st day of March, 1983.

## सं० 85/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 169 (अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1983 के खंड 55 के उपखंड (4) जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1 (1) 4 II(2), 6, 7, 8, 9, 11 कक(1), 11, ड० 13, 23 (1) 38 और 68 के अन्तर्गत आने वाले सभी माल को, उक्त खंड के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

## NO. 85/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 169(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 55 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts all the goods falling under Item Nos. 1(1), 4II(2), 6, 7, 8, 9, 11AA(1), 11E, 13, 23(1), 38 and 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause.

## सं० 86/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 170(अ)—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1955 के खंड 55 के उपखंड (4), जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16)

के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम" कहा गया है) की पहली अनुसूची की मद सं० 1, 1क, 1ख, 1ग, 1घ, 1ङ०, 2 (2), 4 II(1), 4 II(3), 4 II(4), 4 II(5), 4 II(6), 4 II(7), 10, 11, 11 क, 11कक(2), 12, 14, 14क, 14कक, 14ख, 14खख, 14ग 14घ, 14घघ, 14ङ०, 14च, 14चच, 14छ, 14ज, 15, 15क, 15कक, 15गग, 15घ, 16क, 16ख, 17, 22ग, 22ङ०, 22छ, 23क, 23ख, 23ग, 28क, 29, 29क, 30, 30क, 30ख, 31, 32 33, 33क, 33ख, 33ग, 33घ, 33घघ, 33ङ०, 33च, 34, 34क, 34ख, 36, 37क, 37कक, 37ख, 37खख, 37ग, 37गग, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51क, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, और 67, के अन्तर्गत आने वाले माल को, उक्त खंड के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना इस प्रकार प्रभार्य उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य उत्पाद-शुल्क की रकम के पांच प्रतिशत से अधिक है।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री या संघटक भागों पर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन पहले ही संदत्त किसी उत्पाद-शुल्क अथवा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन पहले ही संदत्त अतिरिक्त शुल्क की बाब त मुजरा देने के लिए किसी छूट के लिए अथवा ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क में उक्त उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के बराबर कमी करने के लिए उपबंध करने वाली कोई अधिसूचना, ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन प्रभार्य उत्पाद-शुल्क की रकम का अवधारण करने के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

## NO. 86/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 170(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 55 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts goods, falling under Item Nos. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2(2), 4II(1), 4II(3), 4II(4), 4II(5), 4II(6), 4II(7), 10, 11, 11A, 11AA(2), 12, 14, 14A, 14AA, 14B, 14BB, 14C, 14D, 14DD, 14E, 14F, 14FF, 14G, 14H, 15, 15A, 15AA, 15CC, 15D, 16A, 16B, 17, 22C, 22E, 22G, 23A, 23B, 23C, 28A, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 31, 32, 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 33DD, 33E, 33F, 34, 34A, 34B, 36, 37A, 37AA, 37B, 37BB, 37C, 37CC, 40, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 and 67 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), [hereinafter referred to as the Central Excises Act] from so much of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause as is in excess of five per cent of the amount of duty of excise chargeable on such goods under the Central Excises Act, read with any notification for the time being in force issued by the Central Government in relation to the duty of excise so chargeable.

Explanation.—For the purposes of this notification, any notification providing for any exemption for giving credit with respect to, or reduction of duty of excise under the Central Excises Act on such goods equal to, any duty of excise under the Central Excises Act, or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), already paid on the raw material or component parts used in the production or manufacture of such goods, shall not be taken into account for determining the amount of duty of excise chargeable on such goods under the Central Excises Act.

### सं० 87/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 171 (अ) :—केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक, 1983 के खंड 55, जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 और 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क के अधीन किया गया है और जहां ऐसे माल का भारत के बाहर, किसी देश या राज्यक्षेत्र को, जो नेपाल और भूटान से भिन्न हो, निर्यात करने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 12 या 12क के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 191क के अधीन घोषणा द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर दिए गए उत्पाद-शुल्क पर कोई रिबेट दिए जाने की अनुज्ञा दी है वहां विशेष उत्पाद-शुल्क का रिबेट भी उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा जो शर्तें उक्त उत्पाद शुल्क के रिबेट को लागू हैं।

### NO. 87/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 171(E).—In exercise of the powers conferred by rules 12 and 12A of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 55 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid clause and where on the export of such goods to any country or territory outside India, other than Nepal and Bhutan, the Central Government, by a notification under the said rule 12 or rule 12A or the Central Board of Excise and Customs, by a declaration under rule 191A of the Central Excise Rules, 1944, as the case may be, has allowed a rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of special duty of excise shall also be allowed subject to the same conditions as govern the rebate of the said excise duty.

### सं० 88/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 172 (अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक 1983 के खंड 55, जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 191-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क दिए जाने के दायित्वाधीन है और जहां केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 191-ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा ऐसे माल से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के बंधपत्राधीन विनिर्माण की अनुज्ञा दी है, वहां ऐसे माल से ऐसी वस्तुओं का बंधपत्राधीन विनिर्माण भी पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञेय होगा जो शर्तें उक्त नियम 191-ख के अधीन ऐसे विनिर्माण को लागू हैं।

### NO. 88/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 172(E).—In exercise of the powers conferred by rule 191B of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 55 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods are liable to special duty of excise under the aforesaid clause and where the Central Government has, by a notification issued under the said rule 191B, permitted the manufacture of specified articles in bond from such goods, manufacture of such articles, in bond, from such goods shall also be permissible for the purpose of the aforesaid clause subject to the same conditions as govern such manufacture under the said rule 191B.

### सं० 89/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 173 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1983 के खंड 55 के उपखंड (4) जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 1) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस माल को जो पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क के अधीन किया गया है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त अन्य उत्पाद शुल्क माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मध्यवर्ती उत्पाद” कहा गया है), पहले ही संदत्त विशेष उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है :

परन्तु इस अधिसूचना में श्रुतिविष्ट छूट केवल उसी विनिर्दिष्ट माल को लागू होगी जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देते हुए, जितना संबंधित अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती माल पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन पहले ही संदत्त उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है। पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

## NO. 89/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 173(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 55 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts goods which have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid clause, from so much of the special duty of excise leviable thereon as is equivalent to the special duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as the intermediate products) used in the manufacture of the said goods:

Provided that the exemption contained in this notification shall be applicable only to those goods, in respect of which, notifications under sub-rule (1) of rule 8 of the aforesaid Rules have been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is equivalent to the duty of excise under the said Central Excises and Salt Act already paid on the intermediate products specified in the respective notifications.

## सं० 90/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 174(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक 1983 के खंड 55 के उपखंड (4), जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद-शुल्क माल को उक्त, खंड के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

## NO. 90/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 174(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 55 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts all excisable goods produced or manufactured in a free trade zone from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause.

## सं० 91/83—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 175(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1983 के खंड 55 के उपखंड (4) जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:—

- (1) कार्बन काजल के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग के लिए आशयित सी० बी० एफ० (फीनाल निष्कर्ष) “500” और “1300”

को, चाहे वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 9 या मद सं० 10 या मद सं० 11 के अन्तर्गत आता है; और

- (2) कार्बन काजल के विनिर्माण में कार्बन काजल फीड स्टॉक सं० 72 और बर्मा-शैल कार्बन काजल फीड स्टॉक एस० एल० को, चाहे वे उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 9 या मद सं० 10 के अन्तर्गत आते हैं;

उक्त खंड के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

## NO. 91/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 175(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 55 of the Finance Bill, 1983, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts—

- (i) C.B.F. (Phenol Extract) ‘500’ and ‘1300’, whether it falls under Item No. 9 or Item No. 10 or Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black; and
- (ii) Carbon Black Feed Stock No. 72 and Burmah-Shell Carbon black Feed Stock S.L. whether they fall under Item No. 9 or Item No. 10 of the said First Schedule intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black,

from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of the said clause.

## सं० 92/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 176(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 (1982 का 14) की धारा 50 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात्:—

1. 169/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 11 मई, 1982
2. 170/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 मई, 1982
3. 171/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 मई, 1982
4. 172/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 मई, 1982
5. 174/82 केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क, तारीख 11 मई, 1982
6. 23/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 फरवरी, 1983

## NO. 92/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 176(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 30 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely:—

1. 169/82-Central Excises, dated the 11th May, 1982.
2. 170/82-Central Excises, dated the 11th May, 1982.
3. 171/82-Central Excises, dated the 11th May, 1982.
4. 172/82-Central Excises, dated the 11th May, 1982.
5. 174/82-Central Excises, dated the 11th May, 1982.
6. 23/83-Central Excises, dated the 11th February, 1983.

सं० 93/83 केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 177(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुक्त व्यापार जोन में उत्पादित या विनिर्मित सभी उत्पाद-शुल्क माल को, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

जितेन्द्र बत्रा, अवर सचिव

## NO. 93/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 177(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government hereby exempts all excisable goods produced or manufactured in a free trade zone from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978).

J. K. BATRA, Under Secy.

सं० 94/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 178 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, यथा स्थिति, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग या राजस्व और कंपनी विधि विभाग या राजस्व और बीमा विभाग की अधवा राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात्:—

1. 28/60-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1960
2. 142/64-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अगस्त 1964
3. 138/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1965

4. 139/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1966
5. 73/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 अप्रैल 1968
6. 28/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
7. 35/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969
8. 25/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970
9. 53/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970
10. 94/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970
11. 96/70 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970
12. 177/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 सितम्बर, 1971
13. 79/72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972
14. 116/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1973
15. 108/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 जून, 1974
16. 185/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1975
17. 201/75 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 सितम्बर, 1975
18. 50/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976
19. 68/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च 1976
20. 22/77-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1977
21. 29/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1977
22. 66/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1977
23. 281/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1977
24. 20/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 जनवरी, 1978
25. 38/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
26. 163/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 सितम्बर, 1978
27. 166/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 सितम्बर, 1978
28. 52/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
29. 81/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980
30. 82/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980
31. 85/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980
32. 94/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980
33. 95/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980
34. 101/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980



35. 14/8-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 फरवरी, 1981
36. 28/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981
37. 91/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1981
38. 19/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 फरवरी, 1982
39. 64/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
40. 88/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
41. 143/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982

## No. 94/83-Central Excises

G.S.R. 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance Department of Revenue or Department of Revenue and Company Law or Department of Revenue and Insurance, or in the Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely:—

1. 28/60-Central Excises, dated the 1st March, 1960.
  2. 142/64-Central Excises, dated the 29th August, 1964.
  3. 138/65-Central Excises, dated the 20th August, 1965.
  4. 139/66-Central Excises, dated the 24th September, 1966.
  5. 73/68-Central Excises, dated the 13th April, 1968.
  6. 28/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.
  7. 35/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.
  8. 25/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970.
  9. 53/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970.
  10. 94/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970.
  11. 96/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970.
  12. 177/71-Central Excises, dated the 25th September, 1971.
  13. 79/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
  14. 116/73-Central Excises, dated the 30th April, 1973.
  15. 108/74-Central Excises, dated the 20th June, 1974.
  16. 185/75-Central Excises, dated the 30th August, 1975.
  17. 201/75-Central Excises, dated the 20th September, 1975.
  18. 50/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
  19. 68/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
  20. 22/77-Central Excises, dated the 26th February, 1977.
  21. 29/77-Central Excises, dated the 26th February, 1977.
  22. 66/77-Central Excises, dated the 30th April, 1977.
  23. 281/77-Central Excises, dated the 20th August, 1977.
  24. 20/78-Central Excises, dated the 28th January, 1978.
  25. 38/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978.
  26. 163/78-Central Excises, dated the 4th September, 1978.
- 1407 GI/82—10.

27. 166/78-Central Excises, dated the 14th September, 1978.
28. 52/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979.
29. 81/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980.
30. 82/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980.
31. 85/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980.
32. 94/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980.
33. 95/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980.
34. 101/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980.
35. 14/81-Central Excises, dated the 12th February, 1981.
36. 28/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981.
37. 91/81-Central Excises, dated the 1st April, 1981.
38. 19/82-Central Excises, dated the 17th February, 1982.
39. 64/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.
40. 88/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982.
41. 143/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.

## सं० 95/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० सं० 179(अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 95/79 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 को अधिक्रान्त करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतिम उत्पाद" कहा गया है), जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की उस मद संख्यांक के अंतर्गत आता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उस पर उद्ग्रहणीय उत्तेज उत्पाद-शुल्क में छूट देनी है जितना, यथास्थिति, उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के समतुल्य है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वर्णन के ऐसे माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निर्देश" कहा गया है) पहले ही संदत्त कर दिया गया है जो उक्त पहली अनुसूची की ऐसी मद संख्यांक के अंतर्गत आता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

परन्तु यह कि—

- (i) उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में किसी विशिष्ट क्रम संख्या के सामने उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निवेश का प्रयोग उक्त क्रम संख्या के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में किया जाता है;
- (ii) इस अधिसूचना के अधीन छूट के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नियमों के नियम 56 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

## सारणी

क्रम सं०	उक्त पहली अनु-सूची की मद सं०	निवेश का वर्णन	उक्त पहली अनुसूची की मद संख्या	अंतिम उत्पाद का वर्णन
1	2	3	4	5
1.	16	टायर और ट्यूब	34 ख	फोर्क लिफ्ट ट्रक और प्लेटफार्म ट्रक ।
2.	31	विद्युत स्टोरेज बैटरियां	34 ख	फोर्क लिफ्ट ट्रक और प्लेटफार्म ट्रक ।
3.	27	एल्यूमीनियम	29 क	सभी प्रकार के प्रशीतन और वातानुकूलन साधन और मशीनरी और उनके पुर्जे ।
4.	26 क	तांबे की पाइप और ट्यूब	29 क	सभी प्रकार के प्रशीतन और वातानुकूलन साधन और मशीनरी और उनके पुर्जे ।
5.	26 क	इस्पात चादरें और प्लेटें		सभी प्रकार के प्रशीतन और वातानुकूलन साधन और मशीनरी और उनके पुर्जे ।
6.	26 क	इस्पात चादरें और पट्टियां	28 क	सभी प्रकार के विद्युत मुद्रांकन और पटलिकाएं ।
7.	28 क	सभी प्रकार के विद्युत मुद्रांकन और पटलिकाएं	30	सभी प्रकार की विद्युत मोटरें और उनके पुर्जे जिनके अन्तर्गत डाइ-कास्ट रोटरी भी हैं ।
8.	26 क	इस्पात विलेट, तार और तार की छड़ें ।	63	तार के रस्से ।
9.	26 क	इस्पात चादरें और प्लेटें	48	तिजोरी, तिजोरीनुमा बक्से, स्ट्रांग-रूम लाइनिंग, और स्ट्रांग रूम के दरवाजे तथा नकदी और विलेख रखने वाले बक्से तथा इसी प्रकार की चीजें ।
10.	15 ग	स्टार्च	1 क	ग्लूकोज और डैक्स्ट्रोस ।
11.	11 क	पेट्रोलियम कोक	11 ग	निस्तप्त पेट्रोलियम कोक ।
12.	33 ख	तांबे के अनावरित तार	26 क	तांबे की पट्टियां या अन्य विनिमित्तियां ।
13.	33 ख	एल्यूमीनियम के अनावरित तार	27	किसी भी रूप या तार की एल्यूमीनियम पट्टियां
14.	30	विद्युत मोटरें, स्टेटर, रोटर और डाइ-कास्ट रोटर ।	29 क	प्रशीतक, वातानुकूलक और प्रशीतन तथा वातानुकूलन साधन और मशीन ।
15.	30	स्टेटर, रोटर और डाइ-कास्ट रोटर	29 क (3)	संपीडक ।
16.	30	विद्युत मोटरें, स्टेटर, रोटर और डाइ-कास्ट रोटर ।	33	बिजली के पंखे ।
17.	30	विद्युत मोटर, स्टेटर, रोटर और डाइ-कास्ट रोटर ।	33 ग	घरेलू विद्युत साधन जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।
18.	33	बिजली के पंखे	29 क	प्रशीतक, वातानुकूलक या प्रशीतन अथवा वातानुकूलन साधन तथा मशीनरी ।
19.	16 क	मॉशिलेट रबड़	16	टायर, ट्यूब और फ्लैप ।
20.	64	कार्बन काजल	16	टायर, ट्यूब और फ्लैप ।
21.	65	रबड़ प्रसंस्करण रसायन	16	टायर, ट्यूब और फ्लैप ।

## No. 95/83-Central Excises

**G.S.R. 179(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 95/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, the Central Government hereby exempts excisable goods of the description specified in column (5) of the Table hereto annexed (such goods being hereinafter referred to as "final products") and falling under such Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act, as is equivalent to the duty of excise leviable under the said Act, or the additional duty leviable under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, already paid on the goods of the description specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table (such goods being hereinafter referred to as "inputs") and falling under such Item No. of the said First Schedule as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

Provided that—

(i) the inputs specified in column (3) of the said Table against a particular serial number in column (1) thereof are used in the manufacture of the final products specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table against the said serial number;

(ii) in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the aforesaid rules is followed.

## THE TABLE

S. No. of the said First Schedule	Item No. Description of inputs	Item No. Description of the said First Schedule	Description of final products.
1	2	3	4
5			
1. 16	Tyres and Tubes	34B	Fork lift trucks and platform trucks.
2. 31	Electric storage batteries	34B	Fork lift trucks and platform trucks.
3. 27	Aluminium	29A	Refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts and parts thereof.
4. 26A	Copper pipes and tubes	29A	Refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts and parts thereof.
5. 26AA	Steel sheets and plates	29A	Refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts and parts thereof.
6. 26AA	Steel sheets and strips	28A	Electrical stampings and laminations, all sorts.

1	2	3	4	5
7. 28A	Electrical stampings and laminations, sorts.	30		Electric motors, all sorts; and parts thereof, including die-cast rotors.
8. 26AA	Steel billets, wires and wire rods.	63		Wire ropes.
9. 26AA	Steel sheets and plates	48		Safes, strong boxes, strong-room linings and strong room doors and cash and deed boxes and the like.
10. 115C	Starch	1E		Glucose and Dextrose
11. 11A	Petroleum coke	11C		Calcined petroleum coke.
12. 33B	Bare copper wires	26A		Stripes or other manufactures of copper.
13. 33B	Bare aluminium wire	27		Aluminium strips in any form or size.
14. 30	Electric motors, stators, rotors and die-cast rotors	29A		Refrigerators, air-conditioners and refrigerating and air conditioning appliances and machinery.
15. 30	Stators, rotors & and die-cast rotors	29A(3)		Compressors.
16. 30	Electric motors, stators, rotors, and die-cast rotors.	33		Electric fans.
17. 30	Electric motors, stators, rotors and die-cast rotors.	33C		Domestic electrical appliances, not elsewhere specified.
18. 33	Electric fans	29A		Refrigerators, air-conditioners or refrigerating or air-conditioning appliances and machinery.
19. 16AA	Synthetic rubber	16		Tyres, tubes and flaps.
20. 64	Carbon black	16		Tyres, tubes and flaps.
21. 65	Rubber processing chemicals.	16		Tyres, tubes and flaps.

## सं. 98/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**रा.का.नि. 180(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 99/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 जून, 1968 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और गमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 14-घघ के अंतर्गत आने वाले ऐसे किसी के उत्पादों को जो देशों के स्वतः प्रकाशीय विरंजक के रूप में जाने जाते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्घरणायक प्रत्यक्ष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु यह तब जब कि उक्त प्रकाशीय-विरंजन का उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 15कक के अंतर्गत आने वाली और

तापन के लिए शक्ति या वाष्प की सहायता से विनिर्मित या पैक की गई सरफेस-ऐक्टिव निर्मितियों और धुलाई निर्मितियों, चाहे उनमें साबुन हो या नहीं, के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग किया जाता है।

#### NO. 96/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 180(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 99/66-Central Excises, dated the 17th June, 1966, the Central Government hereby exempts products of the kind known as optical bleaching agents, substantive to the fibre, falling under Item No. 14DD of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that the said optical bleaching agents are used within the factory of production in the manufacture of surface-active preparations and washing preparations, whether or not containing soap, falling under Item No. 15AA of the said First Schedule and manufactured or packed with the aid of power or of steam for heating.

#### सं. 97/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 181(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 15कक के अंतर्गत आने वाली सरफेस-ऐक्टिव निर्मितियों और धुलाई निर्मितियों को, चाहे उनमें साबुन हो या नहीं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है जिसका उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 14घघ के अंतर्गत आने वाले और उक्त सरफेस-ऐक्टिव निर्मितियों और धुलाई निर्मितियों के विनिर्माण में प्रयुक्त ऐसे किस्म के उत्पादों पर जो रेशों के स्वतः प्रकाशीय विरंजक के रूप में जाने जाते हैं, पहले ही संदाय कर दिया गया है;

परन्तु यह तब जब कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के संबंध में, पूर्वोक्त नियमों के नियम 56क में उपबर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

#### NO. 97/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 181(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts surface-active preparations and washing preparations, whether or not containing soap, falling under Item No. 15AA, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act as is equivalent to duty of excise under the said Act, already paid on products of the kind known as optical bleaching agents, substantive to the fibre, falling under Item No. 14DD of the said First Schedule, and used in the manufacture of the said surface-active preparations and washing preparations:

Provided that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the said Act is followed.

#### सं. 98/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 182(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 49/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 को अधिष्ठात करतें हुए,

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 14छ के अंतर्गत आने वाले सल्फ्यूरिक अम्ल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब कि ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल का उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 14छ के अंतर्गत आने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग किया जाता है और जिस पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क पूर्णतः या भागतः उद्ग्रहणीय है।

#### NO. 98/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 182(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, the Central Government hereby exempts sulphuric acid, falling under Item No. 14G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable under section 3 of the said Act:

Provided that such sulphuric acid is used within the factory of production in the manufacture of hydro chloric acid, falling under Item No. 14G of the said First Schedule and on which duty of excise under the said Act is leviable whether in whole or in part.

#### सं. 99/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 183(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 70/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 71/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 72/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 को अधिष्ठात करतें हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 15क की उपमद (2) के अंतर्गत आने वाले—

- (1) कड़े पोलिविनाइल क्लोराइड बोर्ड, शीटिंग, शीट और फिल्म, चाहे प्रलाक्ष लेपित या धातुकृत या पटलित हों या नहीं;
- (2) कड़े प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीट और फिल्म, चाहे प्रलाक्ष लेपित या धातुकृत या पटलित हों या नहीं, जो उनमें भिन्न हैं जिनका पोलिविनाइल क्लोराइड से विनिर्माण किया जाता है; और
- (3) नम्य पोलिविनाइल क्लोराइड शीटिंग, शीट, फिल्म, चाहे प्रलाक्ष लेपित या धातुकृत या पटलित हों या नहीं, और से-फर्नट ट्यूब जिनमें कोई टैक्सटाइल सामग्री अंतर्विष्ट नहीं है,

को उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के तीस प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “कड़े” और “नम्य” शब्दों के वही अर्थ हैं जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 140/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982 में हैं।

## No. 99/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 183(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Nos. 70/71-Central Excises, 71/71-Central Excises and 72/71-Central Excises, all dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts—

- (i) rigid polyvinyl chloride boards, sheeting, sheets and films whether lacquered or metallised or laminated or not;
- (ii) rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether lacquered or metallised or laminated or not, other than those manufactured from polyvinyl chloride; and
- (iii) flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets, films lacquered or metallised or laminated or not and lay-flat tubings, not containing any textile material;

falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act at the rate specified in the First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of thirty per cent. ad valorem.

Explanation.—For the purposes of this notification the expressions 'rigid' and 'flexible' have the meaning assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 149/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.

## सं. 100/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 184(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद में 15क की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले कड़े पोलिक्विनाइल क्लोराइड बोर्ड, शीटिंग, शीट और फिल्म को चाहे प्रलाक्ष लेपित या धातुकृत या पटलित हों या नहीं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना, यथास्थिति, उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय ऐसे अतिरिक्त शुल्क के समतुल्य है जिसका ऐसे कड़े पोलिक्विनाइल क्लोराइड बोर्ड, शीटिंग, शीट और फिल्म, चाहे प्रलाक्ष लेपित या धातुकृत या पटलित हों या नहीं, के विनिर्माण में प्रयुक्त सेलोफेन, कागज, सूती फीब्रिक, आगजक, लेपित तांबे की पर्णिकाओं या सादा तांबे की पर्णिकाओं पर पहले ही संदाय कर दिया गया है :

परन्तु यह तब जब कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के संबंध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क में उपदर्शित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'कड़े' शब्द का वही अर्थ है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 149/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982 में है ।

## NO. 100/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 184(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby exempts, rigid polyvinyl chloride boards, sheeting, sheets and films, whether lacquered or metallised or laminated or not, and falling under

sub item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act, as is equivalent to the duty of excise under the said Act or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, already paid on Cellophane, paper, cotton fabrics, adhesives, coated copper foils or plain copper foils, used in the manufacture of such rigid polyvinyl chloride boards, sheeting, sheets and films, whether lacquered or metallised or laminated or not :

Provided that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

Explanation.—For the purposes of this notification 'rigid' has the meaning assigned to it in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 149/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.

## सं. 101/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 185(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद में 15-क की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले कड़े प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीट और फिल्म को, चाहे प्रलाक्ष लेपित या धातुकृत या पटलित हों या नहीं, जो उनसे भिन्न हैं जिनका पोलिक्विनाइल क्लोराइड में विनिर्माण किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना, यथास्थिति, उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय ऐसे अतिरिक्त शुल्क के समतुल्य है जिसका ऐसे कड़े प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीट और फिल्म, चाहे प्रलाक्ष लेपित या धातुकृत या पटलित हों या नहीं, जो उनसे भिन्न हैं जिनका पोलिक्विनाइल क्लोराइड में विनिर्माण किया जाता है, के विनिर्माण में प्रयुक्त सेलोफेन, कागज और सूती फीब्रिक पर पहले ही संदाय कर दिया गया है :

परन्तु यह तब जब कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के संबंध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क में उपदर्शित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'कड़े' शब्द का वही अर्थ है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 149/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 अप्रैल, 1982 में है ।

## NO. 101/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 185(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether lacquered or metallised or laminated or not, other than those manufactured from polyvinyl chloride, and falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act, as is equivalent to the duty of excise under the said Act or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, already paid on cellophane, paper or cotton fabrics used in the manufacture of such rigid plastic boards, sheeting, sheets or films, whether lacquered or

metallised or laminated or not, other than those manufactured from polyvinyl chloride :

Provided that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

Explanation.—For the purposes of this notification 'rigid' has the meaning assigned to it in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 149/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.

#### सं. 102/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 186(अ) :—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के अधिनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 76/71-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 की अधिसूचना करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 15-क की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले नम्य पोलिविनाइल क्लोराइड शीटिंग, शीट, और फिल्म को जिनमें टेक्सटाइल सामग्री अन्तर्बिष्ट नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे नम्य पोलिविनाइल क्लोराइड शीटिंग, शीट और फिल्म का जिनमें कोई टेक्सटाइल सामग्री अन्तर्बिष्ट नहीं है, उक्त पहली अनुसूची की, यथास्थिति, मद सं. 19, 22 या 22-ख के अन्तर्गत आने वाले सेल्युलोसी व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री से संसृजित या लेपित टेक्सटाइल फैब्रिकों के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग किया जाता है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'नम्य' शब्द का वही अर्थ है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 149/82-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 22 अप्रैल, 1982 में है ।

#### NO. 102/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 186(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets and films not containing any textile material and falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that such flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets and films not containing any textile material are used within the factory of production in the manufacture of textile fabrics impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials, falling under Item No. 19, 22 or 22B as the case may be, of the said First Schedule.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression "flexible" has the meaning assigned to it in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 148/82-Central Excises, dated 22nd April, 1982.

#### सं. 102/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 187(अ) :—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 19, 22 या 22-ख के अन्तर्गत आने वाले सेल्युलोसी व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री से संसृजित या लेपित टेक्सटाइल फैब्रिकों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है जिसका उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 15-क की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले और ऐसे सेल्युलोसी व्युत्पादों या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री से संसृजित या लेपित टेक्सटाइल फैब्रिकों के विनिर्माण में प्रयुक्त ऐसे नम्य पोलिविनाइल क्लोराइड शीटिंग, शीट और फिल्म पर जिनमें टेक्सटाइल सामग्री अन्तर्बिष्ट नहीं है, पहले ही संदाय कर दिया गया है :

परन्तु यह तब जबकि इस अधिसूचना के अधीन छूट के सम्बन्ध में, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क में उप-वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'नम्य' शब्द का वही अर्थ है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 149/82-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 22 अप्रैल, 1982 में है ।

#### No. 103/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 187(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts textile fabrics impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other artificial plastic materials, falling under Item No. 19, 22 or 22B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act as is equivalent to the duty of excise under the said Act, already paid on flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets and films not containing any textile material and falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the said First Schedule and used in the manufacture of such textile fabrics impregnated or coated with preparations of cellulose derivatives or of other plastic materials :

Provided that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression "flexible" has the meaning assigned to it in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 149/82-Central Excises, dated the 22nd April, 1982.

#### सं. 104/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 188(अ) :—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, (राजस्व और बीमा विभाग) या (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाएं जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएंगी ।

सारणी		
क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	78/73-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973	उक्त अधिसूचना में, परन्तुकों का लोप किया जाएगा ;
2.	186/73-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 सितम्बर, 1973	उक्त अधिसूचना में, दोनों परन्तुकों का लोप किया जाएगा ।
3.	50/75 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975	उक्त अधिसूचना में दोनों परन्तुकों का लोप किया जाएगा ।
4.	65/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना में, पर-शुल्क का लोप किया जाएगा ।
5.	195/79-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 31 मई, 1979	उक्त अधिसूचना में, पर-शुल्क का लोप किया जाएगा ।
6.	265/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1982	उक्त अधिसूचना में, पर-शुल्क के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् : “परन्तु यह तब जब कि जहाँ ऐसा उपयोग उत्पादन के कारखाने में अन्वित किया जाता है वहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए ।” ।
7.	275/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1982	उक्त अधिसूचना में, पर-शुल्क के खण्ड (ii) का लोप किया जाएगा ।

## No. 104/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 188(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or (Department of Revenue), as the case may be, specified in column (2) of the Table given below, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

## TABLE

Sl. No.	Notification No. and Date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	78/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.	In the said notification, the proviso shall be omitted;
2.	186/73-Central Excises, dated the 28th September, 1973	In the said notification, both the provisos shall be omitted;
3.	50/75--Central Excises, dated the 1st March, 1975.	In the said notification, both the provisos shall be omitted;
4.	65/76-Central Excises dated the 16th March, 1976.	In the said notification the proviso shall be omitted;
5.	195/79-Central Excises, dated the 31st May, 1979	In the said notification, the proviso shall be omitted;
6.	265/82-Central Excises, dated the 13th Nov., 1982.	In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :— “Provided that where such use is elsewhere than in the factory of production, the procedure set out in Chapter X of the Central Excises Rules, 1944 is followed .”
7.	275/82-Central Excises, dated the 13th Nov., 1982.	In the said notification, clause (ii) of the proviso shall be omitted.

## सं. 105/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा. का. नि. 189(अ) :**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 43 के अन्तर्गत आने वाली धूमित ब्लोम पूर्नी को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि ऐसी धूमित ब्लोम पूर्नी का उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 43 के अन्तर्गत आने वाले ऊन चूड़ा के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग किया जाता है और जिस पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क पूर्णतः या भागतः उद्ग्रहणीय है ।

## No. 105/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 189 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 82/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, the Central Government hereby exempts carded gilled slivers, falling under Item No. 43 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that such carded gilled slivers are used within the factory of production in the manufacture of wool tops.

falling under Item No. 43 of the said First Schedule and on which duty of excise under the said Act is leviable whether in whole or in part.

सं. 108/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा. का. नि. 190(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 75/73-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 को अधिष्ठात करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 63 के अंतर्गत आने वाले तार के रस्सों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे तार के रस्सों का उक्त पहली अनुसूची की मद सं. 63 के अंतर्गत आने वाले तार के रस्सों के और विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग किया जाता है और जिन पर उक्त अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क पूर्णतः उद्ग्रहणीय है ।

No. 108/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 190 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 108/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts parts of zip or slide fasteners, falling under sub-item (2) of Item No. 53 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that such parts of zip or slide fasteners are used within the factory of production for the manufacture or assembling of zip or slide fasteners.

सं. 107/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा. का. नि. 191(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 108/71-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 मई, 1971 को अधिष्ठात करते हुए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 53 की उपमद (2) के अंतर्गत आने वाले जिप या स्लाइड बंधकों के भागों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे जिप या स्लाइड बंधकों के भागों का, जिप या स्लाइड बंधकों के विनिर्माण या समंजन के लिए उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग किया जाता है ।

No. 107/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 191 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, the Central Government hereby exempts wire ropes, falling under Item No. 63 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that such wire ropes are used within the factory of production in the further manufacture of wire ropes, falling under Item No. 63 of the said First Schedule and on which the whole of the duty of excise under the said Act is leviable.

सं. 108/83-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा. का. नि. 192(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 18 की उपमद 3(1), और मद सं. 18क(1) के अंतर्गत आने वाले क्रमशः सेलुलोसी कते सूत और कपास के सूत को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "परिरूपित सूत" कहा गया है), उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है जिसका परिरूपित सूत के विनिर्माण में प्रयुक्त सेलुलोसी कते सूत और कपास के गूँ पर पहले ही संदाय कर दिया गया है ।

No. 108/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 192 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cellulosic spun yarn and cotton yarn (hereinafter referred to as 'finished yarns'), falling under sub-item III(i) of Item No. 18 and Item No. 18A (i), respectively of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act as is equivalent to the duty of excise under the said Act, already paid, on cellulosic spun yarn and cotton yarn used in the manufacture of finished yarns.

संख्या 109/83-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

**सा. का. नि. 193(अ).**—केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का साम) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी ।

#### सारणी

(1)	(2)	(3)
1. 36/79 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979	उक्त अधिसूचना में, पर-लुक में—	(i) खंड (i), (ii) और (v) का जिसके अंतर्गत उनका स्वपटीकरण है, नॉन किया जाएगा ;
		(ii) खंड (iii), (iv) और (vi) क्रमशः खंड (i), (ii) और



1	2	3
		(iii) के रूप में पुनः संश्लेषित किए जाएंगे।
2.	32/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उक्त अधिसूचना में,— तारीख 28 फरवरी, 1982	(i) पहले परन्तुक का लोप किया जाएगा ; और (ii) दूसरे परन्तुक में, "यह और कि" शब्दों का लोप किया जाएगा।

## No. 109/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 193 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. Notification No. and Date No.	Amendment
(1)	(2)
(1)	(2)
1. 36/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979	In the said notification, in the proviso— (i) clauses (i), (ii) and (v), including the Explanation thereto, shall be omitted; (ii) clauses (iii), (iv) and (vi) shall be renumbered as clauses (i), (ii) and (iii) respectively.
2. 32/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982	In the said notification— (i) the first, proviso shall be omitted; and (ii) in the second proviso, the word 'further' shall be omitted.

## सं. 110/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 194(अ).**—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 का 1 (की पहली अनुसूची की मद सं. 4 की उपमद सं 2(6) के अंतर्गत आने वाली नमक को जिसका मूल्य दस रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है (जिसे हमें इसके पश्चात् "परिरूपित नमक" कहा गया है), उक्त अधिनियमों के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देगी है जितना उक्त अधिनियमों के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है जिसका ऐसी नमक पर पहले ही संदाय कर दिया गया है जिसका मूल्य दस रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है और जिसमें परिरूपित नमक का विनिर्माण किया गया है।

## No. 110/83-CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 194 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts snuff of which value exceeds rupees ten per kilogram and falling under sub-item No. II(6) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as 'finished snuffs'), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Acts, as is equivalent to the duty of excise under the said Acts already paid on snuff of which the value does not exceed rupees ten per kilogram from which the finished snuff has been manufactured.

## सं. 111/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा.का.नि. 195(अ).**—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 4 की उपमद 2(3)(2) के अंतर्गत आने वाली वीडियों को उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त अधिनियमों के अधीन ऐसे उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है जिसका ऐसी वीडियों पर पहले ही संदाय कर दिया गया है जिसमें वीडियों का विनिर्माण किया गया है।

वी. लक्ष्मी कुमारन, अवर सचिव

## No. 111/83- CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 195 (E)**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) the Central Government hereby exempts biris, falling under sub-item II(3)(ii) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon both under the said Central Excises and Salt Act and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, as is equivalent from to the duty of excise under the said Acts, already paid on biris from which biris have been manufactured.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

